

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

क्रम संख्या

२२२

काल न०

२२१११
५७

खण्ड

ज्योति प्रसाद

(जीवन चरित्र, लेखांश और कविताएं)



लेखक तथा सम्पादक

'प्रभाषराली जीवन' 'सदाचार शिष्टाचार और स्वास्थ्य'
आदि पुस्तकों के रचयिता

ई दयाल जैन बी०ए० (अनर्स०) बी०टी० हैडमास्टर
एस० एस० एल० जैन हाई स्कूल, मेल्सा ।



प्रकाशकः—

लाला जौहरी मल जैन सराफ,
दरीवा कलां देहली ।

[म वार १०००]

[मूल्य 11]

द्रक—नेशनल प्रिंटिंग पब्लिशिंग हाउस, बलीमारान देहली ।

समर्पण

श्रद्धेय बाबू सूरजभान जी,

‘स्वर्गीय जैन कवि’ बाबू ज्योति प्रसाद जी को बनाने वाले आप ही हैं । इतना ही क्यों, सहस्रों कष्ट सहकर तथा अपने तन मन और धन को लगाकर वर्तमान जैन समाज को नव जीवन प्रदान करने वाले तथा उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाले भी आप ही हैं । अतः मैं स्वर्गीय जैनकवि का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं आदि का यह संग्रह बड़ी श्रद्धा के साथ आपको भेंट करता हूँ ।

आपका चिर प्रशंसक,

माई दयाल जैन ।



जैनकवि स्व० श्री बा०ज्योतिप्रशादजी जैन
सं० जैनप्रदीप—देववन्द. यु० पी०

धन्यवाद

इस पुस्तक के छपाने में निम्न लिखित महानुभावों से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। इसके लिये मैं उनका हृदय से आभारी हूँ।

- १—एक वकील साहब देहलो। २५)
- २—श्रीमान ला० मन्मथ जी बैङ्कर, मेरठ। २०)
- ३—दानवीर श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्दजी बैङ्कर भेलसा २०)
- ४—श्रीमान लाला तनसुख राय जी मैनेजिंग डायरेक्टर
तिलक बीमा कम्पनी, न्यू० देहलो। १५)
- ५—श्रीमान बाबू विश्वम्भर दास जी गार्गीय, फाँसी १०)
- ६—श्रीमान लाला जीहरी मलजी सराफ, देहली। १०)
- ७—श्रीमान बाबू अजित प्रसाद जी एम० ए० एल० एल० बी०
एडवोकेट, लखनऊ १०)
- ८—श्रीमान बाबू अजितप्रसादजी बी. ए. मालिक
कैम्ब्रिज बुक कम्पनी, देहली। १०)
- ९—श्रीमान् बाबू चन्दूलालजी बां. ए. एल. एल बी.
वकील, देहली। १०)
- ११—श्रीमान बाबू लाल चन्दजी बी. ए. एल. एल,
बी. एडवोकेट, रोहतक १०)
- १०—श्रीमान पं० जुगलकशोरजी मुस्तार अधिष्ठाता
वीर सेवा मन्दिर, सरसावा। १०)
- १२—श्रीमान बाबू जैन दास जी एम. एससी.एल. एल
बी० वकील, देहली। १०)
- १३—श्री० डा० जयप्रकाश साहब हटशमशाबाद, आगरा १०)
- १४—श्रीमान पं० चन्द्रकुमार जी एम. ए. एल. एल.
बी, सेक्रेट्री भारत बीमा कम्पनी, न्यू देहली। १०)
- १५—श्रीमान ला० उमसेन जी, जैन हाईस्कूल बड़ौत ५)

नम्र निवेदन

अब से १८-१९ वर्ष पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्वर्गीय बाबू ज्योति प्रसादजी से मेरा प्रथम परिचय हुआ था और वह बढ़ता हुआ मित्रता की हद्द तक पहुँच गया था। इसके अतिरिक्त मेरी उनसे और कोई रिश्तेदारी न थी, जैसा कि कुछ आदमियों को भ्रम हो गया है।

उनके स्वर्गवास की खबर पढ़ते ही मेरे मन में विचार हुआ कि अच्छा हो यदि उनका जीवन-चरित्र लिखा जाय तथा उनकी कविताएँ आदि संग्रह करके प्रकाशित की जाय। श्रद्धेय पं० जुगल-किशोरजी मुख्तार तथा मित्रवर बाबू विश्वम्भरदास जी गार्गीय से इस बारे में बात-चीत हुई। दोनों ने इस विचार को न केवल पसन्द ही किया बल्कि मुझे समुचित प्रोत्साहन और सहायता का वचन भी दिया। जैनसमाज के अन्य कई महानुभावों ने भी इस विचार का स्वागत किया और इस काम की सफलता के लिये सद्भावनाएँ प्रगट कीं। पर मैं चाहता था कि इस कार्य को “स्वर्गीय जैन कवि” का कोई दूसरा गहरा मित्र हाथ में लेता जो उनके अंतरंग से भी पूर्णरूप से परिचित होता।

उनकी मृत्यु के तीन महीने बाद ही सन् १९३७ की गर्मियों की छुट्टियों में सामग्री इकट्ठी करने के वास्ते मैं देवचन्द्र चला गया

(४)

वहां चिरंजीव आदीश्वर प्रसाद 'जैन कवि' के भतीजे ने मुझे हर प्रकार का आराम दिया और तमाम सामग्री मेरे सामने उपस्थित करदी तथा मुझे देनवन्द के प्रमुख व्यक्तियों और बहुत से आदमियों से मिलाया जिनसे मुझे उनके बारेमें बहुत सी बातें मालूम हुईं । मैंने उनके बारे में सभी बातें तथा गुण और दोष यथाशक्ति मालूम करने का प्रयत्न किया । वहां मैंने १३-१४ घण्टे प्रतिदिन एक सप्ताह काम करके 'जैन प्रदीप' आदि पत्रों की फाइलों तथा उनकी रचनाओं के कोई सोलह सत्तरह हजार से अधिक पृष्ठों से नोट्स लिए और कविताएं भी कुछ नकल की । नकल करने के काम में मुझे श्रीयुत श्रीराम गुप्ता से विशेष सहायता मिली । परिश्रम पूरा काम करने और खाली बातें करने में कितना अन्तर है, यह बात नवयुवक श्रीरामजी से सीख सकते हैं । समाचार पत्रों में अपील पर अपील करने पर भी कोई सामग्री न मिली और न ही सिवाय दो सज्जनों के किसी से सहायता मिली । इससे जहाँ समाज की ऐसे कार्यों के प्रति उदासीनता प्रगट होती है, वहां यह भी प्रगट होता है कि जैन पत्रों का अपने पाठकों पर कितना प्रभाव है । अन्य देशों में एक पत्र के पाठक उस पत्र की अपील पर हर प्रकार की सहायता करने को तैयार रहते हैं ।

जिन महानुभावों ने मेरे कहने मात्र ही से इस काम में बन्दे से सहायता की है, उनके नाम अन्यत्र दिये गए हैं । मैं इन महानुभावों के नामों को प्रसिद्ध करने के लिये नहीं बरन् दूसरों को ऐसे कामों में हाथ बटाने की प्रेरणा करने के लिये दे रहा हूँ, कारण

कि ये सभी महानुभाव जैन समाज के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इस पुस्तक के प्रकाशन का समस्त श्रेय इन्हीं को मिलना चाहिये। प्रकाशन खर्च के बढ़ जाने या पूरा न होने का भय एक नंगी तलवार के समान मेरे सर पर हर समय लटकता रहता था। देवबन्द से बिल्कुल सहायता न मिलने और दो तीन महानुभावों से चन्दे के रुपये न आने के कारण मुझे कुछ हानि उठानी पड़ रही है। यह एक कटु अनुभव है। यह पुस्तक किसी स्वार्थ भाव से नहीं लिखी गई है। यदि घाटे का रुपया पूरा होने पर कुछ बच गया तो वह ऐसे ही कामों पर खर्च किया जायगा यह पुस्तक किसी स्वार्थ भाव से नहीं लिखी है।

जैन कवि के अन्यतम मित्र और प्रसिद्ध विद्वानश्रद्धेय पंडित जुगलकिशोरजी मुख्तार ने इस पुस्तक का संशोधन करके, मान्यवर बाबू अजित प्रसाद जी वकील लखनऊ तथा भूतपूर्व जज हाईकोर्ट बीकानेर और जाबरा ने प्रस्तावना लिखकर, मान्यवर ला० जौहरी-मल जी सराफ ने कष्ट सहकर चन्दे तथा प्रकाशन कार्य में सहयोग देकर और मित्रवर लाला पन्नालाल जी अग्रवाल ने प्रूफ देख कर जो सहायता दी है, उसका मैं हृदय से आभारी हूँ।

फारसी भाषा के जगद्विख्यात कवि सादी का कथन है कि—
 نام نوبک، فتکام ضائع مکن
 जिसका अर्थ है 'गुजरे हुआओं का पवित्र नाम नष्ट न कर।' समाज के एक प्रसिद्ध निस्वार्थ कार्यकर्ता तथा कवि की स्मृति कायम रहे, उसकी कविताएं नष्ट न हों और समाज को आगे भी उसकी कृतियों तथा जीवन से उपदेश मिलता

(४)

रहे, इसी विचार से यह काम किया गया है। इस पुस्तक में मैंने जो कुछ लिखा है वह प्रस्तुत सामग्री तथा अपने परिचय के आधार पर सचाई निष्पत्तता और साहस के साथ लिखा है। एक आदमी के बारे में हम सब एक राय नहीं रखते, इसलिये मेरी कई बातों से दूसरे महानुभावों को मतभेद हो सकता है। जैसा मैंने उनको देखा तथा समझा है, वैसा ही चित्रित करने का प्रयत्न किया है।

यदि इस पुस्तक के अध्ययन से पाठकों के हृदय में निस्वार्थ समाज सेवा, प्रेम, परोपकार, कर्मशीलता तथा काव्य प्रेम के कुछ भी भाव जागृत हुए, तो मैं अपने परिश्रम को निष्फल न समझूंगा।

भेलसा (रियासत ग्वालियर)

माईदयाल जैन

अश्विन शुक्ला अष्टमी,

बी० स० २४६४

प्रस्तावना



श्री ज्योतिप्रसाद जी के जीवन चरित्र की प्रस्तावना लिखने की प्रार्थना, विज्ञान सम्पादक ने, स्वर्गीय जैन वीर के संरक्षक, पथ प्रदर्शक, मित्र, और गुरुवर्य श्री सूरजभान जी से की थी। प्रस्तुत पुस्तक में श्री सूरजभान जी का चित्र कई स्थान पर आया है। और इस कारण उन्होंने प्रार्थना अस्वीकार कर दी।

मेरा परिचय श्री ज्योतिप्रसाद जी से ३०-३५ बरस का है उन के जीवन की दो चार इनी गिनी विशेषता ही ऐसी हैं, जिन से उनका नाम जैन जाति की नेता श्रेणी में चिरस्थायी रहेगा।

“जैन कवि” के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करने वालों में वह अग्रगामी हैं।

३० बरस की उम्र में सन्तान रहित पत्नी वियोग होने पर भी पुनर्विवाह का विचार न कर और ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करके श्री ज्योतिप्रसाद ने जैन समाज को आदर्श मार्ग दिखला दिया है।

ज्योतिप्रसाद जी किसी दलबन्दी या पार्टी में न थे। वह स्वतन्त्र

विचार करने वाले, निर्भीक काम करने वाले, अथक परिश्रमी, धुन के पक्षे, श्रद्धानारूढ़ थे । समाज सेवा और धर्म प्रभावना के किसी काम में वह कभी किसी से पीछे नहीं रहे । आगे बढ़ने की आदत न थी । मिलकर साथ काम करना वह अपना कर्तव्य समझते थे ।

सम्पादक महोदय का यह कबन कि उनमें “लोकेशना” का भाव कमजोरी की हद तक था, मुझे ठीक नहीं जँचता । मैंने उनके जीवन भर में ऐसी कोई बात न देखी न सुनी जिससे यह नतीजा निकले कि श्री ज्योतिप्रसाद ने किसी बुरी बात को आवश्यक समय पर इस डर से छिपाया हो, या छिपाने का प्रयत्न किया हो, कि स्पष्ट कहने या करने से लोग उनको बुरा कहेंगे, या समझेंगे ।

रही दूसरी बात कि उनमें किसी एक सुधार और काम के पीछे पड़ने की आदत और धुन न थी । यहाँ भी मुझे विज्ञसम्पादक से इत्तिफाक नहीं है । पिछले ४० बरस में बहुतेरे जैनवीरों ने बहुतेरे काम उठाये, किन्तु समाज ऐसा रूढ़िग्रस्त, अशिक्षित और संकुचित विचार है कि किसी की धुन और लगन कुछ न जान पड़ी । और ऐसी अवस्था में यह त्रुटिसूचक समालोचना सबके सम्बन्ध में लागू हो सकती है । दानवीर सेठ माणिक चन्द J.P. ने छात्रालय स्थापित करने में अपनी भरपूर शक्ति लगादी, किन्तु समाज ने खुले दिल से उनका साथ न दिया । जैन कालिज के लिये कितने बरस से कितना कुछ किया गया, किन्तु अड़झल लगाने वाले रुकावटें डालते ही रहे, और नतीजा कुछ न निकला । क्या किसी को जैन कालिज की लगन न थी ? ऋषभ ब्रह्मचर्या-

धर्म के वास्ते कितनों ने कितना आत्मोत्सर्ग किया पर उनका सब प्रयत्न स्वप्नक्रिया मात्र रह गया । श्री ज्योतिप्रसाद ने अपनी पूरी शक्ति “जैन प्रचारक” “जैन प्रदीप” तथा “जैन नारी हितकारी,, के चलाने में लगादी, और तन मन धन से धुन के पकड़े होकर इस काम के पीछे पड़े रहे किन्तु समाज ने सहयोग न दिया, और विवश होकर उनको अपना उद्देश्य छोड़ना पड़ा ।

मुझे कोई ऐसा प्रसंग नहीं मालूम हुआ कि जिस से यह आवश्यकीय अनुमान किया जासके कि श्री ज्योतिप्रसाद के अन्तिम ८-१० वरस में बढ़पन प्रियता और अपनी प्रशंसा मुनने के भाव प्रकट होने लगे थे ।

सामान्यतया तो यह सब त्रुटियां ऐसी हैं जिन से कोई बचाहो ।

कविता संग्रह में यदि “जैन साखोच्चार” भी संकलित कर लिया जाता तो अच्छा होता । अग्रवालों में प्रचलित आदीश्वर व्याह विधान साखोच्चार “वंदों देव युगादि जिन” आदि से श्री ज्योतिप्रसाद की रचना पदलालित्य, अर्थगौरव, भाव और भाषा में कहीं बढ़ी चढ़ी है ।

विज्ञ और उत्साही सम्पादक ने एक आधुनिक जैन वीर का जीवन चरित्र लिखकर समाज का भारी उपकार किया है । खेद है कि उनको इस काम में समाज से आर्थिक वा साहित्यिक प्रोत्साहन यथेष्ट रूप में नहीं मिला ।

समाज से मेरी प्रार्थना है, और मुझे आशा है, कि प्रकाशित

पुस्तक का जैन युवक मण्डल हार्दिक स्वागत करेगा । जितनी प्रतियां छपी हैं हाथों हाथ बिक जावेंगी, और शीघ्र ही दूसरी आवृत्ति की मांग जोरों से होगी । ऐसा होने से विद्वत् सम्पादक श्री सुरजभान जी जैसे अन्य जैन वीरों का आख्यान लिखने में प्रोत्साहित होंगे, और समाजोन्नति तथा धर्म प्रभावना के मार्ग की रेखा स्पष्ट नजर आने लगेगी ।

आश्विन प्रतिपदा, २४६४
अजिताश्रम,
लखनऊ ।

अजित प्रसाद



जीवन चरित्र

प्रसिद्ध अङ्गरेज लेखक कारलाइल का कथन है कि मनुष्य को मनुष्य जाति में बहुत बड़ी दिलचस्पी है। यही कारण है कि हम दूसरे आदमियों—प्रायः महापुरुषों—के जीवन चरित्रों, आत्म कथाओं, डायरियों, संस्मरणों और अनुभवों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। मनुष्य स्वभाव से उत्सुक, गुप्त बातों को जानने का इच्छुक और नकल करने वाला होता है। इस लिये मनुष्य दूसरों के जीवन चरित्र आदि पढ़कर उनके अनुभव, गुप्त बातें, तथा दुःख सुख आदि की बातें जानना चाहता है और उनके अच्छे कामों की नकल करना चाहता है। सभी आदमियों के जीवन की बड़ी बड़ी बातें समान सी होती हैं, परन्तु भेद यह होता है कि एक आदमी एक परिस्थिति में एक प्रकार से काम करता है और दूसरा आदमी और तरह से। यह भेद ही एक आदमी को सफल तथा महान बनाता है और दूसरे को असफल और छोटा बनाता है। इसी लिये भिन्न भिन्न लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सभी क्षेत्रों के महापुरुषों के बहुत से जीवन चरित्र होने चाहिये।

जीवन चरित्रों के उपयोग और महत्व को एक कवि ने बड़ी सुन्दरता के साथ इस पद्य में कह दिया है:—

Lives of great men all remind, us

We can make our lives sublime,

And parting leave behind us,
Footprints on the sands of time,

भावार्थ यही है कि महापुरुषों के जीवन चरित्र हमें यह बात सिखाते हैं कि हम भी अपने जीवनो को महान बना सकते हैं और मरते समय अपना नाम छोड़ सकते हैं। देशभक्त जार्ज बाशिगटन के जीवन चरित्र को पढ़ कर ही अब्राहम लिंकन देशभक्त बन गया। महात्मा गांधी पर श्री रायचन्द्र जी और टाल-स्टाई के जीवनो का बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त जीवन चरित्रों के अध्ययन से हम अपने इस जीवन को सुन्दर तथा सफल रूप से व्यतीत करने की कला को सीखते हैं तथा अपने मनो का संस्कृत और चरित्र को दृढ़ करते हैं। जीवन चरित्रों का अध्ययन साहित्यिक आनन्द (Literary Pleasure) देता है। जीवन चरित्र महापुरुषों के जीवनो की स्मृतियों को ताजा करते हैं और हमें उनकी साक्षात् सगति का लाभ प्रदान करते हैं। जिन महापुरुषों ने अपने कामों से इतिहास पर छाप लगाई है, इतिहास के प्रवाह को बदल दिया है, संसार को बड़े बड़े दर्शन महान विचार, बड़े बड़े आविष्कार और महान आन्दोलन दिये हैं जीवन चरित्रों से उनके व्यक्तित्व का पता लगता है। जीवन चरित्रों की व्यवहारिक उपयोगिता यह है कि उनके अध्ययन से हमें शान्ति मिलती है, हमारी सहानुभूति का क्षेत्र बढ़ता है, हमारा स्वार्थ भाव दूर होता है, हमें प्रोत्साहन तथा सच्चा मार्ग मिलता है और उनके उच्चादर्शों से हमारे हृदयों में महत्वाकांक्षा पैदा होती है।

इसी लिये जीवन चरित्र साहित्य का एक बड़ा अङ्ग है। इतिहास में देशों, राष्ट्रों और जन समूह के आन्दोलनों का वर्णन तथा उनके क्रमिक (Gradual) उत्थान या पतन का जिकर होता है, परन्तु जीवन चरित्र में एक आदमी की जीवन संमृत्यु तक की कहानी होती है और उसमें दूसरे आदमियों का उल्लेख—चाहे वह आदमी कितने भी बड़े क्यों न हो—गौण रूप से आता है। पुराने जीवन चरित्रों में लेखकों ने अपने चरित्र नायकों (Heroes) की प्रतिष्ठा तथा कीर्ति का गाना गाया है और उनको देवताओं के रूप में संसार के सामने पेश किया है। प्रत्यक्ष उपदेश उनमें टूंस टूंस कर भरा होता है। बुरे आदमियों को को महा राक्षस, महा पतित और अधम चित्रित किया है। उन में चरित्र नायक की परिस्थिति और उसके क्रमिक विकास का बिलकुल पता नहीं मिलता। घमत्कारों, ऋद्धियों और इसी प्रकार की बातों का इतना संग्रह कर दिया जाता है कि पढ़ने वाले के हृदय में यह भाव पैदा हो जाता है कि यह किसी आदमी का जीवन चरित्र नहीं है बल्कि किसी अलौकिक और अद्भुत व्यक्ति का चरित्र है वह समझने लगता है कि ये सब बातें उसकी पहुँच से परे हैं। इसलिये इस प्रकार के जीवन चरित्र आजकल कम पसन्द किये जाते हैं और उन से पढ़ने वाले की उत्सुकता को सतोष नहीं मिलता। वर्तमान काल में जीवन चरित्र की श्रेष्ठता इसी बात में मानी जाती है कि वह किसी आदमी का सच्चा चित्र हो और उससे उस आदमी की परिस्थिति का पूरा पता लग जाय क्योंकि

परिस्थिति (Enviornments) के ज्ञान के बिना चरित्र नायक के गुणों या दुर्गुणों का तुलनात्मक पता नहीं लग सकता। जीवन चरित्र में चरित्र नायक के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं का हल होना चाहिये। वर्णनात्मक जीवन चरित्र से आलोचनात्मक जीवन चरित्र अच्छा माना जाता है। जीवन चरित्र में सचाई कितनी होनी चाहिए इसके बारे में फ्रान्स के प्रसिद्ध विचारक तथा लेखक वोल्टेयर (Voltair) का यह वाक्य याद रखना चाहिए। “We owe consideration to the living, to the dead we owe truth only” अर्थात् जीवित आदमियों का हमें आदर और लिहाज करना चाहिये, परन्तु मृत आदमियों के लिए हमे सच्चाई से काम लेना चाहिये। पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सचाई का आशय नगापन नहीं है।

जीवन चरित्रों से भी अधिक लाभदायक आत्मचरित्र (autobiography) होता है। परन्तु आत्मचरित्र का लिखना कठिन है और बिरले ही आदमी आत्म चरित्र सफल रूप से लिख सकते हैं। बड़े आदमियों के लिखे पत्र तथा उनके पास आए हुये पत्र भी हमें उनके बारे मे बहुत सी बातें बता सकते हैं। इस लिये पत्रों के संग्रह भी प्रकाशित होने चाहिये। व्यक्तिगत डायरियां भी कम उपयोगी नहीं होती। एक लेखक का तो यह कथन था कि वह किसी आदमी का चरित्र (character) उसकी आमद और खर्च की बही को देखकर बता सकता है।

परन्तु पत्र, डायरियां, खर्च बही जीवन चरित्रों या आत्म चरित्रोंका का स्थान नहीं ले सकते, पर इनका संग्रह होना आवश्यक है।

जीवन चरित्र लेखक में कुछ आवश्यक गुण होने चाहिये जैसे अपने चरित्र नायक में बड़ी श्रद्धा, सत्य प्रेम, धुन, निर्दयता पूर्वक गहरा देखने की शक्ति, धैर्य, स्वाज, ऊचित सामग्री चुनने और छोड़ने की शक्ति (Power Selection and Omission) और समानता (Proportion) के साथ लिखने की आदत होनी चाहिए। जीवन चरित्र लिखना भी कविता लिखने के समान है और जैसे अच्छे कवि पैदायशी होते हैं। वैसे ही अच्छे चरित्र लेखक भी पैदायशी होते हैं। एक सफल चरित्र लेखक देश की बड़ी सेवा करता है। वह एक मृत महापुरुष को दुबारा बनाकर जनता के सामने पेश करता है। वर्तमान शैली की जीवन चरित्र लेखन—कला अर्थां अपनी आरम्भ अवस्था में ही है। यूरोप और अमेरिका में जीवन चरित्रों का इतना प्रचार है कि वहां सभी क्षेत्रों के बड़े बड़े आदमियों के बहुत से जीवन चरित्र मिलते हैं तथा भिन्न २ दृष्टि कोणों से लिखे हुए एक आदमी के कई चरित्र मिलते हैं। उनके पत्र और डायरियां तक छपती हैं। लेखकों की तमाम रचनाओं के संग्रह निकाले जाते हैं। बड़े आदमियों से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री इकट्ठी की जाती है। एक एक जीवन चरित्र की सहस्रों प्रतियां चन्द दिनों में बिक जाती हैं। आप को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जर्मन डिक्टेटर हिटलर के एक अंग्रेजी जीवन चरित्र की चालीस हजार प्रतियां चार वर्ष

में बिक गई और इंग्लैण्ड के भूतपूर्व सम्राट एडवर्ड अष्टम के एक ही जीवन चरित्र के आठ संस्करण तीन महीने में छप गए। वहाँ छोटे बड़े सस्ते तथा राज संस्करण निकल जाते हैं। इसी में उन देशों की उन्नति का रहस्य है।

भारत वर्ष में जीवन चरित्रों की दशा संतोष जनक नहीं है। पिछले वर्षों में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आत्म चरित्रों की गूंज रही है और निसंदेह वे महान कृतियाँ हैं। पुराणों और कथाओं की शक्ल में पुराने जीवन चरित्र मिलते हैं। गोस्वामी तुलसी कृत रामायण जनता का सबसे प्यारा जीवन चरित्र है। परन्तु प्रायः आत्म चरित्र लिखने का रीवाज न था। अपने बारे में सभी चुप हैं। बड़े २ राजाओं और विद्वानों का हाल मिलना कठिन हो रहा है। शिक्षा का अभाव होने से जीवन चरित्रों की बिक्री भी कम होती है। फिर एक महापुरुष के कई जीवन चरित्र कैसे हों? अंग्रेजी में ब्रिटासठ भागों में "Dictionary of National Biography" राष्ट्रीय जीवन चरित्र कोष है। भारतवर्ष में अभी इस की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं। महापुरुषों के जीवन चरित्र सम्बन्धी सामग्री संग्रह होनी चाहिए।

जैन समाज के जीवन चरित्र सम्बन्धी साहित्य के बारे में दावतें लिखकर मैं इस लेख को समाप्ति करना चाहता हूँ। जैन समाज के पुराण और जीवन-चरित्रों का पुराना साहित्य काफी है। परन्तु नवीन ढंग से लिखा हुआ साहित्य नहीं के बराबर है। तार्थ-

करो, आचार्यों, जन लेखकों, कवियों, सम्राटों, महापुरुषों और प्रसिद्ध स्त्रियों के जीवन चरित्र नहीं मिलते। पंडित जुगल किशोरजी का लिखा हुआ 'स्वामी समंत भद्र' एक उच्च कोटि की रचना है। अन्य आचार्यों के जीवन चरित्र भी उसी ढंग से तय्यार होने चाहिए। कितने दुख की बात है कि भगवान महावीर तक का भी कोई प्रामाणिक जीवन चरित्र नहीं है। जब समाज के सामने कोई आदर्श ही नहीं है, तब उन्नति कैसे हो सकती है? वर्तमान के बड़े आदमियों में सेठ माणिकचन्दजी, सर सेठ हुकमचन्द जी, तथा प्रसिद्ध जैन प्रकाशक देवेन्द्र कुमार के चरित्र लिखे गये हैं जीवन चरित्र सम्बन्धी साहित्य की बिक्री बिलकुल नहीं है। क्या जैन समाज साहित्य सम्बन्धी अपनी इस कमी को पूरा करने की तरफ़ ध्यान देगा ?

नोट—इस निबन्ध के लिखने में ऐस्किथ के निबन्ध (Biography) वैनसन लिखित निबन्ध (Art of Biography) और इन्साइक्लो पीडिया ब्रिटेनिका से सहायता ली गई है और लेखक उन का आभार प्रकट करता है।



विषय सूची

विषय	पृष्ठ
(अ) नम्रनिवेदन	
(आ) प्रस्तावना	
(इ) जीवन चरित्र	
१—जन्मकालीन देश और समाज,	१
२—जन्म और शिक्षा,	५
३—बाबू सूरज भान जी का प्रस्ताव,	९
४—आकृति और चरित्र,	१४
५—आजीविका,	१८
६—कुटुम्ब जीवन और भीष्म प्रतिज्ञा,	२१
७—सम्पादक रूप में ज्योति प्रसाद	२३
८—समाज सेवा,	२८
९—धर्म पालन और धार्मिक विचार,	३४
१०—विधवा विवाह और बाबू ज्योति प्रसाद,	३७
११—विरोध,	४२
१२—रचनार्थ,	४४
१३—सामाजिक कामों से जुदाई और स्वर्गवास	४९
१४—औरों की दृष्टि में ज्योति प्रसाद,	५३
१५—उनके कुछ पत्र	६९
१६—ज्योति वाक्यामृत	८३
१७—ज्ञेयार्थ	८७

(अ)

(अ) जैन लोगों का जैन धर्म पर पैतृक अधिकार (आ) हिन्दु मानाण (इ) ममाचार पत्रों का महत्व (ई) जाति भेद को मिटा दो (उ) दान परिपाटी को ठाँक करो, (ऊ) वीर बन कर कुरीतियों को दूर करो, (ऋ) स्त्री शिक्षा की आवश्यकता, (ॠ) क्या जैन समाज धनी है, (ॡ) जैन मन्दिरों की रचना, (ॢ) स्त्रियों को पूजन अधिकार है, (ए) स्त्रियों की दशा (ऐ) समाज सुधार या राज-नैतिक काम, (ओ) सन्तान निग्रह (औ) दश लक्ष्णी पर्व में हमको क्या करना चाहिए, (अं) इन्द्रियों की दासता (अः) चौधरियों की करतुत, (क) विरादरी का कसूर, (ख) मनुष्य के परिणाम, (ग) किमानों की दुर्दशा, (घ) दान की दूषित परिपाटी, (ङ) पराव लम्बन और स्वालम्बन । (च) स्त्रियों की जिम्मेदारी ।

१८—कविताएँ

१—जैन भंडा गायन २—नित्य प्रार्थना ३—सृष्टि कृतृत्व मीमांसा ४—संसार दुख दर्पण ५—समझ मन स्वार्थ का संसार ६—अब हमअमर भये न मरेंगे ७—आत्मन उद्योग कर परमात्मन जां जाय बन ८—वीर महिमा ९—मुझे ऐसा सत्रो करार दे १०—मेरा तार प्रेमका तार हो ११—मेरी भावना १२—प्रेमभरी भावना १३—मेरी अभिलाषा १४—हृदय के भाव १५—अमोलक ऋषि १६—हमारा गोपाल १७—सेठ ज्वाला प्रसाद १८—जातीय दशा और उसके सुधार के उपाय १९—प्रभुजी दीजे यह वरदान २०—करो सब मिल जुल पर उपकार २१—उठो अब करो देश उत्थान २२—हो हम मे बल ऐसा भगवान २३—जग-

(आ)

जीवन का मेला रे मन २४—गाबो सब स्वदेश गुणगान २५—होय कब ऐसा दिन भगवान २६—फूल २७—भ्रमर २८ वसंत २९—
मायाचारी उपदेशक ३०—सच्चे उपदेशक ३१—मैली चादर ३२—
चादर शुद्धि ३३, ३४—वीर यश छायो है ३५—निराशा घन छायो है ३६ ३७, ३८—आसरा तिहारो है ३९, ४०—वीर भगवान हैं ।
४१, ४२—दरश दिखायो है ४३, ४४, ४५, ४६—बिहार की ४७—अहिंसा व्रत धारी के ४८, ४९—जीवन नट्या ५०, ५१, ५२, ५३—
निराली है ५४—ऐसा आयगा ५५, ५६, ५७, ५८, ५९—
दिवाली है ६०—राम रखवाली है ६१-६२-६३-६४-६५—पानी ६६—चाह ६७—वीर ही कहायेंगे ६८—सब उड़ जायंगे ६९—देश की भलाई में ७०—अच्छूत क्यों कहाते हैं । ७१—मोक्ष पद पाइये ७२—सब की ७३—होली का राग ७४—बूढ़े का सहारा ७५—
क्योंकर हो भला ।

॥ ओ३म् ॥

ज्योति प्रसाद

(जीवन चरित्र, लेखांश और कविताएं)

१

जन्म कालीन देश और समाज



हर एक आदमी पर अपने देश और समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसका चरित्र, स्वभाव और काम बहुधा आस-पास की परिस्थितियों पर से ही निश्चित होता है। इसलिए यह आवश्यक मालूम होता है कि बाबू ज्योतीप्रसाद का जीवन-चरित्र लिखने से पहिले उनके जन्म-कालीन भारत की राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक हालत का संक्षेप में कुछ परिचय प्राप्त कर लिया जाय।

सन् १८५७ के सिपाही विद्रोह के बाद से भारतवर्ष के राज्य को कम्पनी के हाथ से निकल कर महारानी विक्टोरिया के हाथ

में आये चौदह पंद्रह वर्ष हो चुके थे और यहां पहिले की अपेक्षा कुछ उदार नीति के साथ राज्य किया जा रहा था। अंग्रेजी लिखे पढ़े भारतीय सरकारी पदों पर नियुक्त किए जा रहे थे और ज्योतिप्रसाद के बाल्य-काल में ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। इसलिए मृत्युकाल तक के समस्त राष्ट्रीय आन्दोलन को उन्होंने देखा। धार्मिक क्षेत्र में आर्यसमाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, ईसाई पादरियों, अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञानवाद, और प्रेस के कारण बड़ी खलबली मची हुई थी। “बाबा वाक्यं प्रमाणं” ‘सत बचन महाराज’ वाली बातें अब कोई सुनने को तय्यार न था। अंग्रेजी शिक्षा से पैदा हुई समालोचक वृत्ति का धर्म में व्यवहार हो रहा था। और अब शिक्षित समाज अपने घरों को शास्त्रों तथा सभ्यता को टटोल रहा था और उसे प्रकाश में ला रहा था। सामाजिक दशा पर जितना कम लिखा जाय उतना ही अच्छा है। समाज में कुत्सितियों का कोई अन्त न था। कोई समाज संगठन न था। रूढ़ियों का राज्य था और उनके चक्र से छोटा बड़ा कोई न बच सकता था। इन रूढ़ियों को पालन कराना ही स्थानीय जातीय पंचायतों तथा चौधरियों का काम था। समाज का दण्ड-विधान स्वयंकर ग़रीबों के लिये बहुत सरुत था। स्त्रियों और अछूतों के प्रायः कोई अधिकार न थे।

इस सर्वाङ्ग पतन के होते हुए भी देश की उच्च जातियों में सब जगह कुछ ऐसे आदमी पैदा हो गये थे जो अंग्रेजी शिक्षा, प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन तथा विदेश यात्रा के कारण अपने देश की पतित अवस्था को समझते थे, और तमाम कष्ट

सहकर भी वे यथाशक्ति देश को ऊपर उठाने के सच्चे प्रयत्न में लगे हुए थे। भारतीय इतिहास का यह काल हंसी और विरोध का युग था। हर एक कार्य-कर्ता की बातों को स्वप्न या पागल की बातें कह कर हंसी उड़ाई जाती थी, और विरोध किया जाता था। फिर भी इस युग के महापुरुषों ने वे काम किए, जिनके फल-स्वरूप आज हमें स्वदेश में हर तरफ जागृति का शीघ्र गामी प्रवाह दृष्टिगोचर हो रहा है। देश सुधार के ये अगुआ—ज्ञात और अज्ञात—हम सब की श्रद्धा और कृतज्ञता के पात्र हैं।

जैन समाज की दशा कई अनर्शों में देश की दशा से खराब ही थी। जैन धर्म को कोई जानता न था। और जो अजैन विद्वान उसके बारे में कुछ जानते भी थे, तो उन का जैन धर्म सम्बन्धी ज्ञान भ्रममूलक और अधूरा ही था। इस धर्म के बारे में बड़े बड़े गलत विचार फैले हुए थे। जैन समाज में ऐसे विद्वानों का प्रायः अभाव था जो इन विचारों का खण्डन करते। जैनधर्म अपनी असली शक्ल में बहुत कम दिखाई पड़ता था। और उस पर हिन्दू क्रिया कण्डों का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा हुआ था। न समाज में संगठन था और न कुछ जीवन। केन्द्रीय संस्था भी कोई न थी। फिर किसी आन्दोलन का तो जिक्र ही क्या ? पर आस पास के आन्दोलनों के प्रभाव से जैन समाज कब बच सकता था ? धीरे धीरे उस पर जमाने और नई रौशनी का रंग चढ़ने लगा। उत्तर भारत और बम्बई आदि की तरफ कुछ ऐसी महान् आत्माएँ जैन समाज में पैदा हुईं जो जमाने की चाल को पहचानती थीं। उनके हृदयों में जैनधर्म और समाज

के लिये कुछ दर्द पैदा हुआ। वे धर्म प्रचार और समाज उन्नति के लिये इधर उधर काम करने लगे और उन्होंने ने पचास वर्ष के करीब हुए मथुरा के चौरासी स्थान पर भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा की स्थापना की। इस सभा के कर्णधार कुछ कुछ जमाने के अनुसार काम करने लगे। समाज में जागृति पैदा करने और उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के जो सराहनीय तथा अनुकरणीय प्रयत्न इन महापुरुषों ने किये, वे स्वर्ण अक्षरों में लिखने के योग्य हैं। इस छोटीसी पुस्तक में आप बाबू ज्योति प्रसाद के उस काम का हाल पायेंगे जो उन्होंने उत्तर-भारत के जैनियों में किया।



२

जन्म और शिक्षा

सहारनपुर से २१ मील मेरठ की तरफ देवबन्द, जिला सहारनपुर में, एक प्रसिद्ध पुराना कस्बा है। इसकी आवादी बीस इक्कीस हजार के करीब है। दो तिहाई के लग भग मुसलमान हैं। यहां जैनियों के भी ६० घर हैं। चार जैन मन्दिर हैं। देव बन्द हाथ के बुने सूती कपड़े खदर, दुतई और खेस के लिये प्रसिद्ध है। यहां एक देवी कुंड भी है जहां चैत के महीने में हजारों हिंदू यात्री आते हैं। मुसलमानों का अर्बी फारसी भाषा का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय—दारुलउलूम—भी है। मिस्र देश में काहिरा के अलहज्र नामी मुसलिम विश्वविद्यालय के बाद दूसरे नम्बर पर है। इसी देवबन्द की बाबू ज्योतिप्रसाद को जन्म देने का गौरव प्राप्त है।

संसार के बहुत से बड़े-२ आदमी जिन्होंने ने अपने आम पास के हालात पर अपनी छाप लगाई है और जिन्होंने ने कुछ ख्याति प्राप्त की है, प्राय बहुत ही साधारण घरों में पैदा हुये हैं। उत्तरीय भारत में इलाहाबाद और लाहौर के बीच के भागमें काम करने वाले प्रसिद्ध जैनकार्य कर्ता और सुधारक ज्योति प्रसाद भी देवबन्द

के एक अत्यन्त साधारण घर में आरिषन कृष्ण १० विक्रम सम्बत १९३९ (सन १८८२ ईस्वी) को पैदा हुए थे। आप के पिता लाला नत्थूमल एक साधारण से दुकानदार थे और बड़ी ही कठिनता से अपने कुटुम्ब का निर्वाह करते थे। किन्तु निर्धनता के इस कष्ट में अभी एक और बड़ी आपत्ति की वृद्धि होनी थी। जब कि बालक ज्योतिप्रसाद की आयु ७ वर्ष की थी, उनके पिता का स्वर्गवास होगया। इस मुसीबत का अम्दाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है।

पिता की मृत्यु के समय कुटुम्ब में अब कुल चार प्राणी थे यानी विधवा माता, जोतिप्रसाद, छोटा भाई जयप्रकाश और एक छोटी बहन। अब इन तीन छोटे बच्चों का और अपना गुजारा करने का तमाम बोझ उनकी माता पर था। भारतवर्ष की ऐसी देविर्था जो वैधव्य काल में अपने चरित्र की रक्षा करती हुई परिश्रम करके अपना और अपने बच्चों का निर्वाह करती हैं सचमुच पूजनीय हैं। और ज्योति प्रसाद की माता तो हमारे और भी अधिक आदर तथा सन्मान के योग्य है क्यों कि उन्होंने अपने प्रयत्न से बालक ज्योतिप्रसाद को इस प्रकार शिक्षा दी जिससे वे बड़े हो कर देश और समाज की निस्वार्थ सेवा कर सके।

शिक्षा

निर्धन बच्चों की शिक्षा की कहानी देश के पतन की दर्द-भरी कहानी होती है। न सरकार को उनका फिकर होता है, और न समाज को चिन्ता यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कि हमारी निरक्षरता (illiteracy) का सबसे बड़ा कारण सरकार

और समाज की उपेक्षा और निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए समुचित प्रबन्ध का न होना है। पचास वर्ष के प्रयत्न बाद भी आज कोई अच्छी हालत नहीं है। जब कि अन्य समुन्नत देशों में हर एक बालक, बालिका के लिए प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary education) मुक्त और अनिवार्य (free and compulsory) बहुत वर्ष से है, जबकि वहां सौ में नब्बे, पितानवे आदमी पढ़े हुए हैं, और जब कि वहां हर एक आदमी की पढ़ाई के सुभीते मौजूद हैं, तब हमारे देश में सौमें दस बारह आदमियों का लिखा पढ़ा होना बड़े दुख की बात है। भारतवर्ष में शिक्षा के प्रचार के लिए यह नियम होना चाहिये कि कोई गांव प्राइमरी स्कूल से खाली न हो और किसी घर में कोई अशिक्षित न हो, तथा निर्धनता किसी बालक, बालिका की शिक्षा के मार्ग में रुकावट न बने। तब कही शिक्षा का प्रचार हो सकता है। देवबन्द में यद्यपि एक मिडिल स्कूल था, तथापि बालक ज्योतीप्रसाद को बाबू सूरजभान के प्रयत्न से स्थापित स्थानीय जैन पाठशाला में पांच वर्ष की आयु में पढ़ने के लिए भरती किया गया।

उस समय इस जैन पाठशाला के अध्यापक कचौरा, जिला इटावा, निवासी पंडित भुम्मीलाल जैन थे। पंडित जी एक विद्वान आदमी थे और साथ ही कवि, ज्योतिषी, तथा वैद्य भी थे। बड़े चरित्रवान थे तथा खाने पीने की शुद्धि का बड़ा ख्याल रखते थे यहाँ तक कि अपने हाथ से ही खाना बनाकर खाते थे। ऐसे योग्य अध्यापक से बालक ज्योतीप्रसाद ने हिन्दी लिखना पढ़ना, गणित, पूजन पाठ आदि पढ़ा। उसी पाठशाला में कुछ वर्षों की एक

मौलवी साहब से पढ़ी। पर पढ़ाई का आदर्श साधारण था और इतनी शिक्षा उस ज़माने में काफी समझी जाती थी। विद्यार्थी काल में किसी को उनसे कोई शिकायत न थी और वे अपना काम सदा परिश्रम और ईमानदारी से करते थे। गुरु भक्ति और गुरु सेवा के भाव उनमें कूट कूट कर भरे थे और अंत तक उन्होंने अपने गुरु का ख्याल रक्खा।

विद्यार्थी काल ही में बालक ज्योतिप्रसाद का सम्बन्ध देवबन्द के प्रसिद्ध जैन समाज सुधारक बाबू सूरजभान जी वकील से होगया और उस सम्बन्ध से उनकी बुद्धि और ज्ञान बढ़ते ही गए। शिक्षा समाप्त होने पर भी शिक्षा जारी रही।



बाबू सूरजभान जी का प्रभाव

ॐ क्या काम है जगत में उन मालिकों का,
जो आत्म तुल्य न करें निज आश्रितों को ?

—श्री गिरधर शर्मा

जैन समाज का बाबू सूरजभान जी का सम्बन्ध में कुछ बताना अनावश्यक है। सिल्ले ५०, ६० वर्षों में जैन समाज के आकाश मंडल में आप वास्तविक सूर्य बन कर चमके हैं और भविष्य में आपका नाम एक महान नेता, उद्धारक और जीवन दायक के रूप में स्मरण किया जावेगा। ईसाई समाज में जो स्थान मार्टिन ल्यूथरको, और हिन्दू-समाज में ऋषि दयानन्द तथा राजा राम मोहन राय को प्राप्त हुआ है, वही स्थान जैन समाज में आपको प्राप्त होने वाला है। बाबू सूरजभान अभी जिन्दा हैं, इसलिए जैन समाज अभी आपकी उतनी कद्र नहीं कर पाया है, जितनी कद्र के वे योग्य हैं। आप वर्तमान जैन समाज के निर्माता हैं। जैन समाज को नव जीवन, कार्य शक्ति, नव विचार,

समाज सुधार और संगठन शक्ति का उपदेश देकर क्रांति के मार्ग पर अग्रसर करने वाले आप ही हैं।

आज से ५०. ६० वर्ष पहले बाबू सूरजभान जी देववन्द में वकील थे और समाज तथा धर्म की उन्नति के वास्ते दिन रात तन मन धन से अनथक काम करते थे। जैन धर्म की हीन दशा और जैन समाज की पूर्ण रूप से पतितावस्था को देख कर आप का हृदय व्याकुल था। उस समय समाज के लिए आप क्या र न कर रहे थे? और कौनसा कष्ट था, जिसे आप उठा न रहे थे?

परन्तु देववन्द का नाम जबान पर आते ही हर एक जैन-का हृदय जैन समाज के तीन सुप्रसिद्ध नेताओं—श्रद्धेय बाबू सूरजभान जी वकील, विद्वद्वर पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार और जैन कवि ज्योतिप्रसाद जी—के लिए श्रद्धा से भर जाता है। और मस्तक आदर से नत हो जाता है। इन तीनों महानुभावों ने जीवन प्रयन्त धर्म तथा समाज के लिए जो र काम किये उनको कौन नहीं जानता? आरम्भ में इन के कामों से समाज इन पर मुग्ध थी और इनका आदर और सन्मान करती थी। परन्तु बाद में समाज इनकी प्रगतिशीलता और तीव्रनीति को न तो समझ सकी और न इन के साथ चल सकी। इसलिए इनका विरोध करने लगी। पर इससे क्या श्रुतिनाइयों से एक सुधारक न कभी घबराया है और न कभी घबरायेगा। इससे समाज में बड़ी खलबली मच गई। इनको गालियाँ दी जाने लगीं, इनके जलसों पर लाठियाँ बरसाई गईं, इनका बहिष्कार किया गया

और इनके पत्रों का पढ़ना महापाप बताया गया । यहाँ तक कि इनको देवबन्द के तीन नास्तिक कहागयाः॥

बाबू सूरजभान और पं० जुगल किशोर जी अभी जिन्दा हैं, और उनके काम का अन्दाजा समाज में पीछे से लगाया जायगा । इस पुस्तक में आप बाबू ज्योति प्रसाद जी के काम और जीवन का वृत्तान्त ही पायेंगे ।

इस बात को बताने की कुछ विशेष आवश्यकता मालूम नहीं होती कि बाबू ज्योति प्रसाद को बनाने वाले बाबू सूरजभान ही हैं । बाबू सूरजभान जी द्वारा स्थापित पाठशाला में सात आठ वर्ष का बालक ज्योति प्रसाद शिक्षा पा रहा था । वह निर्धन था, पिता हीन था । और उसे केवल एक विधवामाता का आश्रय प्राप्त था । दो तीन वर्ष में ही बालक ज्योतिप्रसाद भजन मंडलियों में और शास्त्रसभाओं में मधुर बालस्वर में भक्ति के साथ भजन गाने लगा । आगे कुछ भजन तुकवन्दी आप बनाने लगा । बाबू सूरजभान को कृपादृष्टि उम पर गई । उसको होनहार, पात्र और अधिकारी समझा गया । पाठशाला में उसका विशेष ध्यान रखा जाने लगा । उसको सरलता, सचरित्रता और गुणों ने ज्योति प्रसाद को सब का प्यारा बना दिया ।

बाबू सूरजभान इस समय जैन शास्त्रों को छपवाने और उनके प्रचार करने की धुन में लगे हुए थे । उन्होंने बालक ज्योतिप्रसाद को १२, १३ वर्ष की आयु में प्रथम ही ४), ५) ६० मासिक पर अपने कार्यालय में काम करने और प्रेस कापी तैयार करने का एक जैन पंडित ने इन तीनों महानुभावों को नास्तिक लिखा था ।

कुछ काम देकर अपने पास रख लिया। इस तरह ज्योतिप्रसाद को एक नया वायु-मण्डल प्राप्त हुआ। वहां शास्त्र थे, पुस्तकें थीं, समाचार पत्र थे, नवीन विचारों का प्रवाह था और समाज सेवा और धर्मोद्धार की उमंगों का समुद्र तरङ्गें मार रहा था। समाज-सेवियों का संसर्ग था। संगति का प्रभाव पड़ने लगा। संस्कार बनने लगे। उन्नति, ज्ञानोपार्जन, सेवा करने और-चरित्र गठन के भाव दृढ होने लगे। बुराई के लिये वहाँ स्थान न था। इस लिये हृदय पर गहरे-अमिट उत्तम संस्कार पड़ गए और वहाँ अच्छे काम करते-सेवा कार्य करना आपका एक स्वभाव सा बन गया।

यदि बाबू सूरजभान के पास उस समय धन के साधन होते, तो आप १६, १७ वर्ष के उस नव युवक को उसके घरेलू उत्तर-दायित्व से सर्वथा निश्चिन्त कर देते। ऐसा न हो सका और बाबू ज्योति प्रसाद को आजीविका उपार्जन के लिये अपने गुरु को छोड़कर देवबन्द की मंडी में मुनीमी करने के लिये जाना पड़ा।

पर जो सम्बन्ध स्थापित हो गया था उसका टूटना कठिन था। काम का मार्ग तो हर एक कठिन से कठिन अवस्था में भी निकाला जा सकता है। अपना बाजार का काम करने के पश्चात् ज्योति प्रसाद को उसी काम की धुन थी। समाज सेवा का चस्का था। समाज सेवा के लिये अवकाश का उपयोग होने लगा।

जैन गज्जट में आपकी कवितार्यें निकलने लगीं, कार्य-कर्ताओं में आपका जिक्र होने लगा और ख्याति फैलने लगी। फिर क्या था? ज्योति को चार चांद लग गए। गुदड़ी का लाल प्रकट हो गया। आपकी लेखनी और कार्य शक्ति को मान लिया गया।

हिंसार के जैन अनाथ आश्रम की तरफ से निकलने वाले जैन प्रचारक के प्रथम सम्पादक आप बनाये गए ।

यह सब बाबू सूरजभान की संगति और व्यक्तित्व का प्रभाव था ।

बाबू सूरजभान के विचारों और काम का इतना गहरा प्रभाव आप पर पड़ा कि वह समस्त आयु अपना काम करता रहा । बाबू सूरजभान पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी और आपको वे समाज के परमोद्धारक मानते थे । इसलिये उनके विचारों का प्रचार करना और उनके काम में हाथ बटा कर उनके मिशन (उद्देश्य) को यथाशक्ति पूरा करना आपने अपना कर्तव्य समझा ।



आकृति और चरित्र



आकृति—बाबू ज्योति प्रसाद दरमियाने कद के आदमी थे। चेहरा भरा हुआ और गोल था। माथा कुछ चौड़ा था। आरम्भ में शरीर कुछ पतला था परन्तु पीछे से शरीर दुहरा हो गया था। प्रसन्नता सदा चेहरे से टपकती रहती थी। बानी मीठी और प्रेम भरी थी।

वस्त्र—आप सादगी पसन्द थे और सदा सादे शुद्ध स्वदेशी वस्त्र पहनते थे। कमीज, बन्द गले का खहर या पट्टी का कोट और धोती वा पजामा पहनते थे। सिर पर गांधी टोपी या भारी रुपट्टा बांधते थे। पिछले १५, २० वर्षों में मैंने कभी उन के पांव में चमड़े के जूते नहीं देखे, वे बिना चमड़े के जूते पहनते थे। उत्तर भारत के सभी सुधारकों की प्रायः यही पोशाक होती थी।

भोजन—सदा बाहर फिरने वाले आदमी को भोजन के बारे में बड़ा वेपरवा और निसंकोच (बेतकल्लुफ) होना पड़ता है। यही हाल आपका था। घरमें भी जैसा भोजन बन जाता था, खालेते थे। यदि कभी नमक आदि कम जियादा हो जाता था तो क्रोध करना

तो दूर उसका जिकर भी न करते थे। ऋतु और स्थान की विशेष चीजें कुछ शौक से खाते थे।

कमरा—अपने उठने बैठने के लिये आपने एक छोटासा कमरा बना रखा था। उसमें एक तख्त, एक पलंग और एक छोटीसी मेज रखते थे। प्रायः काम तख्त पर बैठकर ही करते थे। फरनीचर का शौक न था। कमरे में तीर्थ चित्रों, देश और जैन समाज के नेताओं तथा सभाओं के चित्र लगे रहते थे। आप को 'संसार दर्शन' और 'षटलेशया दर्शन' चित्र बड़े प्यारे थे।

दिनचर्या—आप प्रातःकाल चार साढ़े चार बजे उठकर चार-पाई पर ही आधे घंटे के करीब जाप करते थे। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर लिखने पढ़ने का काम करते थे। आठ बजे के करीब स्नान आदि कर मन्दिर देव दर्शन के लिये जाते थे। फिर ११ बजे तक काम करते थे। उसके बाद खाना खाकर आराम करते थे। दो डेढ़ बजे डाक का काम करते थे। और समय रहने पर पांच बजे तक फिर लिखने पढ़ने का काम करते थे। इसके बाद खाना खाकर बाहर चबूतरे पर बैठकर आने जाने वालों से बात चीत, विचार विनिमय करते और सम्मति लेते देते थे या किसी से मिलने जाते थे। कभी कभी गर्मियों में भी रात को लिखते थे। रात के दस बजे सोजाते थे। यह आपकी दिन चर्या थी।


चरित्र—एक ऊच्छा ऊदमी होने के अतिरिक्त बाबू ज्योति-प्रसाद में कई विशेष गुण थे जिनके कारण आप छोटी सी स्थिति से इतने बड़े आदमी बन गए। प्रेम के आप पुजारी थे और आपने

अपना उपनाम 'प्रेमी' और अपने मकान का नाम 'प्रेम भवन' रखा हुआ था। आपका यह गुण बड़ा प्रसिद्ध था। मिलनसार आप बहुत थे। सभी संमेल-जोल रखते थे। आप में सहानुभूति, हितचितकता, उदारता, सहनशीलता, परोपकारवृत्ति, परिश्रम-शीलता, कुटुम्ब प्रेम और सेवा, धैर्य, और कर्तव्य पालन स्वदेश भक्ति, धर्म तथा समाज प्रेम के भाव अत्यन्त अधिक थे। आप दूसरों पर विश्वास करते थे और स्वयं विश्वासपात्र थे। आप काम के महत्व को समझते थे। देशभक्त गोखले ने महात्मा रानाडे के विषय में कहा था 'जा आदमी काम नहीं करते, जो कार्य के महत्व और शक्ति को नहीं जानते हैं, प्रायः वे ही निराशावादी होते हैं।' यही बात आप में थी। आप अटल रूप से एक आशावादी पुरुष के समान जीवन-भर काम करते रहे। आपने कभी अपने प्रभाव और व्यक्तित्व को उचित या अनुचित रूप से धन इकट्ठा करने में नहीं लगाया।

बहुत पूछ-ताछ करने पर भी मैं आपका कोई खास दुर्गुण मालूम न कर सका। बहुत सम्भव है कि आप में कुछ साधारण त्रुटि हों, जैसी कि प्रायः साधारण जनता में पाई जाती हैं और जिन्हें मैं मालूम न कर सका हूँ। हाँ, एक सुधारक और समाज के कार्यकर्ता के रूप में मैंने आप में एक-दा कमजोरियाँ, त्रुटियाँ, अवश्य पाई हैं। आप में 'लोकेशना भाव' (जनता से प्रशंसा प्राप्त करने का भाव) अधिक था और इसके कारण आप सुधारकों और स्थिति पालकों के कुछ मध्य में ही अपना स्थान रखते थे और बहुत से सुधार विचारों को कार्य रूप में परिणत न कर

सके। पर देश और समाज के ऐसे विरले ही कार्य कर्ता और नेता मिलेंगे, जो विचार और काम अथवा भाव और कृति (Idea and Action) में समान हों। यदि आपने अपने ऐसे विचारों को कार्य रूप में परिणत कर दिया होता, तो आपका चरित्र और भी उज्वल हो जाता। आप में किसी एक सुधार और काम के पीछे पढ़ने की आदत और धुन नहीं थी। इससे आप किसी भी क्षेत्र में विशेषता प्राप्त न कर सके। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसका कारण यह था कि आप में शिक्षा और मनोबल अधिक न थे। साधारण स्वाध्याय तथा लोक परिचय किसी भी कार्यकर्ता को एक विषय का पंडित या विशेषज्ञ नहीं बना सकते। आरम्भ में यद्यपि आप स्वाभिमानी होते हुए भी निराभिमानी थे, पर अन्तिम आठ-दस वर्षों में आपमें कुछ २ बढ़प्पन-प्रियता और अपनी प्रशंसा सुनने के भाव प्रकट होने लगे थे। पर ये एक दो बातें उपेक्षा किये जाने के योग्य हैं। यहां किसी कवि का यह छन्द लिखना कुछ उचित ही होगा:—

✓ चन्द्र विम्ब के भांतर जैसे नहीं कलंक दिखाता है,
वैसे ही गुण-गण समुद्र में एक दोष छिप जाता है।



५

आजीविका

बेकारी और बेरोजगारी के इस भयंकर युग में रहने वाले आदमियों को यह जानने की कुछ उत्सुकता हो सकती है, कि उन की समाज का एक साधारण स्थिति वाला, पर इतनी बड़ी सेवा करने वाला, व्यक्ति अपनी आजीविका का क्या प्रबन्ध करता था। पीछे आप यह पढ़ चुके हैं, कि बाबू ज्योति प्रसाद के पिता का देहांत उनकी बाल्यावस्था में ही हो गया था और उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त साधारण थी। पाठशाला छोड़ने के बाद बाबू सूरजभान जी ने उनको अपने पास रख लिया था और फिर आप भंडी में 'मुनीम गिरी' करने लगे थे। मुनीम गिरी में आपको अच्छी दक्षता प्राप्त हो गई।

सम्बत १९६१ विक्रम में आपके भाग्य ने पलटा खाया। आप देवबन्द निवासी लाला हरनाम सिंह जी रईम और आनरेरी मजिस्ट्रेट की रियासत में मुखतार आम के पद पर नियत हो गए। अब आप आजीविका के प्रश्न से सर्वथा बेफिक्र हो गए। आप अपने मुखतारी के कर्तव्यों को बड़ी ईमानदारी और सचाई से पूरा करते थे और लाला हरनामसिंह ने भी आपको सामाजिक कामों के लिये अच्छी स्वतन्त्रता दे रखी थी। इधर आपकी प्रतिष्ठा दिन प्रति दिन

समाज में बढ़ने लगी और आपका हृदय समाज सेवा में अधिकाधिक प्रवृत्ति करने लगा। जैन समाज में कार्य कर्ताओं की अत्यन्त आवश्यकता थी। उधर लाला हरनामसिंह के यहाँ एक बहुत साधारण सी बात पर आपने २८ वर्ष की आयु में वह नौकरी छोड़ दी।

इसी समय आपके छोटे भाई जयप्रकाश भी कुछ काम करने लगे थे। अब आप 'जैन प्रचारक' और फिर 'जैन प्रदीप' का सम्पादन करने लगे। 'जैन प्रदीप' आपका अपना पत्र था और उसके हानि लाभ के आप स्वयं जिम्मेवार थे।

सन् १८२६ में स्वर्गीय सेठ ज्वाला प्रसाद जी का आप से परिचय होगया और शीघ्र ही वह परिचय घनिष्ठता के दर्जे को पहुँच गया। सेठ जी बड़े समझदार और उदार व्यक्ति थे तथा सामाजिक कार्य कर्ताओं की आर्थिक कठिनाइयों को समझते थे और कार्य कर्ताओं की केवल मौखिक प्रशंसा करने वाले न थे, बल्कि उन की आर्थिक सहायता भी करते थे। आपने चार वर्ष तक नियत रूप से बाबू ज्योतिप्रसाद की ५०) मासिक सहायता की। आप सेठ साहब के प्राइवेट सेक्रेट्री और सलाहकार बन गये थे। सेठ जी के सम्पर्क से आपका स्थानकवासी समाज में प्रभाव बढ़गया। उधर सेठ जी भी दिगम्बर और स्थानकवासी समाजों में अधिकाधिक भाग लेने लगे और सेठ साहब की भी प्रतिष्ठा खूब बढ़ गई। सेठ जी के स्वर्गवास के समय आपकी आयु ५०, ५१ वर्ष की होगी।

सेठ ज्वाला प्रसाद जी महेन्द्रगढ़, रियासत पटियाला, के

रहने वाल थे; परन्तु आप हैदराबाद, दक्कन, में व्यापार करते थे और प्रायः वहीं रहते थे। आप समाज तथा धर्म के कार्यों में खूब भाग लेते थे। २१ फरवरी सन् १९२९ को श्री जैनेन्द्र गुरुकुल, पंचकूला, का प्रथम वार्षिक अखिवेशन था। सेठ साहब ही उसके सभापति थे और आप बाबू ज्योति प्रसाद जी के नाम से परिचित थे। सेठ साहब का सभापति का भाषण आपने ही तैयार किया था। वहां जो परिचय हुआ, वह स्थायी बन गया और बाबू ज्योति प्रसाद जी गुरुकुल की प्रबन्ध कमेटी के प्रतिष्ठित सदस्य बन गए और मृत्यु समय तक गुरुकुल के आनरेरी उवायंट सेक्रेटरी रहे। बाबू ज्योति प्रसाद जी ने श्री ऋषभ ब्रह्मचर्य आश्रम, हस्तिनापुर, का काम और प्रबन्ध देखा हुआ था और वे समाज की आवश्यकता को समझते थे। थोड़े ही समय में जैनेन्द्र गुरुकुल एक जीवित संस्था बन गई। इसमें समाज के अच्छे से अच्छे घर के बालक शिक्षा पाते हैं। सेठ ज्वाला प्रसाद जी का १७ जनवरी सन् १९३६ को देहली में स्वर्गवास हो गया। इससे बाबू ज्योति-प्रसाद को बहुत धक्का लगा।

बाबू ज्योति प्रसाद इस बात का सदा ख्याल रखते थे, कि खर्च आमदनी से अधिक न होने पाये। आप सादगी और मितव्ययता से जीवन व्यतीत करते थे। इसी से थोड़ी सी आमदनी होते हुए भी, आप सतोष पूर्वक जीवन व्यतीत तथा कुटुम्ब निर्वाह करत रहे और साथ ही समय-समय पर कुछ दान भी देते रहे।

सेठ जी के स्वर्गवास के बाद उनकी सहायता बन्द हो गई। इससे आपको बहुत ही आर्थिक कष्ट सहन करना पड़ा।

६

कुटम्ब जीवन और भीष्म प्रतिज्ञा

विक्रम संवत् १९६१ के असौज में जब कि आपकी अबस्था २२ वर्ष की थी, आपका विवाह कीर्तपुर, जिला विजनौर, के लाला खैरातीराम की पुत्री मुन्दरीदेवी से हुआ। आपके कोई सन्तान नहीं हुई। इस पर विवाह के आठ वर्ष के पश्चात् आपकी धर्म-पत्नी का वियोग हो गया। उस समय आप चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते और संतान न होने की दशा में तथा अधिक बड़ी आयु न होने के कारण कोई विशेष रुकावट न थी। पर आपका विचार था, कि जब विधवाओं को दुबारा विवाह करने का अधिकार समाज ने नहीं दिया है, तब एक विधुर पुरुष को क्या अधिकार है, कि वह एक कन्या से विवाह करे। ऐसे विचारों के होते हुए आपने दुबारा विवाह न करने की भीष्म-प्रतिज्ञा की। उस पर दृढ़ रहे और चरित्र तथा शील की पूर्ण रूप से रक्षा करते हुए समाज सेवा में लग गए। “अपुत्रस्य गति-

नास्ति” जो कहावत बना रखी है, उसका आप खूब मजाक उड़ाया करते थे।

अपने हाथ से अपने भाई, बहन, भानजी और भतीजी के विवाह किये। पिता, घर्मपत्नी, भाई, भाई की घर्मपत्नी और भतीजी के पति की मृत्यु आपको अत्यन्त दुःख थी, पर आप इतने दृढ स्वभाव वाले थे, कि ज़रा भी अपने निश्चित कार्य से विमुख न हुए। आपका अपना कुछ कुटुम्ब न होते हुए भी इनसे बड़ा प्रेम था। सब साथ ही रहते थे। भाई की मृत्यु के पश्चात् घर की तमाम जिम्मेवारी आप पर ही थी। अपने अनुभवों और आदर्शों से उन्होंने घर का शान्ति का मन्दिर बना रखा था। कुटुम्ब का सुख उन्हें बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु तक प्राप्त न हुआ, पर अपने सद्स्वभाव, उत्कृष्ट प्रेम और मीठी वाणी से अपना कुटुम्ब-क्षेत्र घर की चहार दीवारी के बाहर बहुत विस्तृत बना रक्खा था।



सम्पादक रूप में ज्योतिप्रसाद



समाचार पत्रों की शक्ति और महत्व को आज कौन नहीं जानता ? समाचारों तथा विचारों को शीघ्र और बड़े पैमाने पर फैलाने का और कोई दूसरा साधन नहीं है। बड़ी २ धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक क्रांतियाँ समाचार पत्रों के द्वारा ही की जा सकी हैं। यही कारण है, कि समुन्नत देशों में एक-एक समाचार पत्र की लाखों प्रतियाँ हर रोज छपती हैं। इस दशा में भारतवर्ष अभी बहुत पीछे और जैन समाज तो अत्यन्त पीछे है। पर यह संतोष की बात है, कि जैन समाज के नेता आरम्भ से ही समाचार पत्रों के महत्व को समझते रहे हैं।

दिगम्बर जैन समाज में महासभा के आधीन हिन्दी जैन गजट समाजमें जागृति पैदा करने के उद्देश्य से ही पचास वर्ष के करीब हुए निकाला गया था। आज दर्जनों जैन समाचार पत्र निकलते हैं।

अब से तीस चालीस वर्ष पहले उत्तर भारत में उर्दू भाषा जाननेवाले जैनियों की संख्या काफी थी। और इन लोगों को हिन्दी

जैन गजट से प्रायः कुछ लाभ नहीं होता था। इसलिए एक उर्दू जैन समाचार पत्र की आवश्यकता बहुत अनुभव की जा रही थी। इस कमी को दूर करने के लिए जैन अनाथ आश्रम, हिस्सार, की तरफ़ से वीर सम्बत २४३४ (१९०८ सन् ईस्वी) में जैन प्रचारक उर्दू मासिक निकालने का प्रबन्ध हुआ।

बाबू ज्योति प्रसाद की आयु इस समय २५ वर्ष के लग भग थी। बाबू सूरजभान जी की संगति तथा सामाजिक कामों में भाग लेने के कारण आप में धर्म प्रेम तथा समाज सेवा के भाव काफी जाग्रत हो चुके थे। लिखने का अभ्यास भी अच्छा हो गया था। देवचन्द्र इस समय जैन समाज के आन्दोलनों का गढ़ बना हुआ था। इसलिए जैन प्रचारक के सम्पादन का कार्य बाबू ज्योति प्रसाद को ही सौंपा गया। और इस पत्र का पहिला अंक प्रथम मई सन् १९०८ (वीर सम्बत २४३४) को देवचन्द्र से निकला। इसका वार्षिक मूल्य १) रूपया था। जैन प्रचारक का आनरेरी सम्पादक बनना, मेरे विचार में, उनके जीवन का एक महत्वशाली समय था। पिता के अभाव के कष्ट वे जानते थे। इसलिए अनार्यों का हिमायती उन से अच्छा कौन हो सकता था ? इस पत्र के सम्पादन से जहाँ उन्हें समाज की सेवा करने का एक बड़ा मौका मिल गया, वहाँ उनकी योग्यता और कार्यशक्ति का अधिक विकास होने लगा तथा उनका जनता में मान बढ़ने लगा। इस पत्रका उन्होंने चार वर्ष तक सम्पादन किया। उर्दू भाषा जानने वाले जैनियों में, विशेष कर पंजाब और संयुक्त प्रान्त के जैनियों में, यह पत्र एक अच्छा विचार प्रवाहक बन गया। पर इसी समय

देवचन्द की तिगड़ी (Trio) अधिक प्रगतिशील विचारों के लिए समाज में समालोचना का विषय बन गई और जैन अनाथ रक्षक सोसायटी के कार्यकर्ताओं और बाबू ज्योति प्रसाद में पत्र की नीति के कारण मत भेद होने लगा। बाबू ज्योतिप्रसाद ने पत्र की सम्पादकी से त्याग पत्र दे दिया।

भादों सुदी १० वीर सम्बत २४३६ को "जैन स्त्री समाज में धार्मिक और लौकिक शिक्षा का प्रचार करने वाले" हिन्दी मासिक "जैन नारी हितकारी" का प्रथम अंक बाबू ज्योतिप्रसाद के सम्पादन में देवचन्द से निकला। इसका वार्षिक मूल्य १) था और इसके घाटे की पूर्ति के लिये आरम्भ में ही सौ डेढ़ सौ रुपये का चन्दा कुछ समाज प्रेमियों ने किया था। जैन स्त्री समाज में जाग्रति पैदा करना तथा उममें से कुुरितियों को दूर करना ही इसके उद्देश्य थे। यह पत्र वर्ष डेढ़ वर्ष के बाद बन्द होगया।

जैन प्रचारक का प्रबन्ध तथा नीति बदल जान स फिर एक स्वतंत्र उर्दू पत्र की आवाश्यकता अनुभव होने लगी। बाबू ज्योति प्रसादके मित्रो तथा प्रसंशकों ने उन्हे अपना पत्र निकालने पर जोर दिया। उनको अपनी हिम्मत और शक्ति का पता लग चुका था। १० नवम्बर सन १९१२ (वीर सम्बत २४९३) को पात्तिक जैन प्रदीप का प्रथम अंक निकला। इस का मूल्य २) रुपय था। चौदवें वर्ष सन १९२६ मे इसे मासिक कर दिया गया। "इस पत्र के उद्देश्य अज्ञान के अन्धेरे को दूर करके जैन धर्म के दिलीप जैन-धर्म का प्रकाश फैलाना, जैन धर्म और जैन समाज की उत्थिति के

कारणों का प्रचार करना, लोगों की रातत फहकियों—धर्मों—को दूर करना, जैन कौम से कुरीतियों को भगाना और उनका जैन शास्त्रों के मुनाबिक सुधार करना आदि २ थे । १., जैन प्रदीप से आरम्भ में ५००) की नकद जमानत ली गई। पर वह मई सन १९१४ में वापिस होगई। जैन प्रदीप जैन समाज में एक बहुत अच्छा पत्र था। इसके लेखकों में बाबू सुरजभान, बाबू ऋषभदास वकील मेरठ, बाबू दयाचन्द्र गोयलीय वी० ए०, बाबू भुम्नलाल वकील साहरनपुर, बाबू जुगलकिशोर मुल्तार, बाबू चन्दूलाल 'अखतर' और बाबू भोलानाथ दखेशाँ बुलन्द शहर, आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। कुछ समय सियालकोट के बाबू दीवानचन्द 'दीवाना', बाबू चन्दूलाल 'अखतर' वकील और बाबू भोलानाथ 'दखशाँ' इसके सहायक सम्पादकों में रहें। जैन प्रदीप में सब प्रकार के लेख निकलते थे और उसका सम्पादन अच्छा होता था। जैन समाज के समस्त आन्दोलनों को उसने शक्ति प्रदान की। इतने अच्छे पत्र की भी आर्थिक हालत कभी अच्छी नहीं हुई और हर साल उसे बन्द करने का प्रश्न सामने रहता था।

सन १९३० भारत वर्ष के राजनैतिक आन्दोलन तथा सरकारी सखती के लिए प्रसिद्ध है। इसी वर्ष मई जून के संयुक्तोंक में "भगवान महावीर और महात्मा गाँधी" एक लेख निकला। उस पर जैन प्रदीप से एक हजार रुपये जमानत माँगी गई। जमानत देने की शक्ति उनमें कहां थी ? और यदि इसका प्रबन्ध भी कर-दिया जाता, तो आगे फिर जमानत का प्रश्न अवश्य उठता। इस

लिए साढ़े सतरह वर्ष के बाद 'जैन प्रदीप' बन्द करदिया गया। आजतक उस कमी को पूरा करने वाला कोई अच्छा उर्दू पत्र जैन समाज में नहीं निकला। बाबू ज्योतिप्रसाद जी सम्पादक 'जैन प्रदीप' के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध थे।

जैन प्रदीप के फायल देखते समय उनके एक और पत्र का पता लगा, जिस को उन्होंने लाहौर के हाकीम भगतराम की शराकत में निकाला था। यह उर्दू सप्ताहिक 'पारस' था। इस का प्रथमांक १२ फरवरी सन १९१५ को निकला और पौने दो महीने के बाद यह पत्र बंद होगया। इस पत्र के द्वारा बाबू ज्योतिप्रसाद देश सेवा की करना चाहते थे। पर इस में दोनों को ५०० रु० के करीब हानि हुई।



८

समाज सेवा

सामाजिक कुरीतियों धीरे-धीरे समाज और राष्ट्र की जड़ खोखली करके, उनके सामाजिक, धार्मिक, नैतिक और राज-नैतिक उच्च आदर्शों को मिटा कर, उन्हें पतन के अन्धकारमय गहरे गड्ढे में डाल देती हैं। आत्मिक दुर्बलता, स्वार्थ, अज्ञान और रूढ़ियों का भूठा मोह समाज और उसके कर्णधारों को इतना नीचे गिरा देते हैं, कि वे इन कुरीतियों के विपैले प्रभाव को स्पष्ट रूप में अनुभव नहीं कर सकते। ये इनको प्रायः अटल, अपरिवर्तनीय और अनादि समझने लगते हैं। जो रीति-रिवाज मनुष्य समाज के हित, सुभीते और उन्नति के वास्तु कभी बनाये गए थे, समय के प्रभाव से उनके अनुपयोगी तथा हानिकारक बन जाने पर भी, उनकी रक्षा के लिये मनुष्य जाति के हितों की बलि चढ़ाई जाती है। समाज का भूठा डर और पंचायतों का कठोर शासन ही इनको स्थिर रख सकते हैं। आदमी के लिये परमात्मा, प्रकृति और राज्य के नियमों को तोड़ देना उतना कठिन नहीं है, जितना कठिन उनके लिये समाज की बुरी-से-बुरी

कुरीति को तोड़ना है। इसका परिणाम यह होता है, कि समाज शिक्षित बड़े आदमियों से लेकर साधारण आदमी—स्त्री पुरुष—तक अपने हित-अहित का विचार न करते हुए, इन कुरीतियों के आगे सर झुका देते हैं।

सभी आदमी एकसे नहीं होते। कुछ आदमियों के हृदय में जीवन-ज्योति जागती है, प्रकाश होता है और वे समाज के अहित को देख कर तड़प उठते हैं। उनकी क्रान्तिकारी, साहसी और वीर आत्माये इन कुरीतियों तथा इनके संरक्षकों के विरुद्ध निर्भय होकर आवाज उठाती हैं। इनमें सुधार करना या इनको सर्वथा मिटा देना ही, इनका एक उद्देश्य होता है और इस सुधार-कार्य के रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाई को वे सहर्ष सहन करते हैं। उन्हें जिन-जिन कष्टों का सामना करना होता है, उनका वे बड़ी खुशी से स्वागत करते हैं।

जब कि जैन समाज बहुत सी कुरीतियों का घर बना हुआ था और इनके कारण पतन की ओर जा रहा था, उस समय जो महापुरुष जैन समाज को इन कुरीतियों के पंजे से निकालने और समाज सेवा के लिये आगे आये, उनमें बाबू ज्योति प्रसाद का नाम एक खास स्थान रखता है। उस समय भारतवर्ष में समाज-सुधार आन्दोलन का जोर था और समाज की शुद्धि तथा नैतिक उन्नति के लिये प्रयत्न जारी था। कार्य-कर्ताओं की कमी थी। बड़े आदमियों के पास ऐसे कार्यों के लिये न समय था और न सहानुभूति थी।

ज्योति प्रसाद जी एक अच्छे परिश्रमी प्रचारक थे। उन्होंने

अपने लेखों, कविताओं, व्याख्यानों और रचनाओं के द्वारा समाज सुधार के संदेश को यथाशक्ति समाज में दूर दूर तक फैलाया। आपके इस प्रचार का प्रधान कार्य-क्षेत्र पंजाब और संयुक्तप्रान्त रहे। 'जैन प्रचारक', 'जैन नारी हितकारी' और 'जैन-प्रदीप' उनके मुख्य साधन थे। 'जैन प्रदीप' की सेवार्ये सुनहरी अक्षरों में लिखे जाने के योग्य हैं।

आपने बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, अनमेल-बिवाह, बहु-विवाह कन्या-विक्रय, मृत्यु-भोज, बढ़ती हुई दहेज प्रथा, बरातों की बड़ी संख्या, व्यथे-व्यय, वेश्या-नृत्य, अन्यायपूर्ण-पंचायती दंड-विधान, जाति-ब्राह्मकार, ऊँच-नीच का भेद-भाव, जाति-भेद, दस्सों का पूजन अनाधिकार, स्त्रियों पर अत्याचार, विधवाओं से दुर्व्यवहार, समाज में बढ़ती हुई विलास-प्रियता, नवयुवकों का चरित्र पतन, फैशन, नाटक, विदेशी वस्तु प्रचार, पुत्र-विक्रय आदि सभी कुरी-तियों के विरुद्ध आन्दोलनों में भाग लिया। जैन समाज में कोई ऐसा आन्दोलन न था, जिसमें उन्होंने प्रकट या अप्रकट रूप से भाग न लिया हो। विधवा विवाह के सम्बन्ध में उनके विचार एक अलग परिच्छेद में दिए गए हैं।

आपने जैन समाज के इन आन्दोलनों को शक्ति प्रदान करने के लिये, अपने समय की लगभग सभी जैन तथा सार्वजनिक संस्थाओं में किसी न किसी रूप में यथाशक्ति भाग लिया। आपका दि० जैन महासभा, जैन महामण्डल, दि० जैन परिषद्, जैन अनाथाश्रम देहली, जैन तत्व प्रकाशिनी सभा इटाबा, श्री ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर, जैन शिक्षा प्रचारक

समिति जयपुर, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, जैन औषधालय सहारनपुर, श्री सार्व धर्म परिषद, जैन बोर्डिंग हाउस मेरठ, हस्तिनापुर क्षेत्र प्रबन्ध कमेटी, जैनेन्द्र गुरु कुल पंचकुला, जीव दया प्रचारिणी सभा आगरा आदि अनेक संस्थाओं से गहरा सम्बन्ध था। आपने जैन अनाथाश्रम के पत्र जैन प्रचारक के सम्पादक, हस्तिनापुर क्षेत्र मेला कमेटी के सभापति, जैन बोर्डिंग हाउस मेरठ के असिस्टेंट, सुपरिन्टेन्डेन्ट और जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकुला की प्रबन्धक और कार्य-कारिणी समिति के प्रतिष्ठित सभासद और मृत्यु काल तक आनरेरी ज्वायंट सेक्रेट्री (Hon. Joint Secretary) के पदों को भी कुछ समय तक सुशोभित किया।

आप में एक और सराहनीय विशेषता थी। बहुत कम सुधारक और नेता अपने नगर में ठोस काम करते हैं और सर्व-प्रिय होते हैं। इससे बड़ी हानि होती है। अपने शहर में उनसे काम होता नहीं, बाहर व ठहर कर काम कर नहीं सकते। आवश्यकता इस बात की है कि कार्य-कतांगण अपने-अपने नगरों और आस-पास के कार्यक्षेत्रों में काम करें। बाबू ज्योतिप्रसाद जी देवबन्द के जैनों तथा अजैनों में बहुत ही प्रिय थे और वहाँ के समस्त आन्दोलनों में उनका पूरा सहयोग होता था। आज जो भी जागृति वहाँ हो रही है, वह बहुत कुछ आपके ही कामों का फल है। देवबन्द में कोई पुस्तकालय न था। आपने अपने मकान पर ३१ मई सन् १९२० को कुछ नवयुवकों को एकत्रित करके भ्रातृ मण्डल पुस्तकालय की नींव डाली। यह पुस्तकालय अब अच्छी उन्नति कर रहा है। आप अपने स्वभाव, चतुरता,

प्रेम और उपयोगिता के कारण देवबन्द में एक आवश्यक आदमी बन गए थे ।

निर्धन छात्रों का तो आपको बहुत ख्याल था । शिक्षा-प्रेमियों से उनको छात्रवृत्ति दिलाना और कभी-कभी स्वयं भी छात्रवृत्ति देना आप अपना कर्तव्य समझते थे । आपने अपने छोटे भाई स्वर्गीय ला० जयप्रकाश की स्मृति में ५००) रु. देकर “जयप्रकाश छात्र-वृत्ति फंड ” स्थापित करना चाहा । केवल बाबू बलवीर चन्द जी ऐडवोकेट और रईस, मुजफ्फर नगर, ने उस फंड में १००) रुपये देने का बचन दिया । बाकी समाज ने इसकी तरफ कोई ध्यान न दिया । समाज यदि चाहती तो इस बहाने से निर्धन छात्रों की सहायता के लिये एक अच्छा फंड तैयार कर देती, जिससे दी हुई छात्रवृत्ति का क्रम जारी रह सकता था । समाज की इस उपेक्षा से उनको बड़ा खेद हुआ और समाज की बेकद्री को देख कर उनके हृदय को बड़ा धका लगा ।

आपके सामाजिक विचार इस पुस्तक को पूरा पढ़ने से स्पष्ट रूप से प्रगट हो जायेंगे । आप किसी नवीन विचार को एकदम ग्रहण नहीं करते थे । खूब सोच-समझ कर उसे अपनाते थे । अपने विचारों को प्रगट करने का ढंग आपका अपना ही था । सरलता और नम्रता का तरीका आपने अपनाया हुआ था । उम्रता तथा तेजी आप में नाम को न थी । इस लिये पुराने ख्याल के जैनियों में आप मिल-जुल लेते थे और आपका उतना विरोध नहीं हुआ, जितना कि बाबू सूरजभान जी आदि का हुआ । इसका एक कारण यह भी था, कि आप शास्त्रों के विद्वान न होने के

कारण जनता के धार्मिक सिद्धान्तों और मान्यताओं—ठीक और भ्रमपूर्ण—की कोई विशेष आलोचना नहीं कर सकते थे और न करते ही थे। परन्तु इसका यह अर्थ कभी नहीं हो सकता कि आप पुराने विचार के जैनियों की कड़ी समालोचनाओं और कटाक्षों से बचे रहे हों।

आपने १६ वर्ष की आयु से लेकर मरते समय ५४ वर्ष की आयु तक निरन्तर समाज-सेवा की, जो कि एक खास बात है। बिना किसी टूट संकल्प, सच्ची लगन, समाज प्रेम, दिली दुर्द, तथा ऊंची भावना के इस प्रकार समाज तथा धर्म सेवा में जीवन बिताना कठिन बात है। इसी समाज सेवा में आपकी महानता है। धर्म और समाज के लिये आपके समान सर्वस्व निष्ठावर करने वाले महापुरुष समाज में कम ही हैं।



धर्म पालन और धार्मिक विचार

आदमी के धार्मिक विचारों पर उसके युग और आस पास के वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगति, शिक्षा तथा दीक्षा और संस्कारों से धार्मिक विचारों में बड़ा भेद पड़ जाता है। यही कारण है, कि एक घर में भी आदमियों के धार्मिक विचारों में भेद पाया जाता है। परचलित रूढ़ियों, अन्ध विश्वासों, क्रिया कांडों और सामाजिक रीतियों के विरुद्ध बोलने वालों तथा उनमें कुछ सुधार चाहने वालों को तो संसार के किसी भी भाग में किसी समय पसन्द नहीं किया गया। उन्हें नास्तिक, धर्म लोपक, धर्म को मलिया मेट करने वाले तथा लामज्जहब तक कह दिया गया। चाहे उन सुधारकों की बातें शास्त्रों और प्राचीन गुरुओं के उपदेश के सर्वथा अनुकूल तथा युक्ति पूर्ण ही क्यों न हों।

बाबू ज्योतिप्रसाद पूरे सुधारक थे, जैन-ममाज के प्रसिद्ध सुधारक बाबू सूरजभान वकील के प्रभाव में थे और उनके साथी थे। इसलिए उन्हें भी पंडितों के उन सब आक्षेपों का निशाना बनना पड़ा, जो कि बहुत करके सूरजभान पर किए जाते थे। अब देखना है, कि आपके धार्मिक विचार क्या थे। धार्मिक जागृति और पूर्वी तथा पश्चिमी सभ्यताओं के संघर्ष के युग में वे हुए थे। नवीन विचारों को उन्होंने पत्रों में पढ़ा था, छपे शास्त्रों के स्वाध्याय से धर्म के मर्म को समझा था। इन बातों से अधिक वे एक कवि थे। कवि का भावुक हृदय तथा कल्पना-

शील मस्तिष्क उन्होंने पाया था। इसलिए यह आवश्यक था, कि अपने युग के परचलित अपरीक्षित तथा रूढिसमान सख्त अंधविश्वास और कोरे क्रियाकाँड उन्हें साफ तौर से वे जान, निरर्थक, दिखाई दिए। और जिस ढंग से बिना सोचे समझे तथा बिना समझाये वे क्रियार्ये की जाती थीं, उनको ठीक मानना, और वैसे ही करना उनके लिए कठिन था। वे धर्म के प्रभाव को जनता और नवयुवकों में कम होता देख रहे थे। इसलिए वे चाहते थे, कि धर्म का प्रचार ऐसे साधनों से तथा युक्ति पूर्ण ढंगों से किया जाय, कि जनता आर लिखे पढ़े आदमी धर्म और धार्मिक क्रियाओं के रहस्य को समझ जाय और फिर उन पर चले। वे नहीं चाहते थे, कि 'बाबा वाक्यं प्रमाणम्' या भेड़ों के समान पंडितों के पीछे चल कर धर्म को माना जाय। इसलिए उनके व्याख्यान और लेख इन्हीं विचारों का प्रचार करने के लिए होते थे। और इसका यह फल होना आवश्यक था, कि 'गुरुद्वय'की जड़े कटें तथा जनता का विश्वास इन बनावटी क्रिया काँडों पर से उठे। वे मन्दिरों में अधिक वीतरागता और सादगी लाना चाहते थे। अंधा धुन्ध वेदी प्रतिष्ठार्ये करने बिना जरूरत मन्दिर बनाने, धर्म को अपनी पैतृक सम्पत्ति समझने, सबको धर्म पालन करने के उचित साधन न देने, वर्तमान जाति भेद को अनादि तथा सर्वज्ञकृत मानने के वे सर्वथा विरोधी थे। वे विवाह सम्बन्धी कुरीतियों को दूर करने के पक्ष में थे और तमाम आयु इन्हीं बातों का उन्होंने प्रचार किया यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी बात शास्त्र विरुद्ध तथा युक्ति के विरुद्ध है ?

अब धर्म के विधेयात्मक पहलू (positive Side) को लीजिये। वे स्वयं नियम पूर्वक देव दर्शन, म्वाध्याय और जाप करते थे। दुबारा विवाह न करके ब्रह्मचर्य पर पूर्ण जीवन व्यतीत किया। बहुत से जैन तीर्थ क्षेत्रों की यात्रायें की। प्रेम, सेवा, दया, परोपकार आदि गुणों को उन्होंने खूब अपनाया। आध्यात्मिक कवितायें तथा प्रार्थनायें लिखीं। ये सब बातें धर्म श्रद्धा और सच्चे धार्मिक भावों की द्योतक हैं। अगर ऐसे आदमी को दल बन्दी के पक्षपात में नास्तिक और धर्म का शत्रु कहा जाय या माना जाय, तो यह बड़ा अन्याय है। एक बार का जिक्र है, उनका विचार रथोत्सव करने का हुआ। उस समय उनकी अधिक आयु न थी। वे देव बन्द के बहुत से आदमियों के पास गये। पर उन्हें नवयुवक और शरीर समझ कर, सचने उनकी बात को टाल दिया। वे घर आकर अपनी माता के पास खेद करने लगे। माता ने उन्हें समझाकर शान्त किया। दो तीन वर्ष परिश्रम करके, इन्होंने कुछ रुपये जमा किए। और फिर रथोत्सव किया।

यहाँ य सब बातें आज यूँ ही नहीं लिख दी गई हैं, वरन इस पुस्तक के दूसरे और तीसरे खंडों में बाबू ज्योतिप्रसाद के लेखों और कविताओं से व्यक्त होंगी।

आप अच्छे धर्म पालक थे और बहुत से नाम धारी धर्मात्माओं से धर्म को अधिक समझते थे और अपने दैनिक जीवन में धर्म पर चलते थे। उनका धार्मिक व्यवहार बनाबटी, दिखाबटी, अथवा अन्ध विश्वास को लिये हुए न था, बल्कि वास्तविक था।



विधवा विवाह और बाबू ज्योतिप्रसाद



जैन समाज में विधवा-विवाह का प्रश्न काफी पुराना है। लाहौर के बाबू ज्ञानचन्द सम्पादक 'जैन-पत्रिका' ने इसके पक्ष में अपनी पत्रिका में कई लेख लिखे। उसके बाद बाबू सूरजभान, बाबू दयाचन्द गोयलीय सम्पादक 'जाति प्रबोधक' बाबू चन्द्रसेन वैद्य इटावा, पं० उदयलाल काशलीवाल, बाबू विश्वम्भर दास गार्गीय भौंसी, पं० नाथूराम जी प्रेमी, पं० दरबारीलाल सम्पादक 'जैन-जगत' और सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद, बाबू भोलानाथ, श्री० कस्तूरचन्द और ला० जौहरीमल जी, आदि ने इस आन्दोलन को काफी शक्ति प्रदान की। जैन-पत्रिका, जाति-प्रबोधक, सत्योदय, जैन-हितैषी, जैन-जगत, सनातन-जैन आदि पत्र इस आन्दोलन के प्रचारक थे। अब तो यह आन्दोलन सर्वथा जड़ पकड़ गया है और जैन-समाज में विधवा-विवाह घड़ाघड़ हो रहे हैं। न उन पर पहिले सा पेटराज है और न विधवा-विवाह करने वालों के लिये बैसी कोई खास रुकावट है।

पर जैन-समाज में एक समय था, और अब भी कहीं-कहीं वही पुराना युग है, जब कि विधवा-विवाह का नाम भी जवान पर लाना पाप और अपराध समझा जाता था। जनता इसके बारे में कुछ सुनने को तैयार न थी। समाज के अन्दर दस-बोस ऐसे कट्टर स्थिति पालक पंडितों और सेठों का एक दल था, जो अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता, विद्वान, त्यागी और प्रतिष्ठित व्यक्ति को विधवा-विवाह का पक्षपाती कह कर या बदनाम कर उसके सार्वजनिक जीवन को मलियामेट कर देने का यत्न किया करता था। जिन संस्थाओं से उनका सम्बन्ध होता था, यह दल वर्ष-दो वर्ष के विरुद्ध प्रचार से उन संस्थाओं को मिटा देना अपने बॉये हाथ का काम समझता था। इस दल की इतनी धाक बैठी हुई थी, कि मभायें, पंचायतें, समाचार पत्र और बड़े सं बड़े नेता भी इस प्रश्न पर जवान बन्द कर लेते थे। विचारों का अच्छा खासा दमन था। हिन्दी जैन गज़ट तथा रुंटेक वाल जैन हितेच्छु आदि पत्र इस विरोध के अगुवा थे।

बाबू ज्योतिप्रसाद के इस प्रश्न पर क्या विचार थे ? यह एक बड़ा प्रश्न है। उनके विचारों तथा नीति के सम्बन्ध में बहुत से आदमियों को सन्देह रहा है और बहुत से आदमी उनको इस विषय में ठीक रूप से नहीं पहिचान सके। इस प्रश्न सम्बन्धी आपके विचारों पर बाबू सूरजभान, बाबू ऋषभदास और उनकी स्वाभाविक दुर्बलता का बड़ा प्रभाव पड़ा है। बाबू सूरजभान के विचारों तथा रुंगति के कारण वे विधवा-विवाह के हृदय से समर्थक थे, और यही कारण है, कि कभी किसी लेख में या

व्याख्यान में उन्होंने विधवा-विवाह का विरोध नहीं किया। बल्कि अपने पत्र में बाबू सूरजभान और बाबू भूमनलाल एम० ए० वकील के लेख विधवा-विवाह के पक्ष में बराबर निकाले। बाबू ऋषभदास विधवा-विवाह के आन्दोलन को असामयिक (Untimely) समझते थे और उनका विचार था, कि विधवाओं की वृद्धि, वृद्ध-विवाह, बाल-विवाह आदि कारणों को रोका जाय तथा इस प्रश्न पर समाज की शक्ति को खराब न किया जाय। बाल-विधवाओं के विवाह के वे हृदय से पक्ष में थे, पर बाबू ऋषभदास जी ने अपने इस विचार को भी कभी साहस करके प्रगट नहीं किया, वरन् विधवा-विवाह का विरोध किया। बाबू ऋषभदास के ऐसे लेख भी 'जैन प्रदीप' में बराबर निकलते रहे। बाबू ज्योति प्रसाद का ढंग और कार्य-नीति भी कुछ ऐसी ही रही। उन्होंने भी बार-बार विधवा-वृद्धि के कारणों को दूर करने के लिये लिखा। पर बाबू ऋषभदास के समान उन्होंने विधवा विवाह का विरोध कभी नहीं किया। बाबू ज्योति प्रसाद के चरित्र में एक खास बात 'जोकेपणा' थी यानी जनता में प्रिय तथा प्रसिद्ध बनने की इच्छा थी और विधवा-विवाह का समर्थन या विरोध करने से उनके सच्चे भाव तो प्रगट हो जाते, पर वे एक पक्ष को अवश्य खा बैठते। यही उनकी कमजोरी थी। मैं इसको नीति कहने को तैयार नहीं, इसे उनकी बुजदिली कहना अधिक ठीक होगा। उनके इस दुतर्का व्यवहार के कारण दोनों पक्षों में वे अप्रिय से बन गए।

६, ७ मई सन १९२७ को 'सनातन जैन समाज' का प्रथम -

वार्षिक अधिवेशन बाबू सूरजभान जी के सभापतित्व में आकोला में हुआ था। बाबू ज्योतीप्रसाद इस में जाना चाहते थे, परन्तु स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण वे आकोला की लम्बी यात्रा करने के योग्य न थे। पर सनातन जैन समाज के बारे में प्रदीप में उन का स्वलिखित नोट उन के हार्दिक भावों को अवश्य प्रकट करता है। उस का कुछ अंश पाठक देखें:- "सनातन जैन समाज का उद्देश्य केवल विधवा विवाह का प्रचार करना ही नहीं है, बल्कि जैनधर्म का सच्चे रूप में प्रचार करना और समाज की हर तरह से बहवृद्धी (उन्नति) और बहतराई के साधनों पर अमल करना भी है। सनातन जैन समाज का काम अगर इसही रफ्तार से चलता रहा, तो आशा है कि यह जरूर जैन समाज में समय के अनुसार परिवर्तन करदेगा। अगर समय के अनुसार परिवर्तन हो गया, तब जैन धर्म का सितारा भारत वर्षके आकाश में मण्डल पर चमकता हुआ नजर आयेगा। इस सभा का मेम्बर (सदस्य) हर एक जैनी को होना चाहिये और सच्चे हृदय से काम करना चाहिए। ब्रह्मचारी जी (ब्र० सीतल प्रसाद जी) अपने प्रयत्न में सफल हों, ऐसी हमारी भावना है। बाबू सूरजभान सभापति का भाषण हमें मिल गया है। बडा ही दलेरी के साथ लिखा गया है। हमारा इरादा है, कि इस का उर्दु अनुवाद विचार के उद्देश्य से पाठकों के रूबरू पेश करें। ॥"

पर सन् १९२८ की २३ जनवरी को उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें एक वाक्य यह है "विधवा विवाह का मजमून

॥जैन प्रदीप वर्ष १७, अंक ५, पृष्ठ ३४।

(लेख) जैन प्रदीप में शायी (प्रकाशित) न करूंगा। इस के लिए अभी मुआफी चाहता हूँ।” इसके बाद जैन प्रदीप में विधवा विवाह के समर्थन या विरोध में कोई लेख नहीं मिलता। एक बार फिर इस प्रश्न पर कुछ लेख लिखवाने का आपका विचार हुआ था। परन्तु फिर जैन प्रदीप ही बन्द हो गया।

ऊपर की बातों का यही सार है कि आप विधवा विवाह के पक्ष में जरूर थे, परन्तु प्रकट रूप से उसके अनुकूल बोलने, लिखने या अपने विचारों को अमली जामा पहिने में दिखाने में हिचकते थे। और अपनी किसी प्रतिष्ठा में धक्का लगने की जोखिम को उठाने को तैयार नहीं थे।



११

विरोध



सुधार का मार्ग विरोध के दांतों में से होकर गुजरता है । संसार में कौन ऐसा सुधार कार्य है, जिसका हंसी मजाक न उड़ाया गया हो और जिसका विरोध और दमन न किया गया हो शक्ति-पूर्ण प्रचार और हितकर प्रमाणित होने पर उन्हीं सुधारों को जनता ने देर या सबेर में अपनाया है। जैन समाज के अन्य सुधारकों के समान बाबू ज्योतिप्रसाद भी विरोध से न बच सके। मध्यम मार्ग को ग्रहण करके और अत्यंत प्रेम पूर्ण स्वभाव रखते हुए भी, आगका सम्बन्ध बाबू सूरजभान की पार्टी से होने तथा वैसे ही विचारों का नरम शब्दों में प्रचार करने के कारण आपका विरोध होना भी अनिवार्य था । “धर्म चला” “धर्म हूँ बा” “धर्म को मिटाया जा रहा है” इस प्रकार चिल्लाने वाले परिहृत दल की नजर आप पर कैसे न पड़ती ? यदि आपके पत्र हिन्दी में होते, तो मेरे विचार में यह विरोध और तीव्र हो जाता ।

एक बार सम्पादक हिन्दी जैन गजट ने आपकी समालोचना करते हुए आपको ‘नास्तिक’ लिख दिया था । आपने परिहृत जी को रजिस्टर्ड नोटिस देकर नास्तिक होने का प्रमाण मांगा था ।

सहारनपुर में जैनबालबोधिनी सभा के जलसे पर एक प्रस्ताव के द्वारा जैन प्रदीप में धर्म विरुद्ध (!) निकलने वाले लेखों का जवाब देने के लिये 'जैन पत्र समालोचक' कमेटी स्थापित की गई थी। जिसके कार्य-कर्ता सहारनपुर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित आदिमी थे। पर इस सभा ने भी जैन प्रदीप के किसी लेख का उत्तर किसी जैन पत्र या ट्रेक्टद्वारा नहीं दिया।

हिंदी जैन गजट अंक ३५ (२३ जूलाई सन १९२३) में उसके प्रकाशक ने "पंजाब प्रान्त के जैन भाई ध्यान दे।" लेख में पंजाब और सहारनपुर, फीरोजपुर, मेरठ आदि के जैनियों से अपील की थी, कि वे जैन प्रदीप को न पढ़ें क्योंकि यह (पत्र) जैन धर्म के विरुद्ध लेख लिखता है और उनके (बाबू ज्योतिप्रसाद के) विचार धर्म से गिरे हुए हैं x।

इस प्रकार के दमन मय प्रचार से जैन समाज के कितने पत्रों और कार्य कर्ताओं का दबाने का प्रयत्न किया गया है, यह लिखते हुये हृदय कांपता है। इस प्रकार के आन्दोलन का न बाबू ज्योतिप्रसाद पर और न जैन प्रदीप पर कुछ प्रभाव पड़ा, कारण कि जैन प्रदीप के फाटक अधिक उन्नति शील विचारों वाले थे। इस विरोध के बाद भी 'प्रदीप' सात आठ वर्ष चलता रहा और बा० ज्योति प्रसाद जैन समाज की सभाओं में सम्मानित रूप से आते जाते रहे। विरोध और बायकाट की छाप लगजाने से निःसन्देह आपका नाम सुधारकों की श्रेणी में कुछ ऊंचा हो गया है।

⊗ जैन प्रदीप वर्ष १०, अंक २१—२२, पृष्ठ ३१।

x जैन प्रदीप वर्ष ११, अंक १२—१३, पृष्ठ ६

१२

रचनायें

धर्म प्रचार और समाज उन्नति के उच्च भावों से प्रेरित होकर, बाबू ज्योति प्रसाद ने व्याख्यानों और पत्रों के अतिरिक्त कविताओं, ट्रेक्टों और पुस्तकों द्वारा भी समाज की बड़ी सेवा की है। आपने हिंदी और उर्दू, गद्य और पद्य में छोटी बड़ी सब मिलाकर निम्नलिखित कुल २५ पुस्तकें लिखीं, जिन में छोटी पुस्तिकाओं ही की संख्या अधिक है:—

१—धर्म की रक्षा का उपाय (स्वदेशी कपड़ों के प्रचार का सन्देश) ।

२—वैश्य कौम की हालत का फोटू (उर्दू कविता) ।

३—मोहजाल (उर्दू) ।

४—नित्य प्रार्थना [कविता] ।

५—मैं कौन हूँ ।

६—लड़कों को बेचने का ड्रामा ।

७—दिल किससें लगायें [धर्म से] ।

८—हुन्दर लाल [नवयुवकोंपयोगी कहानी] ।

९—सुख कहां है ?

१०—सुख कहां है [उर्दू]

११—सृष्टि कर्तृत्व भीमाँसा [कविता] ।

- १२—ज्योतिप्रसाद भजन माला ।
 १३—काया पलट [सामाजिक उपन्यास]
 १४—जैन शास्त्रोच्चार ।
 १५—बाबू ऋषभदास जी के पवित्र जीवन की झलक
 १६—गृहस्थ जीवन की शिक्षा
 १७—रूहानी तरक्की का राज [उर्दु] ।
 १८—बारह भावना ।
 १९—संसार दुग्ध दर्पण [कविता]
 २०—सादगी और बनावट ।
 २१—प्रिय बालकों को शुभ सन्देश ।
 २२—अनमोल मोती [संग्रह] ।
 २३—विवाह के समय पुत्री को शिक्षा और आशीर्वाद ।
 २४—शील कथा ।
 २५—किसान की भोंपड़ी ।
 २६—उलट फेर (अधूरा अप्रकाशित सामाजिक उपन्यास)

जैन कवि ज्योतिप्रसाद सदा किसी उद्देश्य को सामने रखकर ही लिखते थे, और उनकी प्रायः सभी पुस्तकें उपदेश रूप में हैं । समाज सुधार, सुख शान्ति प्रचार, कुरीति निषेध, चरित्र गठन और आध्यात्मवाद ही आपके उद्देश्य थे । समाज की पतित अवस्था, नवयुवकों की फैशन परस्ती, पंचायतों के अत्याचार, स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार और देश की निर्धनता से आप दुःखी थे । आप चाहते थे, कि देश और समाज की उन्नति हो । इस लिए आपने जीवन भर यथा शक्ति लिखा । यद्यपि आपकी पुस्तकें

का प्रचार अधिकृतया जैन समाज में ही रहा है, पर उनमें से बहुत सी सर्वोपयोगी हैं और अजैन जनता भी उन्हें बड़े प्रेम से पढ़ती थी।

न बाबू ज्योति प्रसाद तत्वज्ञान और जैनदर्शन के पंडित थे, और न सामाजिक समस्याओं के विद्वान। परन्तु आप अनुभवी सहृदय और कल्पनाशील थे। आस पास की दुर्दशा आप पर अपना प्रभाव किये बिना न रहती थी। गली मुहल्ले, राहर और देहात की अवस्था आप से छिपी न थी। बस, कवि की आत्मा को प्रेरित करने के लिए यह काफ़ी था। यही कारण था, कि आपने 'काया पलट' सामाजिक उपन्यास और 'संसार दुख दर्पण' जैसी कविता लिख दी। आप सामाजिक कुरोतियों पर बड़ी युक्ति के साथ लिखते थे।

उन विद्वानों और पंडितों से आप लाख दरजे अछड़े थे, जो जनता के दुखों को दूर करने के लिये कुछ भी नहीं लिखते।

आप उच्चकोटि के लेखक न थे। साधारण लेखकों में आप का स्थान था। परन्तु जिस समाज से साहित्य तथा कला-प्रेम प्रायः उठ सा गया हो, उसके लिये आप भी कम न थे।

जो कुछ आप में श्रेष्ठ, उच्च और सुन्दर था, वह सब आपने पुस्तकों में भर दिया। इसके अतिरिक्त आपकी रचनायें वास्तविकता को लिए हुए हैं, और अपने युग का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे सामाजिक अत्याचार के विरुद्ध बड़ी ललकार हैं। इसी बात में उनका महत्त्व है।

आपकी भाषा सरल थी और उसे साधारण लिखा पढ़ा आदमी भली-भाँति समझ सकता है। यही उसकी विशेषता है। यह हिंसी

वर्तु मिश्रित भाषा है, जैसी कि मेरठ, सहारनपुर आदि जिलों में बोली जाती है। इसी बोली को ठेठ हिन्दुस्तानी कहा जा सकता है।

आप के लिखने की शैली युक्ति तथा दृष्टांत पूर्ण होती थी और पढ़ने वाले के हृदय पर शीघ्र अपना प्रभाव कर देती थी। उन की शैली में पुनरुक्ति का दोष अधिक था। आप एक ही बात को समझाने के लिए बार बार बहुत से उदाहरण देते थे।

उनकी पुस्तकों की कोई समालोचना यहाँ देना आवश्यक नहीं है। छोटे ट्रेक्टों की समालोचना भी क्या? पर उनकी समस्त पुस्तकों में 'काया पलट' उपन्यास, "सृष्टि कर्तृत्व मीमासा" और "संसार दुखदर्पण" अच्छी तथा उपयोगी चीजें हैं। कुछ कवितायें भी अच्छी हैं। मेरा ख्याल है कि इन में से कई साहित्य में स्थायी स्थान पाँयेंगी।

'काया पलट' २३६ पृष्ठ का सामाजिक उपन्यास है और इसे उन्होंने २१ दिन में ही पूरा कर दिया था। रात दिन इतना परिश्रम किया, कि स्वास्थ्य खराब होगया। इसकी भूमिका स्वर्गीय लाला कान्धोमल जी एम० ए०, जज रियासत धौलपुर, ने लिखी थी।

'संसार दुख दर्पण' के लिखे जाने की बात कुछ दिलचस्प सी है। एक दिन शाम को बाहर बैठे कवि भूधर दास का कोई दोहा उन्हें याद आगया। उस पर कुछ विचार किया, और रात के दस बजे से तीन बजे तक बैठकर ७० पद्यों में 'संसार दुख दर्पण' तय्यार कर दिया। इसके अंत में एक सुन्दर भजन "समस्त मन स्वार्थ का संसार" सात पद्यों में लिख दिया। 'संसार दुख: दर्पण' जैन समाज में इतनी प्रिय हुई कि थोड़े ही समय में उसको बीस हजार प्रतियां बंट गईं। — — —

आप अपनी पुस्तकों को छपवाने और बांटने के लिए दानी महानुभाव कौरन तलाश कर लिया करते थे ।

बाबू ज्योतिप्रसाद 'जैन कवि' के नाम से प्रसिद्ध थे । आप बचपन से ही तुकबन्दी करने लगे थे । जब कुछ कविता प्रेम बढ़ा, तब आप भजनों को अपने अध्यापक पं० भुन्नी लाल जी को दिखाने लगे । बाद में नानौते के पंडित मंगत राम जैन से अपनी कवितायें ठीक कराने लगे । हिंदी 'जैन गजट' में वे कवितायें छपने लगीं । आपको कविताओं से प्रसन्न होकर आपको प्रोत्साहन देने के लिये दिगम्बर जैन महासभा ने कुण्डल पुर के अधिवेशन में सन् १९०७ में आप को "जैन कवि" की उपाधि प्रदान की । अच्छे और उच्च कोटि के कवियों के अभाव में आप का यह सम्मान होना अनिवार्य ही था । जिस धर्म के अनुयाइयों में संस्कृत, प्राकृत, कनाडी और हिन्दी के बड़े बड़े सैंकड़ों कवि हुए हैं, उन में कवियों का अभाव बड़ा खटकता है ।

आपकी कविता के बारे में वह आदमी क्या लिख सकता है, जो न स्वयं कवि है और न जिसे छंदों का ज्ञान है ? कुछ कवितायें कोरी तुकबन्दी हैं । कुछ बहुत ही लम्बी और अरुचिकर हैं । उन सब को इस पुस्तक में नहीं दिया गया है । फिर भी ऐसी कवितायें काफी हैं, जो अच्छी हैं, पाठनीय हैं और संग्रह के योग्य हैं । एक समाज प्रेमी की कृति नष्ट न हो, आर जनता उन से कुछ आत्मिक शांति प्राप्त कर सके, इसी सदुद्देश्य से उन्हें यहाँ एकत्रित कर दिया गया ।

१३

सामाजिक कामों से जुदाई और स्वर्गवास



जून सन् १९३० में जैन प्रदीप के बन्द हो जाने पर, बाबू ज्योतिप्रसाद जी जैन समाज के कार्य क्षेत्र से बहुत कुछ अलग हो गये। परन्तु इसके पश्चात् भी आप जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूता के प्रबन्ध में हाथ बटाने और अन्य सस्थाओं तथा सभाओं के अधिवेशनों पर व्याख्यान देने का काम करते रहे। पुत्र विक्रम के विरुद्ध एक छोटा सा ड्रामा और कुछ कविताएँ भी लिखीं। संठ ज्वालाप्रसाद जी के स्वर्गवास के पश्चात् और घर में मृत्यु पर मृत्यु होने से सामाजिक कार्यों से आपकी दिलचस्पी कम हो गई। जिस आदमी ने इतनी आयु तक समाज सेवा की हो, वह सर्वथा पूर्ण रूप से तो कभी अलग नहीं हो सकता।

नवम्बर सन् १९३६ में आप बीमार पड़ गये। आपको जिगर की बीमारी हुई और हृदय दुर्बल हो गया। फिर आप के पाशों पर सूजन हो गया और आप जलोदर रोग से भी ग्रसित होगये।

इस तमाम काल में आपका काफ़ी इलाज किया गया, पर आराम न हुआ। समस्त बीमारी में आपको कभी यह ख्याल न आया, कि यह बीमारी आपके लिए घातक प्रमाणित होगी। सात महीने की बीमारी में अच्छे से अच्छे दृढ़ स्वभाव वाले आदमी अधीरों और चिढ़े चिढ़े स्वभाव वाले हो जाते हैं। परन्तु आपकी शांति और धैर्य मिलने वालों को चकित कर देती थी। मृत्यु की गोद में होते हुए भी, इतना दृढ़ रहना महान धैर्य का द्योतक है। केवल अंतिम दिन आपको अपना अंतिम काल समीप ज्ञात हुआ। फिर भी न कुछ घबराहट थी और न हृदय-व्यथा। वे अपना जीवन अत्यन्त उत्तम काम में लगा चुके थे। और आपको दुनियाँ के भ्रष्ट का कोई दुःखदायक मोह न था। इस समय तमाम घर में एक अप्रकृत अनिष्ट का भय छा रहा था। जवानों बंद थीं, पर हृदय और आँखें आपस में बातें कर रही थीं। उँगलियों के सकेतो से काम हो रहा था। घर में निस्तब्धता छाई हुई थी। माता, भतीजी और भतीजा सब पास थे। आदीश्वर, पन्द्रह वर्ष का भतीजा, इस हृदय विदारक दृश्य को सहन न कर सका। वह रो उठा। शांति और धैर्य का उपदेशक फिर कहने लगा, “बेटा! तुम बावले हो। तुम सब योग्य हो। तुम तो १५ वर्ष के हो। जब मेरे पिता का देहान्त हुआ था, मैं ७ वर्ष का था।” बालक का मुँह बंद करने के लिए ये शब्द काफ़ी थे। पर उसका हृदय तो इन शब्दों को निरर्थक समझ कर फिर भी रो रहा था।

विक्रम संवत् १९९४ का ज्येष्ठ था। २८ मई १९३७ तिथि अमावस और शुक्र वार का दिन था। रात के साढ़े नौ बजे थे।

रात का समय और रात भी अमावस की अंधेरी रात, अंधेरी रातें बहुत आती हैं। पर वह रात 'प्रेमभवन' देवबन्द और जैन जगत के लिये संच मुच काल रात्रि बन गई। प्रेम भवन की ज्योति विलुप्त हो गई। भवन में अंधेरा छा गया और वह खाली हो गया। माता गोपी देवी का संसार फिर वैसा ही बन गया, जैसा कि बहुत पहले था।

उसी समय यह हृदय विदारक समाचार विजली की तरह ममस्त देवबन्द में फैल गया। मित्र और स्नेही बुझी हुई ज्योति के दर्शन करने के लिये आँसुओं की प्रम भेंट लेकर प्रेम भवन के सामने एकत्रित हो गये थे। गुणों तथा इस भयंकर वजू पात पर कानाफूसी होने लगी। कुछ बड़े बूढ़े आगे आये और जनता को उनका कर्तव्य सुझाकर, मनुष्य की विनाशमान प्रकृति का बोध करा कर अंतिम संस्कार की तय्यारी करने लगे। तभी उसी रात को आपका दाहकर्म कर दिया गया।

किसी कार्यकर्त्ता के जीवन काल में या उसकी मृत्यु के क्रौरन पोछे, उसके काम का और उसके प्रभाव का अनुमान लगाना कठिन है। राग और द्वेष रहित दृष्टि कोण से अनुमान कुछ समय के बाद ही लगाया जा सकता है। परन्तु जैन कवि ज्योतिप्रसाद के काम और समाज सेवायें ऐसी थीं, कि उन का प्रभाव आज भी दृष्टि गोचर हो रहा है। आपने एक उर्दू जैन पत्र को सफल रूप से सम्पादित तथा प्रकाशित करके जहाँ उर्दू लिपी जानने वाले जैनियों में धर्म प्रचार तथा सुधार कार्य किया, वहाँ इस भाषा में काम का द्वार भी खोल दिया। आपके प्रोत्साहन से जैन समाज

में बहुत से लेखक और कई सम्पादक बन गये। पञ्चाय और संयुक्त प्रान्त में आपने काफी जागृति फैलाई। आपके ब्याक्तत्व के प्रभाव तथा उपदेश से सैकड़ों नवयुवकों के जीवन बन गए। जिन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अन्य नेताओं के साथ आपने आवाज उठाई, उनकी जड़ें खाँखली हाँ गईं। आपने खड़ी बोली में कविता करके जैन समाज में इस तरफ जनता की रुचि फेरी। इन सब बातों से बड़ी बात यह है, कि आपने साधारण स्थिति में हाते हुए भी, दृढ़ संकल्प करके निस्वार्थ भाव से जीवन भर तन, मन, धन से समाज सेवा करके समाज के सामने एक बहुत ऊँचा आदर्श स्थापित कर दिया। यह काम मामूली न था। समाज और धर्म के लिए अत्यन्त अधिक प्रेम रखने वाला आदमी ही इतना बड़ा त्याग कर सकता है। उनका त्याग और सेवा देश के सैकड़ों नवयुवकों को पथप्रदर्शक का काम देगा। आत्मसेवा के युग में यह कोई छोटी बात नहीं है।



१४

औरों की दृष्टिमें ज्योतिप्रसाद

।कसी आदमी को ठीक समझाने के लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है, कि भिन्न २ आदमी उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। जैसे उन्होंने उसको देखा है, या उनके सम्पर्क में आने से तथा आँखों देगी घटनाओं से जैसा उन्होंने उसे पाया है, उससे उसके चरित्र का ठीक अनुभव लगाया जा सकता है। इस पुस्तक का लेखक देववन्द. मुजफ्फर नगर, मेरठ और देहली जाकर स्वयं बहुत से आदमियों से मिला है, और उनसे बाबू ज्योतिप्रसाद के बारे में पूछ ताछ की है। गुण भी पूछे हैं, और दोष या त्रुटियाँ भी। पत्र व्यवहार से भी उनके स्मरण प्राप्त किए हैं। स्वतंत्र रूप से इनसे उनके चरित्र का अनुमान लगाया जा सके, इसी उद्देश्य से बहुत से संस्मरण यहां दिए जाते हैं:—

१—सन् २०, २१ में मैंने देहरादून से बाबू ज्योति प्रसाद को काँग्रेस आन्दोलन के बारे में एक पत्र लिखकर पूछा, परन्तु बाबू

ज्योतिप्रसाद ने एक ढीला सा उत्तर दिया। इस पर मैंने उन्हें एक पुरजोश पत्र लिखा। फिर बाबू ज्योतिप्रसाद ने मुझे देवबन्द आकर काम करने के लिए लिखा। परन्तु यहाँ आकर उनसे बातचीत करने पर देवबन्द की उन दिनों की परिस्थिति में बहुत धीरज तथा शांति से काम करने की उन्होंने सम्मति दी, क्योंकि बाबू ज्योतिप्रसाद की राय थी, कि नवयुवकों को बिना अपनी आर्थिक स्थिति ठीक हुए, आन्दोलनों में भाग नहीं लेना चाहिये, जिससे उन्हें बाद में अपने प्रण से न हटना पड़े और उस पर डटे रह सकें।

—पं० जगदीशचन्द्र वैद्य, देवबन्द।

२—उन्होंने हिन्दी पढ़ी। किंतु उर्दू अपने आप ही सीख ली और वे उर्दू बहुत जल्दी २ सुलेख लिखते थे और उनके पत्र भी उर्दू में ही थे।

—श्री० गंगा प्रसाद जी प्रेम. बी० ए०, एल० टी०,

३—उनकी वकृता में युक्तियां तर्क पूरे होती थीं और थोड़े में बात को समझा देते थे। और जनता पर उन की वकृता का अच्छा प्रभाव पड़ता था।

४—ढाक का बड़ा इंतजार करते थे, और कई बार ढाकघर तक जाकर ढाक ले आते थे। पत्रों को शीघ्र पढ़कर उनका शीघ्र ही उत्तर देते थे, बिना इस बात का विचार किए कि पत्रोत्तर में खर्च होता है।

५—जैनप्रदीप का सम्पादन, प्रकाशन, पैकिंग, रैपिंग, टिकट लगाना, पता लिखना आदि सब काम स्वयं फुरती के साथ बड़े

अच्छे ढंग से मशीन के समान करते थे। कभी कोई क्लर्क नहीं रखा। (आरम्भ में कुछ काम नौकर से लेते थे। जहां यह उनकी कार्य शक्ति प्रकट करता है, वहां यह पत्रकारों की सच्ची दुरावस्था तथा कठिनाई को भी प्रगट करता है। लेखक)

६—किसी विषय पर कविता, लेख और व्याख्यान आदि वे शीघ्र ही बिना किसी विशेष तयारी के कर देते थे और उसको अच्छा ही करते थे।

७—समय के बड़े पावन्द थे। जिस समय पर किसी से मिलने का समय लेते थे या देते थे, उसी समय पर काम करते थे।

८—मिलनसार थे। मुलाकात करने के बड़े शौकीन थे। चाहे वह आदमी सरकारी हो, काँग्रेसी हो या समाज सुधारक हो। जो उनके पास मिलने आता था, बाबू ज्योतिप्रसाद उससे मिलकर बहुत खुश होते थे और उसका उचित सम्मान तथा आदर करते थे।

९—लोगों के दुःख दर्द में शरीक होना उनके लिए स्वाभाविक सा हो गया था और सभी से बिना भेद भाव प्रेम करते थे।

१०—ईश्वर भक्ति, देव दर्शन, समाज-सेवा, सभासोसायटियों में शामिल होना उनकानित्य नियम था।

११—सहन-शक्ति, धैर्य-शक्ति, कष्ट सहन-शीलता उनके विशेष गुण थे और आप कभी अपने आदर्श से विमुख नहीं हुए। कष्ट में घबराते न थे। घर पर मृत्यु पर मृत्यु होने पर भी धैर्य को हाथ से न छोड़ा और कभी अपने काम को हाथ से न छोड़ा और कभी अपने काम में कमी न की।

१२- मृत्यु शय्या पर हांते हुए भी, कभी उनका बराहते नहीं पाया गया। यह जानते हुए भी कि मृत्यु निकट है, कभी वेदना प्रगट न की, बरन प्रसन्न मुख रहते थे। ज्वर बहुत था, यह प्रगट नहीं होने दिया कि उनको मृत्यु की वेदना है। बल्कि राम-नाम जपते थे और इसको ईश्वरेच्छा समझते थे।

१३—बड़े आशावादी थे। और घेरे-शील स्वभाव के थे। तमाम बीमारी में कभी यह ख्याल नहीं आया, कि वे न बचेंगे। केवल अंतिम दिन मृत्यु का ख्याल आया होगा।

—बाबू अमर नाथ वकील, देवचन्द।

१४—पर सेवा के लिए हर समय तय्यार रहते थे, चाहे वह आदमी अपने मिलने वाला हो या नहीं। आगंतुक की सहायता करना कर्तव्य समझते थे।

१५—यदि किसी आदमी से उनका परिचय हो जाता था, तो फिर वे पत्र व्यवहार और मिलने आदि से उससे सम्बन्ध कायम रखते थे।

१६—लेन देन (dealings) के बड़े साफ थे और कोई आदमी उनका शाकी न था।

—बाबू जन्मूप्रसाद जैन वकील, देवचन्द

१७—अपनी समाज की उन्नति का भाव उनके हृदय में सर्वोपरि था और किसी प्रकार भी जैन समाज में कमी न देखना चाहते थे। वे प्रथम जैन थे और सब कुछ पीछे थे। विन्तु अन्यों से भी प्रेम करते थे। उनके व्यवहार से कट्टरपन अथवा अनुदारता प्रकट न होती थी। यही कारण था कि अन्य समाजों में उनके काफी मित्र थे।

१८—अपनी बात की पच करते थे और उस पर डटे रहते थे किन्तु यदि बाद में उसमें उन्हें गलती मालूम होती थी, तो वे छोटे से छोटे आदमी से भी विरोध को हटाने में आना कानी नहीं करते थे।

१९—स्वभाव में कुछ क्रोध भी जरूर था। परन्तु उसके कारण किसी से कोई विशेष विरोध नहीं होता था। और जितनी जल्दी क्रोध आता था, उतनी जल्दी वह चला जाता था।

२०—भावुक थे। कवि और लेखक की भावुकता उनमें प्रयाप्त मात्रा में थी। कल्पनाशील (Imaginative) भी थे। समाज का तमान चित्र जरासी देर में कल्पना करके लिख देते थे।

२१—वे स्वनिर्मित (Selfmade) आदमी थे और छोटी स्थिति से उठकर इतनी ख्याति प्राप्त की।

—श्री० अनन्तप्रसाद जैन, देववन्द,

२२—यदि आपके पास कोई दुखी या शोकातुर आदमी आ जाता, तो दस पाँच मिनट की बात चीत में ही उसका रंज, शोक दूर हो जाता था। यही बात इंग्लैंड के प्रधान मंत्री बियमपिट में भी थी।

२३—आप अपने दुख रंज, घाटे को बात हर किसी को सुना कर दुखी न करते थे। शायद किसी विश्वस्त मित्र को ही सुनाते हों

२४—आप रौबदार आदमी थे। आपकी बात का प्रभाव दूसरों पर आसानी से पड़ जाता था।

२५—यदि कोई उनके पास गया, तो रुढ़ उसकी सहायता

करने और कराने के लिए तय्यार रहते थे, चाहे उसके विचार उन से मिलते हों या नहीं ।

—बाबू आनन्दप्रसाद, बी० ए०, प्रधान कांग्रेस कमेटी,
देवबन्द ।

२६—उन्होंने राष्ट्रीय कामों में कभी क्रियात्मक (Active) भाग नहीं लिया । तो भी देवबन्द के राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय हलचलों में उनका भाग कम न था ।

२७—पंचायत आदि में जब वे कोई फैसला देते, वह सब को मान्य होता था ।

—ला० कीर्तिचन्द्र (सहपाठी) देवबन्द ।

२८—आप में गुरु भक्ति कूट कूट कर भरी थी ।

२९—यदि कोई आदमी आपके पास जाता था, तो आप सदा उसकी महायता करने तथा कराने को तय्यार रहते थे, चाहे वह आदमी आप से मतभेद ही क्यों न रखता हो ।

३०—एक बार रथोत्सव के मौके पर एक भाई ने प्रबन्ध के बारे में कुछ समालोचना करदी । मैंने ख्याल किया, कि यह फिक्ररा (Remark) बाबू ज्योतिप्रसाद की सम्मति से किया गया है । मैंने बाबू ज्योतिप्रसाद को दस पाँच सख्त बातें कह दीं । उसी शाम को बाबू ज्योतिप्रसाद ने मजदूरों को इनाम देने से पहिले मुझे बुलाने को कहा । परन्तु मैं न आया । अगले दिन वे स्वयं मेरे पास आए और सारी भूल-गलत फहमी-को दूर कर दिया ।

३१—पिछले वर्ष १९२६ में उत्सव के मौके पर दस्तूरुल अमल के कारण दो दल बन गए । परन्तु बाबू ज्योतिप्रसाद-ने कहा कि

हम किसी दल में शामिल नहीं, उत्सव में शामिल हैं। इसका फल यह हुआ, कि विरोधी दल भी उत्सव में सम्मिलित हो गया।

३२—भादों की दशलाक्षणी में प्रतिदिन पूजन किया करते थे।

३३—अपने भाई जयप्रकाश की मृत्यु के पीछे उसकी स्मृतिमें बाबू ज्योतिप्रसाद ने ५००) रुपये छात्र वृत्ति (Scholarships) के लिए निकाले। उन्होंने समाज से इस पंड में कुछ सहायता देने की अपील की। मैंने १००) रुपये का वचन दिया। पर और कहीं से उनको एक भी वचन या रकम न मिली। इससे उन्हें बड़ा खेद हुआ और हृदय उदासीन (depressed) हो गया। उनको ख्याल हुआ, कि अच्छा होता, कि वे अपना समय अपने काम में लगाते। समाज सेवा से उनकी रुचि कम होगई।

—बाबू बलवीरचन्द एडवोकेट, रईस और आनरेरी—
मेजिस्ट्रेट, मुजफ्फर नगर।

३४—बाबू ज्योतिप्रसाद जी विवाद प्रस्त विषयों पर प्रायः चुप रहा करते थे। और इससे शुद्ध आम्नाय वाले × इनको दोष देते कि इनके विचार बाबू पार्टी (सुधारक दल) के हैं। पर ये भी इन शुद्ध आम्नाय वालों को खुश करने का प्रयत्न करते थे।

नोट—और शायद इसीलिए कभी कभी सुधारक दल भी इन पर नरमी और दबवृपन का दोष लगाया करता था। (लेखक)

३५—इन्होंने कभी रुपया बनाने का प्रयत्न नहीं किया। समाज सेवा का काम करते हुए उन्होंने कभी पैसा रुपया इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। यदि वे चाहते, तो बहुत रुपया बना लेते!

× कट्टर और स्थितिपालक जैनी। लेखक।

मेरे विचार में यह उनके चरित्र की अत्यन्त सुन्दर, उज्वल और अनुकरणीय बात थी। एक अच्छे कार्यकर्ता को उस समय तक कोई काम न करना चाहिये, जब तक कि वह अपने लिये कुछ रुपया एकत्रित न कर ले क्योंकि समाज उसके सार्वजनिक जीवन में और उससे अलग हो जाने पर उसकी कुछ भी चिन्ता तथा परवा नहीं करती।

३६—वे किमी एकान्त स्थान पर बास करने के इच्छुक थे। उन्होंने आगरे के समीप कैलाश पर एक स्थान पर रहना चाहा, पर वहां प्रबन्ध न हो सका। फिर वे कभी कभी पंचकूला गुरुकुल में रहने लगे।

३७—वे तीनों सम्प्रदायों की सभा सोसाइटियों में बिना रोक-टोक शामिल होते थे और मजा यह था, कि कोई यह नहीं कह सकता था, कि वे दिगम्बरी हैं या श्वेताम्बरी या स्थानकवासी हैं। वे उनमें उनके ही समान रहते थे।

३८—बाबू ज्योतिप्रसाद जी समाज सेवा के छोटे से छोटे काम को बड़ी खुशी से करते थे। एक बार श्री ऋषभ ब्रह्मचर्य-आश्रम, हस्तिनापुर के दूसरे वार्षिक अधिवेशन पर पण्डाल में रुक्यं भाड़ू दे रहे थे। मेरे यह कहने पर, कि नौकर को बुला लो, वे कहने लगे कि यह काम भी तो करना ही है और फिर नौकर भी तो काम कर ही रहा है।

—ला० उपसैन जैन सराफ़,
कोषाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमिटी, मुजफ्फरनगर।

३९—बाबू ज्योतिप्रसाद के संसर्ग ने मुझे बहुत सी खराबियों से रोक रखा ।

४०—वे वैश्य होते हुए भी चारों बरों का काम करते थे ।

४१—वे राज नैतिक काम करने के लिए दुर्बल थे ।

४२—आप जैन समाज की भिन्न २ संस्थाओं के अधिवेशनों पर बराबर जाते थे । कर्तव्य का अहसास-ख्याल-बहुत था । और जैन समाज के लिए बहुत सहानुभूति रखते थे ।

४३—उनको समाज सेवा का काम बहुत प्यारा था । जैन समाज की सेवा बहुत की और उसे ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयत्न किया ।

४४—जैन बोर्डिंग हाउस, मेरठ, के सम्बन्ध में बड़े उत्साही थे । और पहिला चन्दा उनका ही था । बोर्डिंग हाउस से उनका सम्बन्ध आरम्भ से अंत तक बना रहा ।

—ला० मित्र सैन, सुप्रिण्टण्डेंट जै० थो० हा० मेरठ ।

४५—बीमारी के दिनों की चिट्ठियों में खास शांति होती थी ।

४६—देहली के जैनों को जो लाभ उनसे था, वह किसी और से न था । फिर भी सिवाय जैन अनाथ आश्रम के और किसी भी संस्था ने (खास कर जैन मित्र मंडल ने) उनकी सृत्युपर शोक प्रस्ताव पास नहीं किया । इसका मुझे खेद है ।

—ला० जौहरी मल सराफ, देहली ।

४७—जब कभी वे देहली आते थे, प्रायः हमारे यहाँ ठहरते थे । और बहुधा चौबीसों घण्टों समाज, तथा कविता आदि के बारे में ही सोचते रहते थे ।

—पं० महबूबसिंह जी रईस, सराफ, देहली

४८—वे बड़े प्रेमी और उच्च कोटि के समाज सेवक थे ।

—लाला राजकृष्ण जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, दी कौलोनी जेशन लिमीटेड, देहली ।

४९—पंजाब प्रौक्तिक सभा के हिसार वाले अधिवेशन में उनका काफी हाथ था ।

—ला० पन्ना लाल जैन अग्रवाल, देहली ।

५०—मैंने जो कुछ लिखना सिखा है, वह सब उन की ही बदौलत सीखा है । इसलिए मैं कह सकता हूँ, कि मुझे बनाने वाले वही थे ।

—बाबू चन्द्रनाथ जैन अखतर वकील, भूतपूर्व सहायक सम्पादक जैन प्रदीप, देहली ।

५१—उन्होंने जैन प्रदीप का सम्पादन कई महीने के लिए मुझे सर्वथा सौंप दिया था और लग भग चार पाच महीने मैंने ही देहली से पत्र का सम्पादन किया । आर प्रदीप की सम्पादकी सदा के लिए नवयुवकों को काम सिखाने के ख्याल से देने का तय्यार था ।

५२—आप बेतकुल्लफी बहुत पसन्द करते थे । और देहली मेरे पास प्रायः ठहरते थे । खाना आदि जैसा बनता था, खालेते थे ।

५३—स्व० सेठ ज्वाला प्रसाद जी ने दूरदर्शिता पूर्वक उनको बे-फिकर करने के लिए तथा समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए, उनकी मासिक सहायता नियत करदी । स्वभाविक रूप से उनका परस्पर में गहरा सम्बन्ध होगया । यह उन दोनों आर

समाज के लिए अत्यन्त हितकर प्रमाणित हुआ। श्री जैनन्द्र, गुरुकुल, पंचकूला, को इस भा प्रत्यक्ष लाभ हुआ।

५४—श्री० भारतवर्षीय जीव दया प्रचारिणी सभा, आगरा, के देहली वाले वार्षिक अधिवेशन का सभापति सेठ ज्वाला प्रसाद जी को बनाने में वेही निमित्त थे।

५५—मूर्तिमान प्रेम थे। इसलिए प्रेमी नाम सार्थ किया।

५६—मित्रों, साथियों और मिलने वालों के दैनिक कारवार, चिंताओं और कामों में दिलचस्पी लेते थे, उनको अपना ही समझते थे और इस तरह व्यक्तिगत सम्बन्ध (personal affinity) कायम करलेते थे। समय पर बड़ा काम आते थे।

५७—बाल सभाओं के अधिवेशनों पर बालकों के निमन्त्रण पर भी चले जाते थे और उनके कार्य कर्ताओं से सदा के लिए सम्बन्ध कर लेते थे।

५८—सफ़र खर्च कभी न लेते थे। जैन प्रदीप की सहायता के रूप में यदि कुछ बिना मागे मिल जाता, तो लेलेते थे, और यह बुरा न था।

५९—उस समय जो भी आन्दोलन चलते थे, वे उन में से किसी में भी पीछे रहे मालुम नहीं होते। जहाँ तक मुझे ख्याल है, प्रकट या अप्रकट रूप से उन्होंने उन में भाग जरूर लिया है।

—पं० जुगलकिशोर मुख्तार, सरसावा।

६०—जैन समाज की संस्थाओं से आप को बड़ा प्रेम था। आपने जैन समाज से बुरे रिवाजों को दूर करने की बहुत कोशिश की। आप शीलवान और धर्म के सच्चे प्रेमी थे।

—ला० मन्नु लाल बैकर.-मेरठ।

६१—जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूला का प्रथम वार्षिक अधिवेशन २१ फरवरी सन १९२६ को पंच कूला में हुआ। इसी मौके पर दोनों साहब यानी बाबू ज्योतिप्रसाद जी और सेठ ज्वाला प्रसाद जी की मुलाकात हुई। सेठ ज्वाला प्रसाद जी का १७ जनवरी १९३६ को मुहम्मद देहली में मृत्यु हुई। इस समय बाबू ज्योति प्रसाद भी वहाँ पर थे।

—भगत नोराताराम, अधिष्ठाता जैनेन्द्र गुरुकुल, पंचकूला।

६२—गुरुकुल के पहिले अधिवेशन के बाद से और मरने समय तक सेठ ज्वाला प्रसाद जी और बाबू ज्योति प्रसाद जी का बड़ा सम्बन्ध रहा। बल्कि यूँ कहिए, कि बाबू ज्योति प्रसाद जी सेठ साहब के दाये हाथ थे। सेठ जी घरेलु और सामाजिक कार्यों में बिना उन की सम्मति के कोई काम न करते थे। एक प्रकार से दोनों में घरोपा सा हो गया था। सेठ ज्वाला प्रसाद जी की सामाजिक और लौकिक प्रसिद्धि में बाबू ज्योति प्रसाद जी का बड़ा हाथ था। और बाबू ज्योति प्रसाद जी की भी प्रसिद्धि खास कर स्थानकवासी समाज में सेठ जी की बदौलत होगई।

६३—बाबू ज्योति प्रसाद जी अपने विचार के पक्के थे। आका ख्याल था कि पत्नी के मर जाने पर पति को दूसरी कुवारी लड़की से विवाह करना पाप है। चूनाँचे जब आप को धर्म पत्नी भवर्गशास कर गई, तब आपन दूसरे विवाह का नाम भी नहीं लिया। और लोगों को यही उत्तर दिया “मै अपनी कर्म से लिख चुका हूँ। तो जीवन पर तक इसा पर अमल करूँगा।”

६४—इनसानी कमजोरियों से बे रहित न थे विधवा विवाह

के हामी थे। लेकिन फिर भी मौक़ा पड़ने पर इसे अमली जामा न पहिना सके।

६५—स्वर्गीय बाबू ज्योति प्रसाद जी मेरे परम स्नेही मित्रों में से थे। वे बड़े सादगी पसन्द, सरल स्वभावी, मिलनसार थे। उनमें कपट भाव लेश मात्र को भी नहीं था। वे जो कुछ कहते थे, करते भी वही थे। उच्छ्रंखलता उनमें नहीं थी। वे किसी नवीन विचार को एक दम स्वीकार नहीं करते थे, जब तक कि उस पर गम्भीर विचार न करलेते थे।

—बाबू विश्वम्भर दास गार्गीय, फ़ांसी।

६६—विधवा विवाह के वे अंतरंग में समर्थक थे, किन्तु इसके पक्ष में उन्होंने आज तक कोई लेख नहीं लिखा। इस विषय के लेखों को उन्होंने अपने पत्र में स्थान दिया है, किन्तु अपने को उन लेखों की जिम्मेबारी से अलग रखा है। आप सच्चरित्र भी पूरे थे।

६७—करीब १९११, १२ की बात है, जब मोरेना की छात्र-मण्डली देवचन्द की भूतत्रयी में बाबू सूरजभान, और पं० जुगल किशोर जी के साथ आपको भी सम्बोधन क्रिया करती थी।..... किन्तु उनके जैसी प्रखरता और तेजस्विता आप में नहीं थी। इसलिए जहाँ उक्त दोनों महानुभावों की तीक्ष्ण आलोचनाओं के परिणाम स्वरूप उनके तिरस्कार की लहर बह रही थी, आप कभी उस तिरस्कार के पात्र न हुए।

६८—आपकी लेखनी में एक विशेषता थी, कि आप कड़वी से कड़वी बात को भी भीठे स्वर में लिखने में बड़े चतुर थे।

६९—आपको मैंने कभी क्रोध के आवेश में नहीं देखा । सम्भव है, यही कारण हो कि आपके लेख भड़काने व क्रोध दिखाने वाले नहीं होते थे । कभी कभी तो आप विनोद की बातें करके आवेश को यूँही टाल दिया करते थे । अशांत वातावरण को शांत कर दिया करते थे । इस तरह आप अल्हाद की भी पूर्ण सामग्री थे ।

७०—मैं ज्योति प्रसाद को बहुत समीप मित्र के रूप में जानता था । वे एक महान आत्मा थे ।

—बाबू अजित प्रसाद एम० ए०, एल० एल० बी०, एडवोकेट
सं० अंग्रेजी जैन गजट, लखनऊ ।

७१—कौम के लिए ऐसे वीर मिलने अत्यन्त कठिन हैं । आपने कौम के लिए न केवल तन मन और धन से ही कुर-वानियाँ की, बल्कि जाति की हर आबाज और मिशान को अपने पत्र जैन प्रदीप के द्वारा दुनिया के कोने २ तक पहुँचाया ।

—श्री० ज्ञानचन्द ओसवाल, स्याल कोट ।

७२—बाबू ज्योतिप्रसाद जी जैन कवि बीसवीं सदी के उन जैन सुधारकों में से थे, जिनका हृदय सरोवर सामाजिक-सुधार भावनाओं से केवल ओतप्रोत न था, वरन जिन्होंने जैन समाज के सुधार और अभ्युत्थान के लिए आजन्म प्रशंसनीय और अनुकरणीय सेवाएँ की हैं ।

—राय साहब लाला नेमदास जी, शिमला ।

७३—आप बड़े सहृदय, प्रेमी और उदार चित्त सज्जन थे । साम्प्रदायिकता के आप कट्टर विरोधी थे । दिगम्बर, श्वेताम्बर

और स्थानकवासी किसी भी सम्प्रदाय की धार्मिक संस्था क्यों न हो, आप वीर प्रभू के शुभ नाम पर उसकी सेवा हृदय से करते थे। आपके विद्योग से जैन समाज की असह्य क्षति हुई है, उसकी पूर्ति होना दुःसाध्य है।

७४—आप नवयुवकों, विशेषकर विद्यार्थियों, के बड़े हित चिंतक थे और उनकी कठिनाइयों को सुलभ्भाकर उनको सदा के लिये मोह लिया करते थे।

—श्रीयुत श्रीराम गुप्ता, देवबन्द।

७५—बाबूज्योतिप्रसाद की अन्तिम बीमारी के दिन थे। मैंने उनसे कहीं एक पत्र लिखाया था। बीमारी के दिनों में भी उन्होंने उस को अपनी ढाक वही में बद्धा कर और नम्बर डाल कर ढाक में डलवाया था।

—श्री० नन्दकिशोर तिवारी एम० ए०, एल० टी० हैडमास्टर
हरपतराय हाई स्कूल, देवबन्द।

७६—असहयोग आन्दोलन के दिन थे। मैंने उन्हें एक साधारण पत्र लिखा। भूल से मैं अपना नाम लिखना भूल गया। चार पांच दिन पीछे उनका एक पत्र मेरे पास आया और मुझे उन्होंने पत्र पर नाम लिखने की सख्त ताकीद की। मैं अपने पुराने घनिष्ठ सम्बन्ध को देखते हुए और पत्र के राजनैतिक न होने के कारण उन से कुछ खिच गया। मालूम होता है कि वे छोटी छोटी बातों में भी बहुत चौकस, सावधान रहते थे।

स्व० ला० रतन लाल जैन, सोनीपत

७७—एक बार मैं बाबू ज्योतिप्रसाद और कुछ मित्र देहली में फ़तहपुरी बाज़ार से गुज़र रहे थे। वहाँ हर समय बहुत से समाचार पत्र विक्रेता खड़े रहते हैं। पत्र बेचने वाले आपस में कुछ बातें कर रहे थे, परन्तु हम में से शायद बाबू ज्योतिप्रसाद के सिवाय और किसी ने उनकी बात न सुनी। आपने ऋत दो पैसे देकर हिंदी दैनिक खरीद लिया। आगे चलकर आपने हम सब को हिंदी समाचार पत्र खरीदते रहने का आग्रह किया और कहा कि वे पत्र विक्रेता हिंदी पत्रों की विक्री की कमी के कारण भविष्य में हिंदी पत्र न मंगवाने की बात चीत कर रहे थे।

७८—ज्योतिप्रसाद जी ने अपने लेखों, उपदेशों और कविताओं द्वारा समाज का बहुत बड़ा उपकार किया है। आप एक सच्चे और सरगर्म कार्यकर्ता थे। आपकी आयु का बड़ा भाग समाज सेवा में ही गुज़रा।

ला० नाहरसिंह रईस, स० जैन प्रचारक, सरसावा।

७९—स्वर्गीय बाबू ज्योतिप्रसाद में बहुत खूबियाँ थीं।.....
जैनेन्द्र गुरुकुल को आपसे बहुत सहारा था।

रा० सा० श्री० रामलाल कीमती, हैद्राबाद [दकन]

८०—आप मुझसे सदा कौली भर कर मिलते थे।

परिचित कैलाशचन्द्र शास्त्री, बनारस।



उनके कुछ पत्र



साधारण रूप से दैनिक काम-काज के सम्बन्ध में जो पत्र लिखे जाते हैं, वे पत्र लिखने और पाने वाले के सम्बन्ध तथा जीवन पर तो प्रकाश डालते ही हैं, पर वे समाज और देश की बहुत सी सामयिक बातों तथा प्रश्नों पर भी बहुत प्रकाश डालते हैं। पत्र बड़े प्राकृतिक और सच्चे होते हैं, क्योंकि ये छपने के भाव से नहीं लिखे जाते। इस लिये इतिहास और विशेष कर जीवन चरित्रों के लिखने में इनसे बड़ी सहायता मिलती है और यही इनका महत्व है। पश्चिमी देशों में बड़े आदमियों के पुराने पत्र बड़े उपयोगी, मूल्यवान और महत्वपूर्ण समझ कर इकट्ठे किए जाते हैं और पुस्तकाकार में छापे जाते हैं। हमारे देश में और विशेष कर जैन समाज में साहित्य के इस अंग की सर्वथा उपेक्षा हो रही है।

बाबू ज्योति प्रसाद जी बड़े पत्र लिखते थे। पर शोक है कि मुझे उनके कुछ भी पत्र प्राप्त न हुए। शायद किसी ने उन्हें अपने पास रक्खा भी न हो, पढ़ कर फाड़ दिया हो। मेरे पास सब

१९२० से अन्तिम समय तक उनके बहुत से पत्र आये थे। पहिले मुझे अपने पत्रों को इकट्ठा करने का बहुत शौक था। सोनीपत में मुझे उनके बहुत से पत्र मिल गए। उनमें से कुछ उपयोगी पत्रों की नकल यहाँ दी जाती है। आशा है कि इनके अध्ययन से पाठकों को बाबू ज्योति प्रसाद के कुछ विचार मालूम होंगे और समाज की दशा पर प्रकाश पड़ेगा।

उनके सब पत्र उर्दू में हैं, इसलिये यहाँ उनको हिन्दी लिपि में दिया जाता है। कहीं २ ि.सी शब्द का अनुवाद कर दिया है।
 नम्बर ८३८१ प्रेमभवन, देवबन्द।

१

ॐ

१८ - ६ - २१

प्रियवर,

जय सर्वज्ञ देव की ! पत्र मिला.....

बड़े गांव की बावत ज़रा विस्तार से लिखियेगा और निम्न-लिखित बातों पर प्रकाश डालियेगा:—

(१) साधु अनन्तकीर्ति कैसा आदमी है ? कोई नीतिज्ञ है या ऊंगा ?

(२) पानी जिसकी चारों तरफ दुहाई मची हुई है, क्या विशेषता रखता है ?

(३) केशलोच जिसकी धूम मचाई गई थी, वह नुमाइश कैसे रही ?

(३) इस कद्र लोगों ने आकर क्या लाभ उठाया ?

(५) जो मूर्ति निकली है, उसमें कोई ख़ास बात है क्या ?

(६) आपने खास तौर से क्या आनन्द उठाया ?
उत्तर शीघ्र दो । योग्य सेवा ।

सेवक
ज्योति प्रसाद

२

जैन समाज में नाटकों का रिवाज बढ़ रहा था । छोटे-छोटे बच्चों को ज्ञाने हाव-भाव और नाचना सिखाया जा रहा था । इनका प्रबन्ध प्रायः अच्छे चरित्र के आदर्शियों के हाथों में न हाता था । देख-भाल पूरी न थी । सोनीपत जैन समाज भी नाटक खेलने में किसी से पीछे न थी । मुझ जैसे कुछ नवयुवकों ने नाटक बन्द करने का आन्दोलन उठाया था जिससे हमें पंचायती दमन का सामना करना पड़ा था । बाबू ज्योति प्रसाद जी ने उस समय जैन प्रदीप के द्वारा हमारी काफी सहायता की थी । उसी सम्बन्ध में आपका यह पत्र देखिये :—

नं० ८५३९

प्रेम-भवन, देवबन्द ।

ॐ

२३ - ७ - २१

प्रियवर,

जय सर्वज्ञ देव की ! पत्र मिला । धन्यवाद ।

वैशानव समाज में नाटक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । वहां राम लीला, कृष्ण लीला और रास लीला अर्से से होती आ रही हैं । जैन समाज ने यह सबक उन्हीं लोगों से सीखा है । वहां विरोध ज्यादा काम नहीं कर सकेगा । जैनियों में नया

रिवाज है, यहाँ विरोध काम करसकेगा। मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन बिदू' कारण से तबीयत नहीं चाहती।

योग्य सेवा !

सेवक

ज्योति प्रसाद

३

ॐ

न० ९०५६

प्रेम भवन, देवबन्द ।

२१-११-२१

प्रियवर,

जय सर्वज्ञदेव की। पत्र मिला। मैंने जब से सोनीपत छोड़ा है तब से बीमारी के चुंगल में फँसा रहा। पहिले म्वयं बीमार रहा, फिर छोटे भाई दर्द गुर्दा में फँसे रहे, उसके बाद माता जी और भाई की लड़की। मैं केवल दां रोज के लिए हस्तिनापुर गया था। जो कुछ वहाँ हुआ वह बयान से बाहर है। दुराचार को अत्याचार से दबाया गया है। जैन प्रदीप कालेज के ही पते से रवाना कर दिया जायगा। आगे जैन प्रदीप मासिक निकलेगा या क्या या उसका वजूद (अस्तित्व) रहेगा या नहीं, यह दो चार रोज में तय होजायगा। योग्यसेवा

सेवक

ज्योतिप्रसाद जैन

४

ॐ

नम्बर ९५८३

प्रेम भवन देवबन्द

२१-३-२२

प्रियवर, बाबू भाईदयाल जी,

जय सर्वज्ञ देव की । कृपा पत्र मिला । 'भीरा बाई' नाम का लेख भी मिल गया । × × × प्रदीप आपके पास बराबर पहुँचता रहेगा । मुझे जलसे मे शामिल न होने का अत्यन्त खेद है । × × मैं शायद कल शाम को ७वजे की ट्रेन से आऊँ । और एक दिन ठैर करके वापिस हो जाऊँ । यथासंभव मिलने की कोशिश करूँगा । दिल चाहता है, कि एक व्याख्यान कालेज के जैन नौजवानों के रोधरू जरूर करूँ । लेकिन देखिए कब वक्त मिलता है । आप जो लेख दिल चाहे लिखिये । जरूर जगह मिलेगी । अब तो जैन प्रदीप पन्द्रहवें रोज का कर दिया गया है । जलसे के हालात जो आपने लिखे, वह मालूम किए । बहतर है । कुछ तो काम हुआ । योग्य सेवा ।

ज्योतिप्रसाद जैन

(५)

जैन समाज में दस्ता भाइयों को पूजन अधिकार दिलवाने का प्रश्न पुराना प्रश्न है । खातौली का वह मुकद्दमा, जिसमें स्थाडाद वारिधि स्वर्गीय पं० गोपालदास जी वरैया ने जैन शास्त्रों से दस्तों के पूजन अधिकार को प्रमाणित किया था, जैन समाज के इतिहास में एक अमर घटना रहेगी । इसी समय प्रसिद्ध समालो-

चक्र प० जुगल किशोर जी मुख्तार सरसाबा ने अपनी खोजपूर्ण पुस्तिका "जिनपूजाधिकार मीमांसा" लिखी थी। विद्वान और उदारचित्त जैनी दस्सा भाइयों को देव पूजन अधिकार देने को तय्यार थे, परन्तु पुराने विचार के आदमी और मन्दिरों के प्रबंधक इसका विरोध कर रहे थे। सोनीपत जैन समाज में भी यह प्रश्न उठा और वहाँ खूब आन्दोलन हुआ। उसकी कुछ भलक आपको पत्र नम्बर ११८०३, ११९१९ तथा १२०२५ से मिलेगी। बाबू ज्योतिप्रसाद जी ने इस आन्दोलन में सोनीपत के दस्सों और उनके साथियों की काफ़ी सहायता की थी, जब कि दिगम्बर जैन महासभा के सन् १९२३ के देहली वाले अधिवेशन के समय दस्सा भाइयों को पूजन अधिकार दिलाने वाला मेरा प्रस्ताव विषय निर्धारण समिति (Subjects committee) में ठुकरा दिया गया था। अब प्रायः हर स्थान पर दस्सों भाई जिन पूजन कर सकते हैं। पर सोनीपत में इन्हें वह अधिकार तब मिला, जब कि वहाँ देहली स्थानक वासी जैन समाज ने स्थानक स्थापित कर दिया और उनको स्थानकवासी बना लिया।

६

ॐ

न० ११८०३

प्रेम भवन, देवबन्द।

२-६-२३

धर्म बन्धु बाबू माईदयाल साहब,

जय सर्वज्ञदेव की। पत्र का जवाब कुछ देरी से दे रहा हूँ। क्षमा करें। 'चाणक्य नीति' अच्छी पुस्तक है। मेरी राय में उसका

हू बहुत अनुवाद करना तो फ़जूल है। हाँ, बाज्र बाज्र श्लोक का भाव लेकर स्वतंत्र लेख लिख जाइये। लेख संक्षिप्त हो, लेकिन हों गूढ़ रहस्य से भरे हुए। आर्यंदा जैसी राय हो। मैं इसी विचार में हूँ कि एक बार देहली होते हुए सोनीपत आऊँ और आप लोगों से मिलूँ। आज देहली की खबर है कि वहाँ के एक जैन मन्दिर में दस्तों ने पूजन किया है। आप के यहाँ क्या हो रहा है। लाला सुदर्शन लाल (मेरठ) की आमद ने क्या सहारा लगाया ? ऊँट किस करबट बैठने वाला है ? क्या दस्ता भाई बहुत जल्द स्थानकवासी होने वाले हैं, जैसा कि स्थानकपंथी समाचार पत्रों से मालूम हो रहा है ? परसों जो जैन प्रदीप जारी हुआ है, उसमें लाला श्यामसुन्दर लाल मेरठ की रिपोर्ट निकाली है। मैंने एक नोट भी दिया है। और लेख भी निकल रहे हैं। क्या इनका कुछ प्रभाव हो रहा है ? या यूँही, एक कान सुनकर दूसरे कान निकाली जा रही हैं ? लेख लिखियेगा, लेकिन संक्षिप्त, बहुत लम्बे चौड़े नहीं।

सेवक

ज्योतिप्रसाद

६

ॐ

न० ११६१६

प्रेम भवन, देव वन्द ।

२६-६-२३

प्रियवर बाबू माईदयाल साहब,

जय सर्वज्ञ देव की । कृपा पत्र मिला । आप फर्स्ट डिबीजन

(प्रथम श्रेणी) में पास हुए यह खुशी की बात है । मालूम नहीं करनाल के कैलाशचन्द्र, पानीपत के जैनदास, हांसी के वृत्तमचन्द्र का नतीजा क्या रहा ? अगर कुछ मालूम हो तो लिख दें । जिस सभा (दस्सा स्वत्व रक्षिणी सभा, सोनीपत) के संगठन का आप विचार करते हैं, वह विचार शुभ है । मेम्बर बनाइयेगा जब संगठन हढ़ होजायगा, तब सब ही काम बनजायेंगे । अभी तो जरूरत संगठन की है । विचार निहायत अच्छा है । मुबारक हो ।

अगर क्रौम के अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आपको जरूर काम-यावी होगी । मैं हर तरह से सेवा के लिए तय्यार हूँ ।.....

नए समाचार लिखें ।

सेवक

ज्योतिप्रसाद

७

३३

न० १२०२५

प्रम भवन, देवबन्द

२४-१-२३

प्रियवर,

जय सर्वज्ञ देव की । (दस्सा स्वत्व रक्षिणी सभा का) विज्ञापन मिला । छपने भेज दिया है । अगर जरूरत हो, तो आनरेरी मेम्बर मुझे भी बना लेना । वरना खैर। ÷ ÷ ÷ ×

सेवक

ज्योतिप्रसाद

(१) इससे नवयुवकों की पढ़ाई परीक्षा आदि में उनकी दिल-चस्पी प्रकट होती है लेखक ।

८

ॐ

न० १२५१०

देवबन्द

२६-१०-२३

प्रियवर, वाबू माईदयाल,

जय सर्वज्ञ देव की । पत्र मिला ।

संगठन का इन्तजाम कौन करे ? अब तो इसका दारमदार नौजवानों पर ही है । लेखजल्द भेजियेगा । देहली अभी तो नहीं आऊंगा । हा, जब आऊंगा, तब मिलूंगा जरूर ।

सेवक

ज्योति प्रसाद जैन

९

ॐ

न० १५४५६

प्रेम भवन, देवबन्द

२६-३-२५

प्रियवर,

जय सर्वज्ञ देव की । × × × आपका किताब (जैन समाज दर्शन) लिखने का विचार निहायत उमदा (श्रेष्ठ) है । जरूर लिखियेगा । जो सेवा मैं कर सकूंगा, जरूर करूंगा । बाद इन्तिहान (परीक्षा) आप देवबन्द तशरीफ लार्वे और तमाम पुराने समाचार पत्रों को देखें । फायल बा जाब्ता तो नहीं है, लेकिन वैसे मौजूद बहुत पर्चे हैं । आपका इरादा इन्तिहान के बाद काम करने का है, इसके लिये बघाई । अब तो आप लोगों ही पर काम की

टेक है । हमने तो जो हमारा काम था, पूरा तो नहीं, लेकिन किसी कद्र कर दिया ।

ज्योति प्रसाद जैन

१०

लेख न मिलने पर उल्हाना देखिये ।

ॐ

न० १७८२

प्रेम भवन, देवबन्द ।

२८-१-२६

प्रियवर,

जय सर्वज्ञ देव की । जैन प्रदीप को तो विलकुल ही भुला दिया । क्या कलमी सहायता न देने की क्रसम ही खा बैठे हो । अब तो उम्मीद यह थी, कि जैन प्रदीप में एक और बी० ए० साहव का नाम चमकता हुआ नजर आगया, लेकिन आप हो बैठे स्वामोश । न जाने क्यों ?

अब जैन प्रदीप माहवारी हो गया है । पृष्ठ हो गये पूरे ५२ । लेख जियादा चाहियेगा । और जरा कलम को सम्भालियेगा । यूं काम नहीं चलेगा । जवाब इनायत हो ।

ज्योतिप्रसाद

११

प्रेस की कठिनाई का हाल देखिये ।

ॐ

न० १७१३१

प्रेम भवन, देवबन्द ।

७-२-२६

प्रियवर,

जय सर्वज्ञ देव की । लेख मिला । धन्यवाद । प्रदीप में छपेगा । लेख का सिलसिला शुरू कर दीजिये । जियादा खरूरत है । जनवरी का परचा आजकल में जारी होने वाला है । दूसरे प्रेस का इन्तजाम किया है । आगे सुभीता हो जायगा । अभी फरवरी का परचा भी बेरी से निकलेगा । क्या किया जाय ? पराये बस की बात है ।

ज्योतिप्रसाद जैन

१२

जाति प्रबोधक का सम्पादक बनने पर मुझे प्रोत्साहन ।

ॐ

न० १९६४६

प्रेम भवन, देवबन्द ।

२३-४-२७

प्रियवर बाबू माईदयालसाहब,

जय सर्वज्ञ देव की । कृपा पत्र मिला । जो कुछ आपको (अस्व-स्थाता के बारे में) मालूम हुआ है ठीक है । तबीयत अभी तक साफ नहीं हुई । इसी वजह से (जैन मित्र मण्डल के वीर जयन्ती उत्सव) जलसे पर देहली नहीं आ सका, यद्यपि बहुत कुछ उमंग

थी। जाति प्रबोधक का नम्बर कल मुझे मिला है। आपके साहस को आफरी। मैं यथासम्भव जरूर सेवा करूंगा। मेरे यहां १७ मई को भानजी की शादी है। उसके बाद फुरसत होने पर जरूर लेख दूंगा। भावना है, कि इस महान कार्य में सफलता प्राप्त हो। योग्य सेवा।

ज्योतिप्रसाद

१३

आप मित्रों के दुख दर्द में किस तरह तय्यार रहते थे, यह गुप्त ढंग देखिये।

४३

नं० २००२३

प्रेम भवन देवबन्द

६-८-२७

प्रियवर,

जय सर्वज्ञदेव की। भाई को क्या तकलीफ है? अगर कुछ सहायता की जरूरत हो, तो मैं...तय्यार हूँ। जितनी मेरी शक्ति है। यह वाक्य प्राइवेट है। लेख जरूर भेजियेगा। आज जुलाई का परचा देरी से जारी हुआ है। इसको मिस्टर चन्दूलाल ने एडिट किया है। मजमून मेरे पास रवाना कर दें या नजफगढ़ मिस्टर चन्दू लाल अखतर को.....। भाई के बारे में खुलासा तहरीर फरमावें

ज्योतिप्रसाद जैन

१४

ॐ

नं० २१५८

प्रेम भवन, देवबन्द ।

प्रियवर,

२३-१-२८

जय सर्वज्ञ देव की । कृपा पत्र मिला । आपका लेख फरवरी के नम्बर में तमाम निकाल दिया जायगा । विधवा विवाह का लेख जैन प्रदीप में प्रकाशित न करूंगा । इसके लिये अभी मुआफ़ी चाहता हूँ । मेरी राय में तो आप भी इस मजमून (विषय) पर कलम उठाने के अधिकारी नहीं हैं ।

सौर कर लीजिएगा । ज्यादा क्या अर्ज करूँ । योग्य सेवा ।

ज्योतिप्रसाद जैन

१५

आप मुझे निराश होते हुये देखकर हिम्मत बढ़ाते रहते थे । आपके इस पत्र को पढ़िये । यह समय मेरे जीवन मे अत्यन्त निराशा का समय था । सामाजिक कामों से मैं अलग हो चुका था ।

नं० २२११८

प्रेम भवन, देवबन्द ।

श्रीमान भाई साहब,

२१-७-२८

जय जिनेन्द्र देव की । कृपा पत्र मिला । हालात मालूम हुए । निराश होना सही है । लेकिन भाई हिम्मत भी कोई चीज़ है । जो कुछ बन पड़े वह किए जाइए । आखिर हद हर एक बात की होती है । आपको ट्रेनिङ्ग कालेज जरूर जाना चाहिये । स्कूल लाइन में इसकी बड़ी सख्त जरूरत है ।

ज्योतिप्रसाद जैन

१६

जाति प्रबोधक के मान हानि के मुकदमे के वास्ते खर्च की मुझे जरूरत थी। प्रकारक श्रीयुत फूलचन्द लेखकों के नाम कोर्ट को बताकर त्रिःकुज अलग हो गया उसकी वचानी सहायुभूति से क्या काम चल सकता था उस समय बाबू ज्योतिप्रसाद ने जो सम्मति दी, वह फलदायक हुई। आपकी सम्मति यह थी:—

नं० २३१५५

ॐ

प्रेमभवन, देववन्द।

प्रियवर,

१-१२-२८

जय जिनेन्द्र देवकी। कृपा पत्र मिला। लेख के बारे में खयाल नहीं पड़ता, कि वह कौन सा था। परचे इधर उधर रक्खे हुए हैं। दीवाली के बाद जब से सफ़ेदी हुई है, तब से काराजात ठीक करके रखने का मौका नहीं मिला। क्या आप उस लेख की नकल मुझे रवाना फ़रमा सकते हैं? या वह कौन सा लेख था? (मुकदमे के) खर्च के लिए रुपये की जरूरत पड़ेगी और आपने लाला जौदरीमल को लिखा है, बहतर है। आप प्रेमी जी (पं० नाथूराम प्रेमी, बम्बई) को जरूर लिखियेगा। ऐसे मुआमलात में कर्ज लेकर खर्च करना मुनासिब नहीं है। जातिप्रबोधक की सहायता में से ही खर्च होना चाहिये। ब्रह्मचारी जी (ब्र० शीतल प्रसाद जी) को भी लिखियेगा। ताकि वे सहायता करयें। बाकी खैरियत। मेरी तथीयत कल से बहुत खराब है। योग्य सेवा।

ज्योतिप्रसाद जैन

ऊपर के सब पत्रों को पढ़ने से पाठकों को समाज की स्थिति सामयिक अवस्था और बाबू ज्योतिप्रसाद के चरित्र के बारे में कुछ ज्ञान होजायगा।

ज्योति वाक्यामृत

बाबू ज्योतिप्रसाद के समाचारपत्रों की फायलों तथा पुस्तकों को पढ़ते समय कुछ ऐसे वाक्यों को मैंने लिख लिया था, जो कि स्थायी रूप से उपदेश के लिए काम में लाये जा सकते हैं। इन पर विचार, मनन और व्यवहार करने से आदमी का चरित्र अवश्य ऊँचा उठ सकता है और उसे सुख तथा शांति प्राप्त हो सकती है:—

१—सुख इच्छा क नाश हो जाने का नाम है। जबतक इच्छा लगी हुई है, तब तक हरगिज़ सुख नहीं हो सकता। जिस आदमी की जिस कद्र इच्छा कम होगई है, वह उसी कद्र सुखी होगा। इस लिए दुनियादार (संसारी आदमी) को, जो सुख शांति का जिज्ञासु है, लाजिम है कि अपनी इच्छाओं को दूर करके सब—संतोष—करे। वस यह सुख शांति की कुञ्जी है।

२—कर्तव्य पालन करो, उद्देश्य स्वयमेव पूरा हो जायगा।

३—दुनिया का हर एक काम हर एक प्रकार के ऊँचे तथा छोटे लोगों के शामिल होने से चलता है। जब तक सब तरह के आदमी परस्पर सहायता न करें, तब तक अकेला आदमी कोई काम पूरा नहीं कर सकता। छोटे से लगाकर बड़े काम तक निगाह दौड़ाइएगा, कि वह भी बिना दूसरों की सहायता के नहीं हो सकता।

४—मां बाप का कर्तव्य है, कि अपनी प्यारी सन्तान को ब्रह्म-

चर्य आश्रम में ब्रह्मचारी रखकर शिक्षा दिलावे और उनको काबिल संतान बनावें, ताकि आगे नसल चलती रहे। बरना याद रहे, कि इस कमजोरी का यह नतीजा निकलेगा, कि आगे संतान पैदा होनी बंद हो जायगी और दुनिया से नाम निशान मिट जायगा।

५—सतसंगत तलाश करो। सत संग अखित्यार करो। स्वयं सत संगी बनो। अन्य यार दोस्तो को सत संगी बनाओ। संसार मे एक सत सग ही आत्मा का कल्याण कर सकता है।

६—जिस हृदय में दूसरे के दर्द का दर्द न हो जाय, वह हृदय नहीं है, बल्कि माँस का लोथड़ा है। हृदय उसको ही कहा जायगा, जिस हृदय मे दूसरे के दर्द का दर्द इस क्रूर उठ जाय कि हृदय को बेचैन कर द।

७—जिस कद्र रुपया आप मन्दिरों की चहार दीवारी रंगने में खर्च कर रहे हैं, या सोने चाँदी के रथ, हाथी, घोड़े बनाने में लगा रहे हैं, अगर इस कद्र रुपया ज्ञान के प्रचार में लगाओ, तो निस्सन्देह दुनिया भर का कल्याण हो जाय और श्री महावीर स्वामी का उपदेश हरा-भरा हो जाय।

८—धन्य है वह आदमी जिसका जीवन उन्नति के ख्याल में गुजरे।

९—सदा फले फूलेगा वह आदमी, जो कि दूसरों को फलता फूलता देखकर खुश होता है।

१०—कर्तव्य को पूरा न करने से हृदय चोर की तरह काँपता रहता है। इसलिए अपना कर्तव्य पालन करो।

११—आदमी होना और बात है, और बनना और बात है।

आदमी बनने के लिए एक मन्त्र काफी है, और वह केवल इन्सानी कर्ज मानव-कर्तव्य को पूरा करना है।

१२—दुबल मनुष्य ही मृत्यु से डरते हैं। जिनकी आत्मा बलवान है, जो आत्मा को अजर अमर मानते हैं, जो वस्तु के असती स्वभाव को जानते हैं, वे मृत्यु से कभी नहीं डरते, वे मृत्यु को खुशी के साथ गले लगाने को तय्यार रहते हैं। उनको मृत्यु की गोद माता की गोद से कम माखम नहीं होती।

१३—लूट की माया से परहेज करो। इस स्याही के धब्बे से अपने आपको बचाओ। सच्चे साधन से, ईमानदारी से और सच्चाई से माया को पकड़ो।

१४—जिस आदमी के सीने में हृदय होगा, वह नेकी का बदला नेकी से देगा।

१५—हमारे कामों के अन्दर अगर कोई गलती या कमी रह गई होगी, तो उसको सिधाय नुकता चीनी करने वालों—समालोचकों—के और कौन बतलायगा। इस लिए वे प्रशंसा के योग्य हैं, और उपकारी हैं।

१६—आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर नाश होने वाला है। तमाम धन दौलत आदि सामान भी नाश होने वाले हैं। इन का प्राप्त होना न होना एक ही बराबर है। पुण्य के प्रभाव से ये सब सामान मिल जाते हैं, और पाप के उदय से नष्ट हो जाते हैं। फिर दुख किसका माना जाय ? जिसका संयोग है, उसका वियोग जरूर है। जो पैदा हुआ है, वह जरूर ही मरेगा। फिर फिर कैसा और डर क्यों ? इस तरह के विचार से इस भव का डर शीघ्र ही दूर हो जाता है।

✓ १५—आरिभक्त कल्याण के इच्छुको ! अपनी आत्मा की भलाई के लिए जो चाहो सो करो, लेकिन करो सच्चाई के साथ । अपनी आत्मा को मत ठगो । अपने देवता को भ्रम में मत डालो, दुनिया को धोखा मत दो और अपनी पूजा और भक्ति को अपने आरिभक्त कल्याण का रास्ता बनाओ ।

✓ १८—अब देखना यह है, कि मैं हूँ कौन ? मैं आत्मा हूँ । पाक हूँ, रवित्र हूँ, चेतन हूँ, देखने जानने वाला हूँ, ज्ञान का खजाना हूँ, शक्ति का भण्डार हूँ, सुखों का केन्द्र हूँ और शांति का पुञ्ज हूँ । गर्ज मैं हूँ और सब कुछ हूँ ।

✓ १६—न मैं कभी पैदा हुआ हूँ, और न कभी मरा; न मुझ में जवानी है और न बुढ़ापा; न मैं छोटा हूँ, न बड़ा; न मैं गोरा हूँ, न काला; न मैं सुन्दर हूँ, न असुन्दर; न मैं ब्राह्मण हूँ न क्षत्री; न मैं हिंदू हूँ, न मुसलमान; न मैं स्त्री हूँ, न मैं मर्द; न मैं इन्सान हूँ, न मैं पशु; न मैं फरिश्ता हूँ, न शैतान, गर्ज, सब पूछो तो इनमे से मैं कोई भी नहीं हूँ । लेकिन जिस्म की बजह से मैं सब कुछ हूँ ।

२०—कमजोर आत्माये ही विषय-भोगों में आनन्द मनाती हैं । लेकिन बलवान आत्माय -विषय-भोगों से जरा भी अपना मन (जो मुमेरु को तरह अचल है) चलायमान नहीं होने देती ।

✓ २१—उपदेश का प्रभाव उस ही समय पड़ता है कि जब समय अनुकूल होता है, अन्यथा अशुभ का उदय होते हुए बहुत सी औषधिये और उपदेश रक्खे ही रह जाते हैं ।

✓ २२—आदत का बनाना मनुष्य के अपने हाथों में है । जिस काम को मनुष्य हमेशा करता रहता है, वह आगे चल कर आदत बन जाता है ।

१७

लेखांश



✓ किसी लेखक के हृदय के भावों को जानने का साधन उसके लेख ही होते हैं। यहाँ जैन कवि ज्योतिप्रसाद के समाचार पत्रों तथा पुस्तकों में से कुछ उपयोगी अंश एकत्रित कर दिए हैं, ताकि पाठक जैन कवि के विचारों का ज्ञान प्राप्त कर सकें और समाज उन से आज भी लाभ उठा सके। आज भी इनकी उपयोगिता उतनी है, जितनी कि इन के लिखने के समय थी। इन लेखों से जहाँ जैन कवि के हृदय की पीड़ा प्रकट होती है, वहाँ समाज की दशा और कुछ आन्दोलनों का भी पता लगेगा। विस्तार भय से बहुत थोड़े लेखांश ही चुने गये हैं।

✓ (अ) जैन लोगों का जैन धर्म पर पैतृक अधिकार।

... सच्चे जैनी लोगो ! ज़रा पक्ष से अलग होकर न्याय से तो कहो, कि क्या जैन धर्म पर अन्य लोगों का उतना हक-अधिकार--नहीं है. कि जितना तुम्हारा है ? क्या यह धर्म तनाम जीवों के कल्याण करने के लिए नहीं है ? क्या यह निर्वाण दीप यानी चिरागे नजात महज-तुम्हारे ही लिए है ?

प्यारे धर्मज्ञ लोगो ! अगर तुम ज़रा भी ग़ौर करोगे, तो तुम को साफ़ मालूम होजायगा, कि यह धर्म केवल हमारा ही नहीं है।

बल्कि प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है। अगर सच पूछो, तो तख्ते ज़मीन पर एक यही धर्म है, जिसके कारण बिला रोक टोक किसी जाति के रंग या और किसी भेद के इसका मानने वाला निर्वाण हासिल कर सकता है। यह इसी धर्म के मानने वालों को गर्व है, कि अगर इसका सच्चा श्रद्धालु शूद्र जाति क्या बल्कि चाण्डाल भी हो, तो भी पूजने लायक है, और वह ऊँच कौम (जाति) के मिथ्याती लोगों से हजार दर्जे क्या बल्कि इससे भी ज़्यादा बहतर है। और अगर कोई इसके मानने वालों में (जैतियों में) श्रद्धालु से गिरा हुआ मिथ्याती पैदा हो जाय तो वह शूद्र क्या बल्कि चाण्डाल से भी कम दर्जे पर है।

गर्ज जैन धर्म किसी भ्रास सम्प्रदाय या जमाअत का पैतृक या खानदानी धर्म नहीं है, जैसा कि आज कल वैश्य लोगों ने समझ लिया है।

जैन प्रचारक वर्ष ३, अंक ८

(आ) हिंदू मातायें।

कौन कहता है, कि हिंदू धर्म की टेक हिंदू माताओं पर नहीं है? क्या कोई कह सकता है कि दुख क समय हिंदू मातायें अपने धर्म से गिर जाती हैं? जहाँ तक देखा गया है, विचार किया गया है, हिंदू मातायें कभी किसी समय भी अपने धर्म से गिर जाने का तैयार नहीं होती। वह खाने की तंगी सहती हैं, वह फटे पुराने वस्त्र से शरीर ढाँप लेती हैं, वह गरमी सरदी की अनेक बाधाएँ सह लेती हैं, लेकिन क्या मजाल जो अपने धर्म से गिर जाने का ख्याल भी चित्त में आने दें। यदि सच पूछो तो भारत में

जो हिंदू धर्म की चमक है, वह हिंदू माताओं के ही कारण है। यह अवश्य हो गया है, कि इस समय अविद्या के कारण हिंदू माताओं में कुछ २ बुरे विचार उत्पन्न हो गए हैं। वह गाली गाली हैं, वह गली बाजारा में मुंह खोले फिरती हैं, वह मेजों ठेलों में ठठोलियों करती घूमती हैं, वह पीर पूजती हैं, पशुओं का बध कराती हैं, वह गहने कपड़े के लिए कलह करती हैं इत्यादि।

परन्तु जो शुद्ध हृदय से विचार किया जाय, तो उनका जरा भी दोष नहीं है, क्योंकि पुरुषों ने स्त्रियों को पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, धर्म शिक्षा नहीं दी, धर्म का रूप नहीं बतलाया प्राचीन हिंदू माताओं के चरित्र नहीं सुनाये। अगर किया तो बस यह अन्याय किया, कि उनके सामने रंडियां नचाईं, स्वाँग खेलें, मेजों में फिरने की आज्ञा देदी, गाली का गाना सुनकर खुरा हुए अर्थात् वह वह कार्य किए, जिनसे कि स्त्रियों को बुरे विचारों में पड़ने का सुभीता प्राप्त हो।

जैन नारी हितकारी, प्रथम वर्ष, अंक ४५

(इ) समाचार पत्रों का महत्त्व

जिस कौम और जिस देश ने उन्नति की है, वह अधिकतया अखबारों के द्वारा ही की है। यूरोप अमेरिका और जापान आदि देश जो आज उन्नति के शिखर पर चढ़े हुए नज़र आते हैं, वे सब अखबारों का ही प्रताप हैं। अखबारों ही के द्वारा उन देशों के बच्चों तक में भी जाति और राष्ट्र की उन्नति का जोश भर गया है। वहां के मजदूर, गाड़ीवान और छोटी से छोटी स्थिति के लोगों को भी बिला अखबार पढ़े खाना अच्छा नहीं लगता।

अगर एक सड़क साफ करने वाले का एक हाथ भाड़ से खाली नहीं है, तो दूसरा हाथ अखबार से खाली न मिलेगा। फिर भला वे लोग उन्नति न करें तो क्या करें ?

जैन प्रदीप व०१, अ०१, पृ०१

(ई) जाति भेद को मिटा दो।

जब से बम्बई के जलसे में बाबू अजितप्रसाद जी एम० ए० गर्वनमेंट प्लीडर, लखनउ, ने बहैसियत सभापति जातिबन्धन तोड़ने और वर्ण व्यवस्था कायम रखने के बारे में अपनी कीमती सम्मति प्रकट की थी, तब से हम भी देख रहे थे, कि हमारी काबिलए रहम जाति इस प्रश्न पर कहां तक विचार करती है ? और क्या क्या विचार करती है ? इस बीच के समय में जो नतीजा निकला है, वह यह है, कि पुगने रुगलात के पुराने आदमी तो लकीर के फकीर ही रहना पसन्द करते हैं। इसलिए उनको तो जाति बन्धन के जाल में जकड़ा रहना ही मंजूर है, यद्यपि वे यह भी जानते हैं, कि श्री भगवान ने वर्ण ही कायम किए थे, जाति भेद समय समय पर होते चले गये हैं, जिनके उत्पन्न होने का बड़ा भारी कारण सिद्धाय अज्ञान और मान कषाय के कोई नहीं है। लेकिन फिर भी यह पसन्द नहीं करते, कि एक वैश्य वर्ण का अग्रवाल दूसरे वैश्यवर्ण के खण्डेलवाल से बेटी व्यवहार कर सके। अग्रवाल उस जाति का नाम है, कि जिसका विकास अग्रोहा से हुआ और खण्डेल वाल जाति वह है, कि जिसका निकस खण्डेला गांव से हुआ। अगर न्याय दृष्टि से देखा जाय तो अग्रवाल जाति है, फिर इसका अग्रवालों के अन्दर

ही अन्दर नातारिशाता करना और दूसरी वैश्यजातियों से घृणा या किनारा करना कहाँ तक उचित है और जेबा है ? कि हमारे ख्याल में शास्त्रों के मुताबिक जब वर्ण भेद को ही मानना काफी हो सकता है, तो फिर यह जाति बन्धन कायम रख कर क्यों और किस लिए अवनति के गढ़े में पड़ा रहना पसन्द किया जाता है ?

मित्रो ! अंधविश्वास का समय निकल गया । अज्ञान का अंधकार दूर होगया । और ध्यान से देखिएगा कि इस जाति बन्धन के कारण हमें किस क्रूर हानि उठानी पड़ रही है ।

व०१, अ०१४, पृ०२२

(उ) दान परिपाटी को ठीक करो ।

आजकल जैनियों के दान की परिपाटी बड़ी खराब हो रही है । यद्यपि इनके शास्त्र पुकार पुकार कर विद्यादान, आहारदान, आर्षाधिदान और अभय दान देने का उपदेश कर रहे हैं, लेकिन खेद है, कि ये अपने अज्ञान की वजह से इस तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं करते और बल्कि शास्त्र विरुद्ध दान देते हैं । हमारे ख्याल में इस समय विद्यादान की बहुत बड़ी सख्त जरूरत है । विद्यादान करने के लिए इस समय जैनियों में बड़ी गुंजायश है ।

व० १, अं० १५, पृ० २०

(ऊ) वीर बन कर कुरीतियों को दूर करो ।

जैन समाज में बहुत सी कुरीतियां जारी हैं, जिनका दूर होना बड़ा जरूरी है । लेकिन वे बिना बहादुर और दिलावर आदमियों के कदापि दूर नहीं हो सकती । इस वजह से धर्मात्मा भाइयों

और प्रदोष के पढ़ने वालों से हमारी प्रार्थना है, कि वे हिम्मत करें और बहादुर बनें। इस बात का जरा भी खयाल न करें, हमारा साथ और भी कोई देगा या नहीं। बस बहादुर बनकर जो जो कुरीतियाँ मालूम हों और नुसखान देने वाली समझी जाण और धर्म के विरुद्ध हों उनको बहुत जल्द निकाल दें। अगर ऐसे काम में हिम्मत करते हुए अन्य भोले और नादान भाई उनसे द्वेष करें और हानि पहुंचाने के लिए तय्यार हो जायें, तो उसको महन करते हुए भी अपना काम करें। ऐसा करने से कुछ ही समय में आप देखोगे, कि जैन समाज में कुरीतियों और संसार की व्यथे बातों का निशान तक न पाएगा और सब तरह से धर्म का ही चमत्कार नजर आने लगेगा।

वं० २, अंक ५, पृ० ११

(अ) स्त्री शिक्षा की आवश्यकता।

स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, और यह बात साफ़ तौर से नजर आरही है। आज हम लोगों के घर जो नर्क के बरबर नजर आरहे हैं, उनमें खास कारण स्त्रियों में शिक्षा का न होना ही है। जिन घरों में स्त्रियां शिक्षिता हैं, वे अब भी स्वर्ग के समान नजर आरहे हैं। धन्य हैं वे शहर वे समाज और वे लोग, कि जो लड़कों की तरह से लड़कियों के लिए भी शिक्षा का दरवाजा खोले हुए हैं या खोल रहे हैं। जैनसमाज में भी अब लड़कियों को शिक्षा देने का रिवाज चल निकला है, जो हमारे सौभाग्य का कारण है। लेकिन अफसोस कि अब तक ऐसी पुस्तकें बहुत कम देखने में आई हैं कि जो लड़कियों को पढ़ाने

के काम में लाई जाएं। यह कमी बहुत अधिक अनुभव हो रही है। विश्वास है कि यह कमी कोई जैन विद्वान दूर करेगे और यह भी विश्वास है कि जहाँ पर लड़कियों की पाठशालायें नहीं हैं वहाँ के भाई इस तरफ ध्यान देकर काफी प्रबंध करेगे।

व० ५, अंक १, २, पृ० १६

(अ) क्या जैन समाज धनी है ?

इस बात का दावा बड़े गर्व के साथ किया जाता है कि जैन कौम बड़ी दौलतमन्द है। सम्भव है कि यह दावा किसी जमाने में ठीक हो, लेकिन मौजूदा जमाने में इसके अन्दर ज़रा भी सचाई नहीं है। क्या हुआ जो इस मान्य समाज के अन्दर इने गिने लोग मालदार नज़र आही गए। उनकी मालदारी के कारण कुछ कौम का मालदार होना असम्भव है। पिछले दिनों श्वेताम्बर समाज के साधु मुनि मानक जी देहली से अजमेर तक पैदल ही गये थे। आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, कि देहली से अजमेर तक बहुत से गांव ऐसे आए हैं, कि जिनमें जैनियों के घर मौजूद हैं, लेकिन इन में सहस्रों जैनी इतने गरीब हैं, कि उनको एक वक्त रोटी भी मुश्किल से मिलती है। इसके अतिरिक्त हमको अपना स्वयं का अनुभव है, कि जैनी लोगों की माली हालत बहुत गिर गई है। सैकड़ों गरीब भाईयों से हम खुद मिले हैं, कि जो अपनी तंगदस्ती की शिकायत ऐसे बर्द भरे शब्दों में करते हैं, कि जिसको सुनकर दिल पर बड़ी भारी चोट लगती है और हम अपने धनी होने का दावा गन्त ख्याल करते हैं। हमको ऐसी हालत देखकर बहुत अफ़सोस होता है, कि कहां तो समाज के

धनी होने का दावा और कहाँ यह निर्धनता की हालत। ऐसी हालत में समाज क्या खाक उन्नति कर सकती है और क्या खाक धर्म साधन कर सकती है? जब कि निर्धन लोगों को पेट की आग बुझाने का भी फिकर नहीं छोड़ता तब भला वे क्या खाक काम कर सकते हैं। अमीर लोग पहिले तो इस समाज में न होने के ही बराबर हैं और अगर कुछ हैं भी, तो उनको सिवाय खाने-पीने और मौज उड़ाने के दूसरी बात का खयाल तक ही नहीं है। वे गरीब भाइयों की तरफ जरा भी आंख उठा कर नहीं देखते, उनको भूखे मरते भाइयों का जरा भी खयाल नहीं है। यद्यपि ऐसे अमीर लोगों का लाखों रुपया विवाह शादियों में खर्च होता है, रण्डियों के नाच नचाए जाते हैं, नककालों की नकलें कराई जाती हैं, काराज की बारा बहारी लुटाई जाती है, लक्ष्मी देवी भर २ हाथ बुरी तरह सं बखेरी जाती है। और इस ही प्रकार के सैकड़ों खर्च किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मेलो ठेलों में, पूजा प्रतिष्ठाओं में भी लाखों रुपये हर साल लगाए जाते हैं। लेकिन इस क्रूर धन लुटाते हुए भी गरीब भाइयों के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं दा जाती। गरीब भाई बेरोजगार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। क्या मजाल जो कोई अमीर आदमी उनको सहायता देकर आजीविका पर लगा दे। गरीब घर के लड़के शिक्षा प्राप्त करने के लिये रोते फिरते हैं। लेकिन कोई भी धनी कहलाने वाला जैनी उनकी इस पुकार को नहीं सुनता। कितनी ही गरीब स्त्रियां तंगदस्ती के कारण भूखी नंगी दूटी फूटी चहारदीवारियों के मंतर बुरे हालाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई भी भाई का लाल उनको इस तंगदस्ती को दूर करने

के लिए तय्यार नहीं है। बस कहना पड़ता है, कि ऐसी हालत में जैन समाज का दौलतमन्द धनी-होने के दावा और गर्व गलत है। हमारा अपना खयाल है कि जब तक समाज रूपयों को उचित-रूप से खर्च करना नहीं सीखेगा, जब तक फिजूल खर्चों से मुंह नहीं मोड़ेगी और बिना जरूरत मेंलों ठेलों के लगाने से परहेज नहीं करेगी, तब तक इसका दौलतमन्द होना कठिन ही नहीं, बरन असम्भव है। और इस समाज की उन्नति होना उतना ही कठिन है, कि जितना बिनइजन के गाड़ियों का एक कदम चलना।

(लृ) जैन मन्दिरों की रचना ।

... .. जिन लोगों को वैराग्य की शिक्षा प्राप्त करने शौक है, जो वैराग्य की शिक्षा को अपनी आत्मा के कल्याण का साधन समझते हैं, वे किसी ऐसे विद्यालय का सहारा तलाश करते हैं कि जहां पर उद्देश्य पूरा हो सके और वैराग्य की शिक्षा पूरी हो जाय। यही कारण है कि जैनी लोग अपनी आत्मा के कल्याण करने के वास्ते एक वैराग्यमयी, शांत स्वरूपी आनन्द दायक और ध्यानावस्था की मूर्ति का सहारा लेते हैं। यह वीतराग मूर्ति इनके हृदयों में वैराग्य की शिक्षा जमा देने का एक खास साधन है और इस साधन से उद्देश्य पूर्ति आसानी के साथ हो सकती है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, कि वैराग्य की शिक्षा के लिए जैनियों के वर्तमान मन्दिर कहाँ तक सहायक बन सकते हैं। आया मौजूदा जमाने ये उद्देश्यपूर्ति हो सकती है। या नहीं। कहने और लिखने की तो बहुत गुंजाइश है, लेकिन हम देखते हैं कि आज कल धनी आदमी अपना शौक पूरा करने की पर्ख

से जैन मन्दिरों में सोने चाँदी की लिपाई कराते हैं। उनकी दीवारों पर रंगा रंग की नक्काशी कराते हैं, जर दोजी परदे चन्दोए लट काते हैं। सोने चाँदी की छड़ें खड़ी करते हैं, जड़ाऊ काम के चंवर छत्र लगाते है। गज्जे उस वैराग्य के कालिज को नक्काशों और बादशाहों के रागु भरे महल से किसी कद्रव्यादा ही बनादते हैं। अब वह वैराग्य की शिक्षा का इच्छुक जब मन्दिरों के अन्दर जाता है, तो वहाँ की शाही रचना को देख देखकर चका चौध हो जाता है, राग भरे कारणों में उलझ कर वैराग्य के पाठ को भूल जाता है, सोने चाँदी के समान मे फंस जाता है, जरदोजी परदों मे जा गिरता है, रंग र की नक्काशी देखने म समय खो देता है और जिस काम के लिए गया था, उसको बिलकुल भूल जाता है। यदि यही उद्देश्य है कि वैराग्य की शिक्षा प्राप्त करें, परिणामों में शांति पैदा करें और पाप की प्रकृति का नाश करें, तो कहना पड़ेगा कि एसी हालत में जैन मन्दिरों के अन्दर सोने चाँदी की पुताई की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि एक साफ और अच्छे मकान मे एक बहुत बड़ी विशाल मूर्तिहोनी चाहिये, जिसके दर्शन से वैराग्य की शिक्षा प्राप्त हो। परिणामों मे शांति पैदा हो। हमारे उद्देश्य की पूर्ति का अगर कोई साधन है तो ज्ञान और वैराग्य है, न कि सोने चाँदी के चंवर छत्र आदि।

... .. अगर इस कद्र रुपया ज्ञान के प्रचार में लगाओ, तो निस्सन्देह दुनिया भर का कल्याण हो जाय और महावीर स्वामी का उपदेश हरा भरा हो जाय। उनकी पवित्र वाणी पुकार

पुकार कर कह रही है, कि दुनिया के हर एक जीव तक मेरे उपदेश पहुँचे ।

व० ४ अंक १८

(लू) स्त्रियों को पूजन अधिकार है ।

स्त्री पर्याय का धारी जीव पूजन कर सकता है । हम नहीं जानते कि हमारे भाइयों ने पूजन करने को क्या हाऊ (भय दायक वस्तु) बना रक्खा है । अरे भाइयों ! साफ और शुद्ध द्रव्य को भाव और विनयपूर्वक श्रीभगवान की वीतराग प्रतिमा के आगे चढ़ाने का नाम ही पूजा है, या और कुछ ? अगर इस ही का नाम पूजा है, तो यह हर एक शहर में, गांव में यानी जहाँ पर भी जैन मन्दिर मौजूद हैं, सब औरत मर्द पूजन करते हैं और प्रति दिन करते हैं । और याद आपने मन्दिर जी में रक्खे धोती रुपट्टा पहिन कर पूजन करना समझ रक्खा हो, और उस धोती रुपट्टे ही की बजह से मना करते हो तो दूसरी बात है । यह आपका धोती रुपट्टा विश्वव्यापी नहीं है, यानी भारत वर्ष भर के जैनियों को मान्य नहीं है । यह अपने रीति रिवाज की बात है । शास्त्रों में किसी जगह पर यह लिखा नहीं देखा गया कि अमुक राजा ने या धर्मात्मा ने मन्दिर जी में आकर कपड़े बदले और सामाधी धोई, तब भगवान की पूजा की । बल्कि यह बहुत जगह लिखा है, कि साफ और शुद्ध द्रव्य बनाकर मन्दिर जी लाए और पूजा की । जिससे प्रमाणित होता है कि अपने घर पर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहिन कर के ओर पवित्र द्रव्य लेकर मन्दिर जी में अमुक भगवान का पूजन करना चाहिये । लेकिन

आजकल स्नान तो घर पर कर लेते हैं मगर कपड़े मन्दिर में जाकर बदलते हैं, जिससे मालूम होता है कि हमारे घरों की क्रियाएं भृष्ट हो गई हैं, जो कपड़े अपने शुद्ध भी नहीं रहते कि जो भगवान का पूजन भी कर सकें । इस लिए मन्दिर में कपड़े रखन का रिवाज ढालना पड़ा ।

खैर, कुछ हो । परन्तु स्त्रियों को पूजन करने का अधिकार है और बहुत सी जगहों पर करती हैं । हाँ, निस्सन्देह न्हवन यानी प्रतिमा का प्रक्षालन वह नहीं कर सकतीं । इसके लिए देखो "जिन पूजाधिकार मीमांसा" रचयिता पं० जुगल किशोर जी मुख्तार टंवेबन्द ।

व० २, अंक २३, पृ० १५

(ए) स्त्रियों की दशा ।

इसमें सन्देह नहीं कि आज कल स्त्री समाज की बहुत बुरी दशा है । स्वार्थी पुरुषों ने इस को बुरी तरह से पैरों के तले कुचल रखा है । इसको चार दीवारी के अंदर इस प्रकार कैद किया है, कि आनन्ददायक वायु के भोंकों से यह समाज काली कोसों दूर पड़ा है । स्त्री का नाम घृणा की दृष्टि से देखा जाता है । इससे कौन इन्कार कर सकता है कि जिस घर में लड़की पैदा होती है, प्रसन्नता के स्थान पर अप्रसन्नता छा जाती है ? पुरस्कार आदि जो लड़के के होने में बाँटे जाते हैं, उनके बजाय यहाँ चेहरे अप्रसन्न नम्बर आया करते हैं । इसका यही कारण है, कि स्त्री समाज की कुछ भी कद्र पुरुषों की दृष्टि में नहीं है ।

व० ५, अंक १७, २८ ।

(ऐ) समाज सुधार या राजनैतिक काम ।

मैं पौलिटिकल—राजनैतिक—जीवन को दिल—ओ-जान से पसन्द करता हूँ, लेकिन मेरा खयाल विद्यार्थी काल से कुछ ऐसा रहा है, कि 'घर में दिया जलाकर मन्दिर में फिर जलाना' । यानी पहिले अपने को किसी काबिल बनाया जाय, अपनी समाज की गिरी पड़ी हालत को ठीक किया जाय और फिर राजनैतिक क्षेत्र में आया जाय और कामयाबी (सफलता) प्राप्त की जाय । सफलता की कुँजी अपने को काबिल बनाना है, लेकिन जबतक अपने को काबिल न बना लिया जाय, समाज का सुधार ठीक न कर लिया जाय और राजनैतिक उद्देश्य को न समझ लिया जाय, तब तक राजनैतिक मैदान में कदम रखना कहां तक ठीक है, यह आगे चलकर जमाना स्वयं ही बतायेगा ।

जैन प्रदीप व०८ (सन् १९२१) अंक ३, पृ० १४

(ओ) सन्तान निग्रह ।

एक बाग़ का हुशियार और अनुभवी माली जहां बाग़ की परवारिश और उन्नति के लिए यत्न करता है, वहाँ यह भी ज़रूर करता है, कि जो पौधे कमज़ोर या एक क्यारी में ज़ियादती के साथ पैदा हो जाते हैं, उन सब को काट कर फेंक देता है । और जिन पौधों या दरख्तों में कमज़ोर और घनी शाखें फूट पड़ती हैं, उन सब को छाँट डालता है ।

एक हुशियार माली उतना ही बाग़ लगाता है, जितना कि वह परवारिश कर सके । और तब ही वह सफल होता है । अगर वह आदमी ताक़त से ज़ियादा काम करता है, तो कहा जायगा,

कि वह अपनी कीमती ताकत का व्यर्थ इस्तेमाल करता है। लेकिन उससे नफा कुछ नहीं होता, बल्कि खुद मुसीबत में पड़ता है।

इसी तरह से जो देश या समाज इन्सानी पैदावार में होशियारी और अनुभवंत से काम लेता है, वह फूलता है, फलता है और जिन्दा रहता है। दूर क्यो जाते हो। अपने ही समाज को देखो। जिम समाज में बूढ़े, बच्चे, जाहिल, आलसी, रोगी, शांगी, दरिद्री, सड़ियल, मरियल, कम उम्र, कमजोर, राज सुबही उत्पत्ति के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं और घड़ाघड़ा ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं, कि जो अपने अस्तित्व को भी कायम नहीं कर सकते, तो भला वह समाज किस तरह जिन्दा रह सकती है ?

हम देखते हैं, कि इस देश के भिक मंग तक आलाद पैदा करने में लगे हुए हैं, जो स्वयं अपना गुजारा दरदर के दुकड़ों से कर रहे हैं।

इस तरह से कमजोर संतान की बदौलत समाज को रज और नुकसान दोनों सहन करने पड़ रहे हैं। इसलिए अब जरूरत मालूम होता है कि क्या न ऐसे तरीके इस्तिहार किए जायें, कि जिनसे समाज का अस्तित्व कायम रह सके।

हमारी राय में इसके लिए ना काबिल सन्तान की पैदायश का करिया बन्द कर देना बहुत लाभ दायक हो सकता है।

(औ) दश लाक्षणी पर्व में हमको क्या करना चाहिये ?

ये दस दिन आपके हर तरह से धर्म ध्यान में ही व्यतीत होंगे और आप लोग धर्म के हर एक काम को शक्ति से बढ़कर ही करेंगे। प्रातःकाल पूजन करोगे, तब आप कीमती सामग्री से करोगे; शास्त्र पढ़ोगे, तब हमेशा की निस्वत कुछ जियादा देर तक पढ़ोगे; व्रत आदि करोगे, तब महान मुशकिल करोगे, दान दोगे, तब दिल खोल कर दोगे; गाना बजाना करोगे, तब बड़ी शान के साथ कराओगे; और जो उत्सव आदि का ठाठ रचोगे, तो वह भी बड़ी भारी खूबसूरती और लागत के साथ रचोगे। गर्ज, धर्म के नाम से जो काम भी आप करोगे, वह हर तरह से दिल-चस्पी को ही लेकर करोगे। जिन मन्दिरों में साल के ३६० दिनों तक पूजन न होता हो, शास्त्र न पढ़ा जाता हो, झाड़ देकर कूड़ा करकट भी साफ न किया जाता हो, लेकिन इन दिनों में उन मन्दिरों के भी भाग खुलजाते हैं। ·····

लेकिन गौर करने से यही मालूम होता है, कि आज कल यह महान पर्व भी अन्य तीज त्योहारों की तरह से एक त्योहार बन गया है। ·····

✓ व्रत करो और खूब करो। लेकिन करो विधि के साथ। केवल भूखे मरने का नाम व्रत नहीं है। और न भूखा मरना किसी बुद्धिमत्ता में दाखिल है। श्री समन्त भद्र आचार्य ने रत्न करण्ड भावकाचार में लिखा है, कि व्रत के दिनों में पांच पापों का त्याग करो। ·····

✓ प्रभावना करो, और सच्ची प्रभावना करो। उनके लिए कान

रोकता है ? बाज़ार के बीच को काठ के हाथी धाड़े निकालना, या बाजों गार्जों का बजवाना, या गाने नाचने के अखाड़े जोड़ना, या चांदी सोने के चंवर छत्र आदि दिखलाना कोई प्रभावना । नहीं है । इसका नाम तो अपनी अमीरी या पानी दिखलाना है । सच्ची प्रभावना तो आपका असली जीवन है ।

गर्ज, जो भी करो, सब सच्चाई और वास्तविकता को लेकर करो । बनावटी बातों में या पोच बातों में, या लोग दिखलावे की कारवाही में न धर्म है और न हो सकता है । धर्म तो वास्तविकता में है । और धर्म की वास्तविकता तब आयगी कि जब आप उसकी इच्छा करेंगे । लेकिन यह याद रहे, कि जब तक वास्तविकता को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक धर्म से कोसों दूर पड़े रहोगे और दस लक्षण धर्म जैसे पवित्र पर्व से कुछ भी फायदा न उठा सकोगे । इसके अतिरिक्त एक काम निहायत जरूरी और भी है, और वह है सामाजिक रस्मों-रिवाज का सुधार । अगर कुछ हो सके तो इन पवित्र दिनों में अपनी समाज की गिरी पड़ी हालत का विचार करके इन मौजूदा रीति रिवाजका सुधार करते हुए समाज को फिजूल खर्ची के जबरदस्त चूंगल से निकाल दो । यह भी एक धर्म का महान कारज है ।

च० ६, अ० क २१, पृ० १



(अ) इन्द्रियों की दासता

इन्द्रियों के दाम्त्व और विषदों के अधिपत्व ने मनुष्य मात्र को ऐसा स्वार्थी बना दिया है, कि यह दूसरों के अधिकारों को पद-दलित करते हुए अपने ही स्वार्थ-साधन में आधु पर्यन्त लगा रहता है। चाहे दूसरों का जीवन भ्रष्ट हो जाय या किसी को सत्ता नष्ट हो जाय, परन्तु इनके स्वार्थ-साधन में किसी प्रकार की भी बाधा न पड़े। बस यही इनके जीवन का मुख्योद्देश्य बना हुआ है।

काया पलट पृ० १

(आ) चौधरियों की करतूत !

क्या कहें कुड़्र कहे से बनता नहीं। इन चौधरी चुकड़ावतों ने बिरादरी का त्रिक्कुल सत्यानाश कर रक्खा है। इन्हीं लोगों के हाथों में बिरादरी की बागडोर है। वह जिस तरफ का चाहे मोड़ दें। और बिरादरी को वह भेड़ा चाल है; कि जो कहीं नहीं जाती। कोई भी आदमी यह नहीं देखता, कि आगे हुआ है या खाई, गिरेंगे या मरेगे। बस एक के पीछे एक जाता है। और अरर धम करके गिर जाता है। फिर पता तक नहीं लगता कि क्या हुआ और कहाँ गया। इन चौधरियों ने ही तो हम लोगों को बन्दर की तरह से नचा रक्खा है। सब पुञ्जिये तो ये लोग बड़ी ही नीच प्रकृति के आदमी हैं। इनको बेशर्मी, बेहबाबी, बेरहमी,

और खुद गरजी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। हजार कसमें खालें हजार नेम उठालें, परन्तु करेंगे वही जो मन में समाई हो। इन लोगों को तो खाने के लिये मिठाई और जेब के लिये टके चाहिये। और जो चाहे सो करालो। भूठ बुलवाओ, सुरामद करालो, लड़वालो, भगड़वालो, और चाहे जिसका बुरा करालो। ये लोग धर्म अधर्म की जरा भी पर्वाह नहीं करते और बेघड़क होकर सब कुछ कर बैठते हैं।

कायापलट, पृ० १३

(क) विरादरी का कसूर।

पर कसूर विरादरी का भी है। वह क्यों लड्डू कचौरियों के लोभ में आकर ऐसे विवाहों में शरीक होती है? वह क्यों ऐसे चौधरियों को फटकार नहीं देती? जो हमारा बुरा चाहे वही हमारा दुश्मन फिर दुश्मन को क्यों दोस्त बनावे? वह तो अस्तीन के सांप की तरह जब दांव पायगा तब ही डस लेगा। भाई साहिब, विरादरी को ऐसे लोगों से बचना चाहिये और इनको घृणा की दृष्टि से देखना चाहिये। इन लोगों ने विरादरी की दुर्दशा बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आज जो समाज के अन्दर बाल-विधवाएँ दीख रही हैं, यह सब इन्हीं चौधरी लोगों की करतूत है। परन्तु ऐसे जालिमों के पंजे में पड़े रहना और "सी" तक न करना, यह तो समाज की ही खूता है। यदि समाज

चाहे, तो सब कुछ प्रबन्ध हो सकता है और बहुत ही शीघ्र हो सकता है।

कायापालट पृ० १४

(ख) मनुष्य के परिणाम।

संसारि जीवों के परिणाम सर्वथा भिन्न-भिन्न हैं। किसी के परिणाम शुभ रूप हैं, और किसी के अशुभ रूप हैं और किसी २ के इन दोनों से भिन्न अर्थात् वीतराग रूप हैं। शुभ परिणामों से पुण्य का बन्ध होकर सुख मिलता है। अशुभ परिणामों से पाप का बन्ध होकर दुःख प्राप्त होता है। और वीतराग भावों से पुण्य, पाप दोनों का ही बन्धन होकर जीव सर्वथा निर्बन्ध दशा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात् सोने और लोहे की बेड़ी से मुक्त हो निजनान्द रूप (अमर पद) को पा लेता है।

कायापालट, पृ० ३३

(ग) किसानों की दुर्दशा।

हमारे देश की आमदनी सिर्फ जमीन की पैदावार के आश्रित है और यह पैदावार होती है किसान लोगों के द्वारा। परन्तु आपने यह भी देखा होगा कि जो किसान लोग देश की आमदनी के दायें हाथ हैं उनकी दशा बहुत ही हीन है। वे पेट भर रोटी भी नहीं खा पाते। उनके सिवाय जुलाहे, लुहार, बदर्ई, चमार, रंगसाज अर्थात् सब ही रोटी से तंग नजर आते हैं वही

कारण है कि हमारे देश में भिख मंगों की संख्या आधे करोड़ से भी कुछ अधिक कही जाती है।

कायापलट, पृ० ८७

(घ) दान की दूषित परिपाटी।

दान की परिपाटी के सुधार करने की आवश्यकता है। हिन्दु समाज का करोड़ों रुपया वार्षिक दान के नाम से व्यय होता है और वह सब व्यर्थ हो जाता है तीर्थ स्थानों में पण्डे, पुरोहित, सन्त, महन्त, भट्टारक नाम मात्र के साथ सब उड़ा जाते हैं। दान का दुरुपयोग यदि कोई देखना चाहता है, तो हरिद्वार जैसे तीर्थों पर देख सकते हैं।

जिस प्रकार दान के महत्व को हिन्दु समाज ने गिरा दिया है, ठीक उसी तरह से मेरी जैन समाज ने भी दान की परिपाटी का परिवर्तन कर डाला है। जैन शास्त्रों में दान की व्याख्या भले प्रकार की गई है। और इसको खूब ही महत्व दिया गया है। परन्तु अब तो जैन समाज में भी लकड़ी के रंगीन हाथी घोड़े बनवाना मन्दिरों में सोने के बेल बूटे कराना, पूजा प्रतिष्ठा रचाना। जैन नाटक खेलना, विवाहों में बखेर करना, मरने में नुकता करना और खेल तमाशों में चन्दा देना ही दान समझा जाने लगा है। जिसके कारण धार्मिक और सामाजिक कार्यों में एक प्रकार से झुटिये नजर आने लगी है। देश के दीन दरिद्री पुरुषों की और गरीब किसानों की बहुत बुरी अवस्था है, परन्तु इसके लिये पैसा कहाँ जब दूसरे अनावश्यक कार्यों से पैसा बच जाय। तब सच

दान में लग सकता है। इमलिये मैं भी दान की प्रथा के सुधार को आवश्यक समझता हूँ।

कायपलट, पृ० ९०

(ड) परावलम्बन और स्वावलम्बन।

किसी भी देश के मनुष्य जब दूसरों के हाथ में अपने जीवन की बागडोर देकर आप सर्वथा निश्चिन्त होकर बैठ जाते हैं। तब वे दासत्व की जंजीरों में जकड़े जाकर नाना प्रकार के संकट भोगते हैं, और इनके आलस, निरुद्यम, दुःखः, चिन्ता, रोग, शोक, भय, विघ्न, दरिद्र और निर्धनता आदि मित्र बन जाते हैं। ऐसे पराश्रित पुरुष दूसरों के द्वारा पद दलित होते हुए और अपने अमूल्य जीवन को पालित पशुओं की भांति व्यतीत करते हुए काल के विकराल गाल में जा पड़ते हैं, परन्तु जिस देश या समाज के मनुष्य स्वयं अपने घुटनों के बल खड़े होकर अपनी भुजाओं के बल से काम लेते हैं वे संसार में स्वतन्त्रता-पूर्वक सुख शान्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और अन्त समय में आनन्द के साथ हंसते खेलते मृत्यु की सुखमई गोद में जा बिराजते हैं।

कायापलट, पृ० १९८

(च) स्त्रियों की जिम्मेदारी।

स्त्रियों की जिम्मेदारी घर गृहस्थी के कार्यों में पुरुषों से कहीं बढ़कर है। जहाँ पुरुषों का कर्तव्य अपने व्यापार धन्धे का प्रबंध

करते हुये द्रव्योपार्जन करना है, वहां स्त्रियों का कर्तव्य उस धन का सदुपयोग करना और घर की बात बनाये रखना है। इसीसे कहा जाता है कि जैसे तालाब की शोभा कमल पुष्पों से है, तैसे ही घर की शोभा सदगृहणी से है। सदगृहणी अपने सुप्रबंध से घर को स्वर्ग के समान सुन्दर बना देती है। उसके घर में स्वर्ग जैसा आनन्द प्राप्त होता है और फूहड़ स्त्री अपने कुप्रबंध से घर को नर्क से भी अधिक क्लेश देने वाला बना देती हैं। इसी लिये व्याही बहू का प्रारम्भ से ही सदगृहणी बनने का उद्योग करना चाहिये। इसी में उसका अपना हित है और इसी से दोनों कुलों की मर्यादा सुरक्षित रह सकती है।

गृहस्थ शिक्षा, १०६

१८—कविताएँ

१—जैन भण्डा गायन ।

ऊंचा भण्डा जिन शासन का, धर्म अहिंसा दिग्दर्शन का ॥
गङ्गा का ज्यों निर्मल जल है, कांति शशि की ज्यों निर्मल है ।
त्यों यह भण्डा परम धबल है, मैल हरे सब ही के मन का ॥

ऊंचा भण्डा जिन शासन का ० ॥१॥

प्रेम से पूरित इसके घागे, वात्सल्य के रस में पागे ।
इसे देख कायरता भागे, मन्त्र पढ़ावे निर्भयपन का ॥

ऊंचा भण्डा जिन शासन का ॥२॥

हिय ^{मः} उल्लास उत्साह बढ़ावे, कर्मवीर बनना सिखलावे ।
सेवा भाव का पाठ पढ़ावे, पथ परदर्शक यह चोरन का ॥

ऊंचा भण्डा जिन शासन का ॥३॥

सब से ऊंचे पर फहरावे, करुणा रस का स्रोत बहावे ।
शिवमन्दिर का मार्ग दिखावे, कारण है यह अघनाशन का ॥

ऊंचा भण्डा जिन शासन का ॥४॥

* शुभ लेश्या का पाठ पढ़ाता, धर्म ध्यान का ध्यान दिलाता ।
रत्नत्रयनिधि का है दाता, और विधाता शुभ भावन का ॥

ऊंचा भण्डा जिन शासन का ॥५॥

जैन मात्र का है यह प्यारा, या से सब मिल वचन उचारा ।
ऊंचा भण्डा रहे हमारा, यह सद्भाव सभी के मन का ॥

ऊंचा भण्डा जिन शासन का ॥६॥

फर फर झण्डा फहराता है, शान्ति विश्व में फैलाता है ।
धर्म अहिंसा दर्शाता है, परम हितैषी जग जीवन का ॥

ऊँचा झण्डा जिन शासन का ॥७॥

या झण्डे नीचे तुम आओ, प्रेम सहित औरों को लाओ ।
सबमिल 'ज्योति' भावना भावो, हाँ कल्याण सभी जग जन का ॥
ऊँचा झण्डा जिन शासन का, धर्म अहिंसा दिग्दर्शन का ॥८

२-नित्य प्रार्थना

हे ! गुण आगर करुणा सागर, ज्ञान उजागर दयानिधान ।
हाथ जोड़ हम शोश नमावें, तब गुण गावें हे भगवान ,
करें प्रार्थना शुद्ध हृदय से, सुनियेगा भगवन्त पुकार ॥
पढ़ें हुए हम दुख सागर में, पकड़ हाथ लो बेग उवार ॥

(२)

फैल रहा अज्ञान अन्धेरा, नहीं हिताहित सूफे ईश ।
ज्ञान सूर्य का करो उजाला, हित मग सूफ जाय जगदीश ॥
भरो हमार हृदय आत्मबल, शक्तवन्त हा हम भगवान ।
कर्मवीर बन जाय, हमारा हा जीवन आदर्श महान ॥

(२)

सब जीवों पर रहे मैत्री, भाव न मन मे आवे द्वेष ।
गुणी जनों को देख, मुदित मन हाय, घृणा नहिं व्यापे लेश ॥
दीन दुखी जीवों पर करुणा, भाव हमारा रहे सदाव ।
ममता भाव गहे हम उन पर, वैर विराध धरं जा जीव ॥

(४)

नहीं सतावे किसी जीव को, पहुंचावें सबको सुख चैन ।
प्राण जाय तो जाँय भले ही, कभी न बोले भूठे वैन

पर धन सम्पत्ति रज सम जानें, करें नहीं चोरी का ध्यान ।
गहें शील व्रत पर बनिता को, समझें माता भग्नि समान ॥

(५)

सगल सुखद शुभ रूप बनावे, जीवन इच्छा भाव घटाय ।
पीवें तोष मुधाकर हम सब, मन से तृष्णा भाव नसाय ॥
क्रोध करें नहि किसी बात पर, उर मे धरें क्षमा सुखवान ।
मान करें नहि किसी वस्तु का, विनयवान हम हों भगवान ॥

(६)

माया चारी भाव विकारी, दुखकारी दे तिन को त्याग ।
'लोभ पाप का बाप' न जावे पास, न गावें उसके राग ॥
बने तपस्वी तपे तपस्या, स्वाधे त्याग की कठिन महान ।
नहीं मृत्यु तक यं भय खावें, ऐसे निर्भय हों बलवान ॥

(७)

शूत व्यसन, मद, मॉस मधू का, त्याग करें नहि गहे कदा ।
सब जीवों का हित निशदिन हो, तन मन धन से चाहे सदा ।
भारत वर्ष हमारा पालक, हम उसकी प्यारी सम्तान ।
समय पड़े पर देश भक्ति हित, प्राणों तक का दें बलिदान ॥

(८)

तन पर पहिनें वस्त्र स्वदेशी, शुद्ध करे हम भोजन पान ।
सदाचार का पाठ पढ़ें नित, राम, कृष्ण बुध धीर समान ॥

ऋषूज्य देवियाँ इस पद को ऐसे पढ़ें । "गहें शील व्रत पर
भरता को, समझें माता भग्नि समान ।"

धर्म हमारा जी से प्यारा, तन, मन, धन से करे प्रचार ।
प्राण जाँय पर धर्म न जाये, धर्म करे आतम उद्धार ॥

(६)

करें जाति की सेवा हिल मिल, सेवक बन स्वार्थ परिहार ।
जो जो फैली बुरी रूढ़ियें. उन सब का हम करें सुधार ॥
बाल अनाथ निराश्रय देवी, दीन दुःखी रोगी नर नार ।
तिनकी सेवा करें हरे दुःख, ऊँच नीच का भेद निवार ॥

(१०)

प्रमामृत पीकर हे ! भगवन, बने सभी प्रेमी संसार ।
घर घर बाजे बजें प्रेम के, "प्रेम प्रेम" की हो झनकार ॥
यही भावना निशदिन अरुणी, यही प्रार्थना बारम्बार ।
जग हृदय मे "ज्योति" ज्ञान की, हो जग जीवो का उपकार ॥

शुभम्

३—सृष्टि कर्तृत्व मीमांसा

(१)

कर्तावादी कहैं जीव का कर्ता हता परमेश्वर ।
 सृष्टि को रच जीव बनाये इसमें सन्देह पड़े नजर ॥
 अगर रची सृष्टि ईश्वरने फिर क्यों अन्तर दिया है डाल ।
 एक सुखी एक दुःखी बनाया एक धनी निर्धन कंगाल ॥
 ऊंच नीच क्यों पुरुष बनाये एक दयालु एक चण्डाल ।
 सब जीवों पर सम दृष्टी क्यों रही न इसका कहिये हाल ॥
 अगर कहो अपने भक्तों को वह रखता हरदम खुशहाल ।
 करे बुराई जो ईश्वर की उसे देत दुःख अति विकराल ॥
 तो खुशामदी हुआ ईश, है बड़ा दोष यह करिये ख्याल ।
 अगर कहो अनुसार कर्म के देता है सुख दुःख धन माल ॥
 तब तो यह बताओ जीव के संग कर्म लगे क्योंकर ।
 सृष्टि को रच जीव बनाये इसमें सन्देह पड़े नजर ॥

(२)

जब ईश्वर ने प्रथम जीव को पैदा किया जगत् के माँह ।
 उस दम कर्म जीव के संग में लगे हुंवे थे याकि नांह ॥
 अगर कहोगे कर्म संग थे यह तो बात हुई बे राह ।
 किये कर्म बिन कर्म कहाँ से लगे जीव क्यों हुआ तवाह ॥

अगर कहोगे कर्म नहीं थे संग जीव के जन्मत वार ।
 फिर वह आये कर्म कहां से इसका बतलाओ बिस्तार ॥
 किये कर्म क्यों पैदा ईश ने करे जीव को जो लाचार ।
 कोप जीव पर किया ईश ने क्यों दुख सुख यह दीन्हा डार ।
 झूठ बात यह हुई सरासर मनमें समझो जरा चतुर ॥ सृ०

(३)

अगर कर्म अनुसार दण्ड दे रचता जीव बीच संसार ।
 पैदा करी दण्ड दे गणिका जो नित करै भोग व्यभिचार ॥
 खुश दिया यह दण्ड ईश ने भ्रष्ट करे जगमें नर नार ।
 अगर कहो स्वाधीनपने से करती है गणिका यह कार ॥
 है पूर्ण सर्वज्ञ ईश तो तीन काल की जाने बात ।
 तब क्यों रखी देह गणिका की जब उसको था इतना ज्ञात ॥
 हो करके स्वाधीन यह गणिका भ्रष्टाचार करे जगबीच ।
 तब तो दोष हुआ ईश्वर को किया जान यह कर्तव्य नीच ॥
 ईश्वर के सर्वज्ञपने में लगे दोष अब सुनो जिकर । सृ०

(४)

दुष्ट लोग जीवों को मार बेरहमी से हरते प्राण ।
 किये ईश ने क्यों वह पैदा जब उसको था इतना ज्ञान ॥
 अगर कहोगे घाती द्वारा दण्ड लहैं हैं जीव अजान ।
 आज्ञा से ईश्वर की अपने कर्तव्य का फल भोगें आन ॥
 जब घातक ने ईश्वर की आज्ञा से कीना जीव संहार ।

फिर क्यों उनको दोष लगावें पापी दुष्ट कहे संसार ॥
 जैसे किसी धनी घर चोरी करी चोर धन लिया अपार ।
 धनी पुरुष के कम योग से करवाई चोरी कर्तार ॥
 । दंड मिला निर्दोष चोर को था ईश्वर का दोष मगर । सू०

(५)

अगर कहोगे घाती नरका है अपराध बात लो मान ।
 फिर क्यों पैदा किये ईश ने पापी जन चण्डाल महान् ॥
 अगर जान कर इन्हें बनाये तब ईश्वर चण्डाल समान ।
 अगर किये बिन जाने पैदा तब तो है मूरख नादान ॥
 हुआ नष्ट सर्वज्ञपना अब रक्षकपन पर करिये गौर ।
 जब करता है जग की रक्षा तब क्यों कीन्हे ठग अरु चोर ॥
 अगर कहोगे खानपान का यही किया चोरों के तौर ।
 फिर क्यों पहरेदार बनाये फिरें जगाते कर कर शोर ॥
 तब तो दगाबाज है ईश्वर जब करता यह कपट मकर । सू०

(६)

अरु यह भी कहते हो ईश्वर सबके घट मे रहा है व्याप ।
 जब ईश्वर घटघट का वासी फिर तो आप करे पुण्यपाप ॥
 आपहि ईश्वर पाप करे है जग जीवों को दे सन्ताप ।
 वह अन्याय है प्रगट नीति से इसको तो मानोगे आप ॥
 और दूसरे जब घटघट में ईश्वर का प्रकाश निवास ।
 फिर स्वाधीन जीव है कैम हरदम रहे ईश जब पास ॥

सब अरु झूठ कपट छल जग में पाप पुण्य जितने व्योहार ।
सभी करता है परमेश्वर जीव करै होकर लाचार ॥
करै ईश अरु भरै जीव दुःख यह ईश्वर में बड़ी कसर । सृ०

(७)

घटघट व्यापी जब परमेश्वर तब मेरे घटवास जरूर ।
मगर ईश के कर्तापन का मे खण्डन करता भरपूर ॥
तब तो अपना खुद वह खण्डन करै मेरा नहीं जरा कसूर ।
अगर मेरा कसूर कहो तब रहै नहीं ईश्वर का नूर ॥
फिर कहते हो निराकार वह जिसका नहीं कोई आकार ।
मगर बिना आकार रचे क्या वस्तु दिल में करो विचार ॥
अगाहीन नर क्या कर सकता हाथ पैर बिन अब लाचार ।
है अचरज की बात बिना आकार रचै ईश्वर संसार ॥
ऐसी भूठी बातों को माने नहीं कोई भी ज्ञानी नर । सृ०

(८)

फिर कहते हो परमेश्वर का ज्योति स्वरूप सदा सुखकार ॥
निराकार पन नष्ट हांगया जब उसका है रूप आकार ॥
सब शक्ति नहिं रही ईश मे जब सब जीव हुं स्वधीन ।
सर्व ज्ञान नहीं रहा ईश मे नहीं दयालु करो यकीन ॥
नहीं रहा घटघट का बासी समदृष्टि भी रहा न ईश ।
रक्षक पन नहीं रहा ईश मे निर्विकार भी नहीं जगदीश ॥
जो जो गुण तुम बणन करते कर्ता पन में रहै न एक ।

नहीं जीव का कर्ता ईश्वर ज्ञानी लोगो करो विवेक ॥
ईश्वर होता है महादोषी उसको कर्ता कहो अगर । सृ०

(६)

एक बात का और गुणीजन जरा ध्यान से करिये ख्याल ।
ईश्वर ने रच करके सृष्टि क्यों सर अपने घरा बबाल ॥
अपने सुख आनन्द में उसने व्यर्थ फिकर क्यों लीना डाल ।
हुआ फायदा क्या ईश्वर को फैलाया यह माया जाल ॥
अगर कहोगे ईश्वर ने रच जगको हुनर दिखाया है ।
मैं हूँ ऐसा बली गुणी जन मेरी यह सब माया है ॥
तब तो हुनर उन्हें दिखाया खुद ही जिन्हें बनाया है ।
बड़ा घमण्डी मानी है जो जगका जाल बिछाया है ॥
किस कारण से दुनियां को रच किया ईश ने प्रगट हुनर ॥ सृ०

(१०)

कर्तापन का कहा हाल अब हर्तापन का सुनो जिकर ।
अपने हाथ बनाकर वस्तु नहीं हरै कोई ज्ञानी नर ॥
अगर चतुर नर किसी वस्तु को बना बनादे खाण्डित कर ।
उसे कहे सब मूर्ख दुनियां यह तो आती साक नजर ॥
लिखकर माफ इवारत को जो मेटै अपने हाथ बशर ।
समझो उसको गलत इवारत या कुद्ध उसमें रही कसर ॥
कहो जीव रचने में ईश ने की गलती या भूला ढगर ।
या मूर्खपन किया ईश ने हरै जीव पैदा कर कर ॥
नहीं ईश्वर हरै किसी को दोष लगाओ उसके सर ॥ सृ०

(११)

करो श्रुंत और सच का निर्णय पक्षपात को तज गुणवान ।
 कर्तापन में परमेश्वर के होता है सब भ्रष्ट जहान ॥
 ईश्वर के सर दोष लगे अति पापी कपटी अरु नादान ।
 तुम ईश्वर को दोश लगाओ फिर बनते हो भक्त महान ॥
 अरे भाई जो कर्म करोगे उसका फल भोगोगे आप ।
 कहे शास्त्र सुत करै भरै सुत बाप करै सो भोगे बाप ॥
 भक्ती के कारण ईश्वर नहीं माफ करता है पाप ।
 दोष लगाओ मत ईश्वर को वरना भोगोगे संताप ॥
 पक्षपात को तज कर ज्ञानी यही बात लो हृदय धर ॥ स् ०

(१२)

है नहीं ईश्वर कर्ता हर्ता जगत जीव का आदि न अन्त ।
 निज निज कर्म योग से सुख दुख पावे जीव जगत भ्रमंत ॥
 नहीं ईश्वर कुछ दण्ड देत है नहीं ईश्वर कुछ करत हरंत ।
 रागद्वेष से रहित मोक्ष में अजर अमर ईश्वर भगवंत ॥
 पाप करै सो लहै जीव दुख पुण्य करै सुख लहै अपार ।
 पाप पुण्य के नाश करे पर वीतरागपन है सुखकार ॥
 समझन कारण गुणी जनों के यह काफ़ी हैं चन्द सतर ।
 सृष्टि को रच जीव बनाये इस में सन्देह पड़े नजर ॥



४—संसार दुख दर्पण

दोहा ।

वीर जिनेश्वर पद नमूं, जग जीवन सुखदाय ।
कहूं दशा संसार की, सुनो भविक मन लाय ॥ १ ॥

जोगी रासा ।

या जग में नहि दीखत कोई, जीव सुखी संसारी ।
दुखिया सब जग जीव दिखाई, देत अनेक प्रकारी ॥ २ ॥
कबहु जियने जाय नरक गति, सागर लों थिति पाई ।
मारन छेदन ताड़न पीड़न, कष्ट लहे अधिकाई ॥ ३ ॥
झूबत भूमि हुई इम पीड़ा, बिच्छू सहस डसाना ।
भूख लगी तिहुं जग का खाऊं, अन्न मिला नहि दाना ॥ ४ ॥
होय तृषातुर चह्यो सिंधु जल, बूंद एक नहि पाई ।
रक्त राध से पूरित नदियाँ, बहती हैं दुखदाई ॥ ५ ॥
असि सम तीक्ष्ण पत्र वृत्त के, जो तन चीर बिदारें ।
टूटे फल ज्यों पत्थर बरसैं, खण्ड खण्ड कर डारें ॥ ६ ॥
गरमी सरदी कष्ट दायनी, है अन्धियार भयाना ।
पृथ्वी की रज अति दुर्गन्धा, व्याकुल करत महाना ॥ ७ ॥
कष्ट नरक के जाँय न बरने, जो बहुकाल सहे हैं ।
पशु गति पाई फिर दुखदाई, कष्ट अनेक लहे हैं ॥ ८ ॥
भार बहन अरु छेदन भेदन, भूख प्यास दुखकारी ।
जलचर, नभचर, थलचर पशु को, मारत आन शिकारी ॥ ९ ॥

पिंजरे पड़कर, खूटे बंधकर, बन्धन से दुख पावें ।
 चाबुक पैनी दरडा लाठी. मार सभी से खावें ॥१०॥
 पापी हिरदे धार दुष्टता, पंचेन्द्री पशू मारें ।
 देवी पर बलिदान नाम सं, असि के चाट उतारें ॥११॥
 है पशुगति अति कष्ट दायनी, पाय लहैं दुख प्रानी ।
 जो भोगै दुख, वह जिय जानै, या प्रभु केवल ज्ञानी ॥१२॥
 कुछ शुभ भावन कर या जियने, सुरगति सुन्दर पाई ।
 पर मन इच्छित सुख नहि पायो, दुख पायो अधिकाई ॥१३॥
 रंक भयो, लख सम्पत् पर की, भुर भुर वदन भिरायो ।
 देख २ सुख भोग पराये, कर चिन्ता दुख पायो ॥१४॥
 बहु दुख माना चिन्ता कीनी, रुदन किया दुःखदाई ।
 जब मृत्यु से मास छः पहिले, गलमाला मुरभाई ॥१५॥
 हा ! हा ! यह सुख भोग छुटेंगे, अब होगी तिथि पूरी ।
 इच्छा मन की पूरी नाहीं, रह गई हाय अधूरी ॥१६॥
 कोई पुन्य उदय जब आयो, तब मानुष गति पाई ।
 कर्म उदय कर या गति माँही, कष्ट अनेक लहाई ॥१७॥
 पुत्र बिना दुखिया नर कोई, चिन्तत मन में ऐसे ।
 मम धन सम्पत्ति कौन भोगवै. नाम चलेगा कैसे ॥ १८॥
 होय पुत्र मर जाय दुखी तब, यह कह रुदन मचावै ।
 जो ना होता तो अच्छा था, कष्ट सहा नहिं जावै ॥ १९॥
 जीयो पुत्र भयो दुर्न्यसनी, धन सम्पत्ति सब खोयो ।
 अब दुख मानत मात पिता सब, कुल का नाम बुबोयो ॥ २०॥

मित्र स्वारथी स्वारथ साधन, कर आँखें दिखलावै ।
 बैर बनकर धन यश प्राणन, का ग्राहक बन जावै ॥ २१ ॥
 कुलटा नारी कलह कारिणी, कर्कश बचन उचारै ।
 दोऊ कुल की लाज गंवावै, पति को विष दे मारै ॥ २२ ॥
 वेश्या गामी, परतिय लम्पट, उवारी माँसाहारी ।
 मद मतवाले पति से दुखिया, है पति-वरता नारी ॥ २३ ॥
 पुत्र पिता पर अरि सम दूटै, चाहै यह मर जावै ।
 पिता पुत्र पर रुष्ट होय कर, घर से दूर करावै ॥ २४ ॥
 भाई भाई लड़त स्वान सम, हैं प्राणन के लेवा ।
 धार कषाय उपाधि मचावै, हैं दोऊ दुख देवा ॥ २५ ॥
 विधवा नारी पति बिन दुखिया, बिन नारी पति कोई ।
 कोई बाला वृद्ध पती पा दुखित अती मन होई ॥ २६ ॥
 इष्ट मित्र का होय बिलोहा, शोक करत तन छीजे ।
 बाल अनाथ न कोउ सहाई, किसका आश्रय लीजे ॥ २७ ॥
 कुल कुटुम्ब के लोग स्वार्थी, स्वारथ वश दुख देवै ।
 दाव लगे पर धन सम्पति क्या, प्राणन तक हर लेवै ॥ २८ ॥
 नृप अन्यायी सब धन छीनै, अत्याचार करै हैं ।
 बन्दी गृह में डार मार कर, सम्पति सर्व हरै है ॥ २९ ॥
 धर्म नाम पर लड़त अयाने, धन, लुटें अधतापी ।
 मार छेद कर प्राण लेत हर, रक्त बहावै पापी ॥ ३० ॥
 न्यायासन पर बैठ करै अन्याय, घूस कोई लेवै ।
 दोषी को निर्दोष बनावै, दण्ड सुजन को देवै ॥ ३१ ॥

मारें लूटें चोर लुटेरे, स्याल ज्याल डरपावैं ॥
 नीर बुबावे अगनि जलावै, सिंहादिक हन खावै ॥ ३२॥
 मरी रोग दुर्भिक्ष सतावै, बिजुरी तन को जारै ।
 काल भयानक नित डरपावत, आन अचानक मारै ॥ ३३॥
 क्रोध मान माया अरु तृष्णा, या बरा हो अघ कीनो ।
 मार, किया अपमान, कपटकर, धन सम्पत्ति सब छीनो ॥ ३४॥
 परधन, धरनी तिय को हर कर, संकट आप उठायो ।
 कारागृह में कष्ट उठाये, कुलको लौंछन लायो ॥ ३५॥
 पायो निर्बल तन अति रोगी, या विटरूप भयाना ।
 अंगहीन लंगड़ा या लला, हुआ अन्ध या काना ॥ ३६॥
 कानन-सुनत, न बोलत मुख से, देखत नाही आपा ।
 कुष्ट रोग से, गलित भयो तन, तब दारुण दुख भयापा ॥ ३७॥
 वृद्धावस्था अर्थ मृतक सम, पाष महा दुख मानै ।
 जाहि मृत्यु से जग भय खावै, ताहि निकट अब जानै ॥ ३८॥
 कोई भिखारी दर दर याचत, दुर दुर बचन कहावै ।
 रुखे मूखे झूठे टुकड़े, पाकर भूख मिटावै ॥ ३९॥
 बिन धन, निर्धन जन, निज मन में कल्पै और दुख मानै ।
 देख घनी जन को दुखपावै, द्वेष ईर्ष्यादिक ठानै ॥ ४०॥
 धनी पुरुष मन, तोष नरंचक, तृष्णा बरा दुख पावै ।
 लोभ पापका बाप, धरै मन, या से कष्ट उठावै ॥ ४१॥
 धन को लूटें चोर लुटेरे, अगनि जलै नस जावै ।
 तब देखो धनवान पुरुष को, सोच सोच मर जावै ॥ ४२॥

काहू के व्यवहार बणिज में, टोटा आय गयो है ।
 टोटा खोटा दुख का कारण, याते दुखित भयो है ॥ ४३
 तृष्णा के वश धनपात भूपति, नरपति हैं सब कोई ।
 संतोषामृत पान कियो नहिं, फिर कैसे सुख होई ॥ ४४
 इंद्रिय पांचौ करि विषयरत, बहु विधि नाच नचावै ।
 मनकी गति अति चंचलपन को, लेय विषय में धावै ॥ ४५
 रूप रंग रस गंध राग पर, जग जिय मन ललचावै ।
 हो आराक्त दुखित अति होवै, अपने प्राण गवावै ॥ ४६
 विषसम विषय विनासै धनबल, यश, बुद्धि, शुचिताई ।
 प्राण जांय विषखाय विषय पर, भव भव में दुखदाई ॥ ४७ ॥
 जो माने सुख या जग मांही, विषयादिक विष खाके ।
 वह नर स्वान समान सुखी है, सूखा हाड़ चवा के ॥ ४८ ॥
 है असार संसार दुखो का, द्वार विपति का घर है ।
 क्षण २ दुख की हो बढचारी, आधि व्याधि का डर है ॥ ४९ ॥
 मोही मोह में अंध होय कर, जग वस्तु थिर मानै ।
 मेरा घर दर धन जन घरना, बन्धु मित्र निज जानै ॥ ५० ॥
 हाड़ माँस और रक्त राध की, देह अशुचि घिणकारी ।
 रूप रंग पर याके मोहित, होत मनुष अविचारी ॥ ५१ ॥
 जानत नाही रूप डरै यह, ज्यों तरुवर की छाया ।
 बालू भीत समान नसै है, कञ्चन जैसी काया ॥ ५२ ॥
 स्वार्थ के सब सगे संघाती, इष्ट मित्र जन प्यारे ।
 निज स्वार्थ को साधन करके, पल में होवै न्यारे ॥ ५३ ॥

और किसीकी बात कहा यह, देह संग नहि जावै ।
 जाको पोखे नित संतोखै, बहु विधि चैन करावै ॥ ५४॥
 या संसार महा बन भीतर, सार वस्तु नहि कोई ।
 कौन पदारथ ऐसा कहिये, नास न जाको होई ॥ ५५॥
 जल बुद्बुद्धत जीवन जग मे, आस नहीं इक दिन की ।
 काल बली मुख खोलत जोहै, बाट एक पल छिन की ॥ ५६॥
 फिर जगमें किससे मोह कीजे, कौन वस्तु धिर कहिये ।
 ऐसे जग जंजाल जाल मे, फंसकर बहु दुख लहिये ॥ ५७॥
 कूप भाँग पड़ी को पी कर, सबने सुध बुध खोई ।
 उत्तम नर भव क्षेत्र पायकर, बेल न सुख की बोई ॥ ५८॥
 धर्मसाध परहित नहि कीना, यौही जन्म गंवाया ।
 मूढ पुरुष ने रत्न अमोलक, सागर बीच डुवाया ॥ ५९॥
 सुख चाहत भी सुख नहि पावत, दुख पावै संसारी ।
 याका कारण, मोह अज्ञता, अरु मिथ्यात दुखारी ॥ ६०॥
 जो चाहे सुख, जिय संसारी, आपा पर को जानै ।
 हित अनहित, अरु पाप पुन्य का, मभी भेद पहिचानै ॥ ६१॥
 विश्व प्रेम हिरदय विच धारै, पर उपकारी होवै ।
 पाप पंक आतम पर लागो, संजम जल से धोवै ॥ ६२॥
 दर्शन, ज्ञान, सुचारित्र पान, इच्छा भाव घटावै ।
 पंच महाभ्रत धारण करके, जग से मोह हटावै ॥ ६३॥
 यह जग वस्तु समस्त विनासे, इनसे ममता त्यागै ।
 आत्म चिंतवन कर, निजमनमें, आतम हित में लागै ॥ ६४॥

मैं आतम परमातम, चिद् आनन्द रूप सुख रूपी ।
 अजर अमर, गुण ज्ञान, शान्तिमय हूँ आनन्दस्वरूपी ॥६५॥
 यह तन रूप स्वरूप न मेरो, मैं चेतन अविनाशी ।
 ज्ञाता दृष्टा सुख अनन्त मय, हूँ शिवपुर का बासी ॥६६॥
 मेरी केवल ज्ञान ज्योति से, भरम तिमर नस जावे ।
 मैं ऐसा शुद्धात्म, चिदानन्द, जब यह जीव लखावे ॥६७॥
 तब ही कर्म कलंक बिनासेँ, जीव अमर पद पावे ।
 मिले निराकुल सुख अविनाशी, परमातम कहलावे ॥६८॥
 आव क बवह शुभ दिन जब मम, ज्ञान "ज्योति" जगजावे ।
 सत्य अमर आतम को पाकर, मम जियरा सुख पावे ॥६९॥

दोहा ।

मेरी है यह भावना, सुख पावे संसार ।
 मिले निराकुलता मुझे, ही आनन्द अपार ॥

५—समझ मन स्वारथ का संसार

हरे वृक्ष पर पक्षी बैठा, गावे राग मल्हार ।
 सूखा वृक्ष, गया उड़ पक्षी, तज कर दम में प्यार ॥१॥
 ताल पाल पै डेरा कीना, सारस नीर निहार ।
 सूखा नीर तालको तजगये, उड़ गए पंख पसार ॥ २ ॥

बैल वही मालिक घर यावत, तावत बांधों द्वार ।
 वृद्ध भयो तब नेह न कीनो, दीनों तुरत बिसार ॥ ३ ॥
 पुत्र कमाऊ सब घर वाहै, पानी पीवै बार ।
 भयो निरुद्ध दुर दुर पर पर, होवत बारम्बार ॥ ४ ॥
 जब तक स्वारथ सधै तभी तक, बने फिरै हँ यार ।
 स्वारथ साध बात नहि पूछै, सब विछुड़े संग छार ॥ ५ ॥
 स्वारथ तज निज गह परमारथ, क्रिया जगत उपकार ।
 "ज्योती" ऐसे गुरुदेव के, गुण चिन्तै हर बार ॥ ६ ॥

६—अब हम अमर भए न मरेंगे

अब हम अमर भये न मरेंगे हमने आतम राम पिछाना ।
 जल में गलत न जलत अग्नि में असि से कटत न विष से हाना ॥
 चीरत फांस, न पीरत कोल्हू, लगत न अग्नि बाण निशाना ॥ १ ॥
 दामनि परत न हरत बज्रगिर विषधर डस न सके यह जाना ।
 सिंह व्याघ्र गज ग्राह आदि पशु मार सकें कोई दैत्य न दाना ॥ २ ॥
 आदि न अन्त अनादि निर्धन यह नहीं जन्मत नहिं मरत सयाना ।
 पाय पाय पर्याय कर्मवश जीवन मरण मान दुख ठाना ॥ ३ ॥
 यह तन नसत और तन पावत और नसत पावत अरु नाना ।
 यों बहु रूप घरे बहु रूपियों स्वाग भरे मन माना ॥ ४ ॥
 ज्यों तिल तेल दूध में धी त्यों तन में आतम राम समाना ।
 देखत एक-एक ही समभक्त कहत एक ही मनुज अजाना ॥ ५ ॥

पर पुत्रल पर, पर यह आत्म नहीं एक दो तत्व प्रधाना ।
 पुद्गल मरत जरत अरु बिनसत आत्म अजर अमर गुणवाना ॥६
 अमर रूप लखि अमर भये हम समझ भेद जो बेद बखाना ।
 * 'ज्योति' जगी श्रुत की घट अन्दर ज्योति नरन्तर उर हर्षाना ॥७॥



७—आत्मन उद्योग कर परमात्मन जो जाय बन ।

आत्मन उद्योग कर परमात्मन जो जाय बन,
 दूर हो बहिरात्मपन शुद्धात्मन् जो जाय बन ।

छा रहे जो लोक में नस जाँये बे मिथ्यात्व घन ।

फैल जाये शुद्ध सम्यक ज्ञान सूरज की किरन ॥

भूल से अपनी तू आपा आप भूला जा रहा,
 षक में जन्मन मरण के फंस के जो दुख पा रहा ।

है यदी इच्छा तेरी दर दर भटकना दूर हो ।

कर्मरूपी बैरियों के दल का चकना चूर हो ॥

तबतो तू सत् शील संजम आदि निज गुण धार कर,
 आप में ले देख आपा भूठी मैं को मार कर ।

मोह मद मिथ्यात्व ममता त्याग समता भावधर ।

कर दमन इन्द्रिय पाँचों मनको अपने वशमें धर ॥

धार दर्शन ज्ञान चारत्र ब्रह्म में लौ लीन हो,
 जीत राग अरु द्वेष रिपु को ताकि तू स्वाधीन हो ।

फिर तू चिद आनन्द है शुद्ध बुद्ध तेरा रूप है ।
 गुण ज्ञान का भण्डार है सुख रूप है चिद्रूप है ॥
 तू अजर है तू अमर है तू अमल है तू सबल,
 ज्ञान दर्शन वीर्य सुख आनन्द तुझमे है अटल ।
 है अमर शुद्धात्म तू परमात्म तू शुभ रूप तू ।
 बुद्ध, ब्रह्मा, विश्नु, शंकर, वीर तू शिव रूप तू ॥
 ज्योति मय, गुणज्ञान मय, आनन्द मय सुखधाम है ।
 केवल्य मय, सर्वज्ञ तुझको बार बार प्रणाम है ॥



८—वीर महिमा

महावीर, अतिवीर, बीरवर, सन्मति, बद्धमान, गुनखान,
 करुणाधारी, जग उपकारी, शिव अधिकारी, दया निधान ।
 मोह विनाशक, प्रेम प्रकाशक, शासक, शिव भारग वरशान,
 जग उभारन, दुख निवारन, भव भय हारन, श्री भगवान ॥ १॥

करम काण्ड के कारण जग के थे सब जीव जन्तु भयवान,
 फैल रही थी घर घर हिंसा मनुष्य मात्र बलिदान ।
 तब पशुओं का मौस यज्ञ में हुमत थी भारत संतान,
 वेद मन्त्र का आश्रय लेकर खून बहाते थे अनजान ॥ २

तब तुम दे उपदेश दयामय किया अहिंसा धर्म प्रचार,
 फैली धृणा यज्ञ बलि से, तब दूर हुई हिंसा दुखकार ।
 ज्ञान भानु के उदय होत ही मिटा अंधेरा पाप विकार,
 सत्य प्रकाश हुआ निज हित का तब सब करने लगे विचार ॥३॥

मनुष्य जाति का तो क्या कहना पशु आदि को दिया सुज्ञान,
 ऊँच नीच का भेद मिटा कर सबको समझा एक समान ।
 दयावान भगवान मिटा अज्ञान, बताया वह गुण ज्ञान,
 चौरासी की फाँसी कट कर हो शिव वासी अमर सुजान ॥ ४॥

अब यह कृपा करो श्री सन्मति शुभ मति पावें जगवासी,
 वृद्धि होय गुण, ज्ञान, वीर्य, बल, दरस हरष सुख, शुभरासी ।
 मिटे भ्रमन जग, जाय करम भग, कट जाय यम की फाँसी,
 पाय अमर पद सुखद निराद ज्योति प्रकाशै अविनाशी ॥ ५॥

६—मुझे ऐसा सत्र-ओ-करार दे

मुझे सत्य धर्म से ऐ प्रभु सदा इस तरह का प्यार दे,
 कि न मोहूँ मुंह कभी इससे मैं कोई चाहे सर भी उतार दे ।
 वह कलेजा ऋषियों को जो दिया, वह जिगर जो मुनियों को अता १ किया,
 वह महात्माओं का दिल बस, घड़ी भर को मुझे भी उधार दे ।
 न हो दुश्मनों से मुझे गिला, करूँ मैं बुरे की जगह भला,
 मेरे लबर से निकले सदा दुआ २, कोई चाहे कष्ट इज्जार दे ।
 न मुझको खाहिशइ मरतवा, न है माल-ओ-जर की हविस मुझे,
 मेरी उम्र खिदमत-इ-खलक ४ में मेरे दीनबन्धु गुजार दे ।
 मुझे प्राणी मात्र के वास्ते करो सोज ५-इ-दिल वह अता पिता,
 जलूँ उनके गम मे मैं इस तरह किन खाक तक भी गुवार दे ।
 मेरी ऐसी जिन्दगी हो बसर कि हूँ सुरखरू दो जहान में,
 न मुझको मेरा यह आत्मा कभी शर्म लेल-ओ-निहार ६ दे ।
 न किसी का मरतवा देखकर जले दिल में आग हसद ७ कभी,
 जहाँ पर रहूँ, रहूँ मस्त मैं मुझे ऐसा सत्र - ओ - करार दे ।
 लगे जरूम दिल पै अगर किसी के, तो मेरे दिल में तड़प उठे,
 मुझे ऐसा दे दिल दर्द रस मुझे ऐसा सोना फिगार दे ।
 है प्रेम की यही भावना यही एक उसकी है आरजू ८,
 कि वह चन्द राजा हयात ९ को दया धर्म में गुजार दे ।

नोट—यह कविता मार्तण्ड, लाहौर, से कुछ तबदीली करके
 बनाई गई थी ।

१दान, २ होंठ, ३ आशीर्वाद, ४ ससार, ५ जलन, ६ दिनरात,
 ७ ईर्ष्या, ८ इच्छा, ९ जीवन ।

१०—मेरा तार प्रेम का तार हो ।

मुझे प्राणीमात्र से ऐ प्रभु ! सदा इस तरह का प्यार हो,
मेरी जान सिद्धक-इ-हजार हो, मेरा दिल भी लाख निसार^१ हो ।
लगे चोट गरचे जरा किसी के तो मेरा सीना फिगाहर हो ।
लगे काँटा तन में जो गर किसी के तो मेरे दिल का बह रूखबार हो ।
लगे रौने कोई जो दर्द से बहे अश्क^४ आंखों से तब मेरी,
जरा दुख किसी को जो हो जरा, तो न दिल को मेरे करार हो ।
मेरी आंखों में सभी घर करें मेरे दिल में सबको जगह मिले,
मुझे सब का दिल से प्यार हो, मेरा सब को दिल से प्यार हो ।
मैं तो प्राणी-मात्र के बास्ते तजुं स्वार्थ अपने को ए पिता !
मुझे हो लगन परमार्थ की, मेरा कार पर उपकार हो ।
मुझे लाख गालियाँ कोई दे मुझे मार मारें हजार हा,
मेरे दिल मे फिर भी न द्वेष हो बले हो तो प्रेम अपार हो ।
मेरा मन हो मन्दिर हो प्रेम का, मेरा दिल हो तौरों के लिये,
मेरा राग प्रेम का राग हो मेरा तार प्रेम का तार हो ।
वहां फसद^५ लैला के जो खुले बहे खून मजनुं की रग से यां,
वही हाल दिल का हो मरे वही दिल मे मेरे विचार हो ।
मुझे सेवा धर्म का दो सबक मैं तो सबकी सेवा किया करूं,
मुझे सेवा धर्म से प्रेम हो, मुझे सेवा धर्म से प्यार हो ।
मुझे है न दौलत की हबिसद^६, मुझे चाह इज्जत भी नहीं,
मेरी भावना बस है यही मेरा आत्म खुद मुख्तार^७ हो ।

१ न्यूझावर, २ जखमी, ३ कांटा, ४ आंसू, ५ रग से खून,
निकलना, ६ लालच, ७ स्वतन्त्र ।

११—मेरी भावना

भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो,
 सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो ।
 धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो,
 और यह उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो ।
 रोशनी से ज्ञान की संसार में प्रकाश हो,
 धर्म की तलवार से हिंसा का सत्यानाश हो ।
 शांति ओ आनन्द का हर एक घर में वास हो,
 वीर बानी पर सभी संसार का विश्वास हो ।
 रोग और भय शोक हों दूर सब परमात्मा,
 कर सकें कल्याण अपना सब जगत की आत्मा ।

१२—प्रेम भरी भावना

सर्वज्ञ देव तुमसे मेरी यह इलतजा १ है,
 संसार गहन बन में जो दुख भरा हुआ है ।
 उस दुख को मेटने की गुण ज्ञान जो दवा है,
 वह हाथ में हो मेरे यह मेरी भावना है ।

मैं, उस दवा से मेटूँ दुख जग के प्राणियों का,
 और भ्रम सब मिटादूँ दिल से अभानियों का ॥१॥
 रह कर मैं ब्रह्मचारी विद्या करूँ मैं हासिल,
 आत्मिभर बनूँ मैं पूरा हर एक फल में कामिल ३ ।
 होकर धर्म का माहिर ४ हर एक अमल का आमिल ५,

१ प्रार्थना, २ विद्वान, २ पारगामी, ४ आचार्य, ५ करने वाला,

चखूँ चखाऊँ सबको गुण ज्ञान के सरसफल ।

रक्षा करूँ मैं अपने बल वीर्य की निभाकर,

सेवा करूँ धर्म की जिरमो जां गंवाकर ॥ २ ॥

अर्जुन सा बल हो मुझ में और भीम सी हो ताकत,

अकलंक सी हो हिम्मत निकलक सी शुजाअत ।

श्रीपाल जैसी थिरता और राम जैसी इच्छत,

विशु सा प्रेम मुझमें लक्ष्मण सी हो मुहब्बत,

श्रेयांस जैसी मुझ में हां दान वीरता हो ,

सुखपाल जैसी मुझ में हां ध्यान धीरता हो ॥३॥

सादा रिजा हो मेरी, सादा चलन हो मेरा,

मैं हूँ बतन का प्यारा, प्यारा बतन हो मेरा,

सच्चा वचन हो मेरा, सच्चा प्रण हो मेरा,

आदर्श चिन्दगी हो उत्तम भजन हो मेरा ।

दुनिया के प्राणियों से ऐसा मेरा निवाह हो,

मुझको भी उनकी चाह हो उनको भी मेरी चाह हो ॥४॥

दुनिया के बीच करदूँ गुण ज्ञान का उजेरा,

और दूर सब भगा दूँ अज्ञान का अन्धेरा,

हर एक का मैं करदूँ आराम से बसेरा,

मेदूँ दिलों से सबके यह लफ्फ तेरा मेरा,

मैं सबको एक करदूँ आत्म का रस पिला कर,

वानी पवित्र सब को महावीर की सुना कर ॥५॥

भूलों को राह बता दूँ हमराह खुद मैं जाकर,

गिरतों को मैं उठादूँ हाथों में हाथ लाकर,

डूबे हुए बचावूँ गोते मैं खुद लगा कर,
 सोंतों को मैं जगा दूँ आवाज दे दिला कर,
 विछड़ों को मैं मिला दूँ हाँ प्रेम राग गाकर,
 मुरवों को मैं जिला दूँ रस प्रेम का पिलाकर ॥६॥

घर घर में जाके बाटूँ मैं प्रेम की मिठाई,
 विद्या की रोशनी से देने लगे दिखाई,
 दिल में प्रेम सब के सब होवें वीर भाई,
 होने लगे हर इक के दुख में हरइक सहाई,
 'ज्योति' मैं यह करूँगा तन मन लगाके अपना,
 सेवा करूँगा सब की सब कुछ गवाँ कर अपना ॥७॥

१३—मेरी अभिलाषा

मन्त साधु बन के विचरूँ वह घड़ी कब आयगी,
 शान्त दिल पर मेरे बैराग्य की छा जायगी ॥८॥
 मोह ममता त्याग दूँ मैं सब कुटुम्ब परिवार से,
 छोड़ दूँ झूठी लगन धन धाम और घर बार से,
 नेह तज दूँ महल ओ मन्दिर और चमन गुलजार से,
 बन में जा डेरा करूँ मुँह मोड़ इस संसार में ॥९॥ स०
 इस जगत में जो पदार्थ आ रहे मुझको नजर,
 धर नहीं है इनमें कोई, है यह सब के सब अधिर,
 जिन्दगी का क्या भरोसा यह रही दम २ गुजर,
 दम में दम से दम में दम है दम में दम से बे खबर ॥१०॥ स०
 कौन सी वह चीज है जिस पर लगाऊँ दिल यहाँ,
 आज जीवन बन रहा जो फिर वह जीवन कल कहीं,

माल औ धन की सब हकीकत हैं जमाने पर अयाँ,
 क्या भरोसा लक्ष्मी का अब यहाँ और कल वहाँ ॥३॥ स०
 बाप माँ और बहन भाई बेटा बेटा नार क्या,
 सब सगे अपने गरज के थार क्या परिवार क्या,
 बात मतलब से करें सब जगत क्या संसार क्या,
 बिन गरज पूछे न कोई बात क्या तकरार क्या ॥४॥ स०
 था अकेला, हूँ अकेला और अकेला ही रहूँ,
 जो पड़े दुख, मैं सहे और जो पड़े सो मैं सहूँ,
 फिर भला किसको जगत में अपना हमराही कहूँ,
 कौन अपना है सहायक कौन का शरणा गहूँ ॥५॥ स०
 काल सर पर काल का खंजर लिए तय्यार है,
 कौन बच सकता है इससे इसका गहरा वार है,
 हाय जब हर हर कदम पर इस तरह से हार है,
 फिर न क्यों वह राह पकड़ूँ सुख का जो भण्डार है ॥६॥ स०
 ज्ञान रूपी जल से अग्नि क्रोध की शीतल करूँ,
 मान माया लोभ राग और द्वेष आदिक फिर हरूँ,
 बस में विषयों को करूँ और सब कषायों को हरूँ
 शुद्ध चित आनन्द से मैं ध्यान आत्म का धरूँ ॥७॥ स०
 जग के सब जीवों से अपना प्रेम हो और प्यार हो,
 और मेरी इस देह से ससार का उपकार हो,
 ज्ञान का प्रचार हो और देश का उद्धार हो,
 प्रेम और आनन्द का व्यवहार घर घर वार हो ॥८॥ स०
 प्रेम का मन्दिर बनाकर ज्ञान देवी दूँ बिठा,

शान्ति आनन्द के घड़ियाल घटते दूँ बजा,
 और पुजारी बनके दूँ मैं सबको आत्म रस चखा,
 यह करूँ उपदेश जग में, कर भला होगा भला ॥९॥ स०
 आए कब वह शुभ घड़ी जब बन विहारी बन रहूँ,
 शांति की शांत गंगा का मैं निर्मल जल पिऊँ,
 'ज्योति' से गुण ज्ञान की अज्ञान सब जग का दूँ,
 हो सभी जग का भला यह बात मैं हरदम चूँ ॥१०॥स०ॐ

१४—हृदय के भाव

हृदय की पीर हरो भगवान । टेक ।
 भूला भटका दीन पथिक मैं फसा विपत में आन ।
 सीधा सुगम निकट निष्कण्टक निर्भय मारग छोर ।
 ऐसी विकट भयानक अटवी, फंसा न पावं ओर ॥
 फूल सुवास मधुर प्रिय पावन तन से मुख को फेर ।
 चला कटका कीर्ण भाड़ की ओर लिया तिन घेर ॥
 निर्मल शीतल मधुर सलिल तज फंसा कीच में आन ।
 प्रेमामृत पी अमर भयो नहीं कियो मोह विष पान ॥
 आत्म हितैषी सित मित भावी संत समागम त्याग ।
 छली कृतघ्नी आधी स्वार्थी जन से कीना राग ॥
 सत पथ शांति सुधा कर राशि का तज कर दिव्य प्रकाश ।
 मिथ्यामत के घोर अन्ध में भोग रहा हूँ त्रास ॥
 ऐसे दुख सागर से तुम बिन कौन निकाले नाथ ।
 हरो ताप संताप हृदय का गहो "ज्योति" का हाथ ॥

ॐ यह कविता पं० अर्जुनलाल जी खेठी की कविता के ढंग पर बनाई गई थी ।

१५—अमोलक ऋषि

त्यागी, वैरागी, अनुरागी, दया धरमहु के,
 ज्ञान गुण दाता सुख साता के दिवैय्या हैं ।
 करमन के शत्रु हैं, मित्र शील संजम के,
 दुखी जग जीवन के हितकारी भैय्या हैं ॥
 भरो है अथाह दुख जल भव सागर में,
 तामें पड़ी नैय्या ताहि नैय्या के खिवैय्या हैं ।
 जागतों को देत हैं "अमोल" सुख ऋषि राज,
 सोते हुए लोगन को सोते से जगैया हैं ॥

१६—हमारा गोपाल

हाय ! ऐ कौम तेरा आज सहारा टूटा,
 छिप गया चाँद चमकता सा सितारा टूटा,
 वह चली राम की नदी सब किनारा टूटा,
 काम करने का जो था हाथ हमारा टूटा,

आज सरताज तिलक कौम का झूटा अफसोस,

मौत जालिम ने हमें आन के लूटा अफसोस ॥ १ ॥

आज वह सिंह कहाँ धाक मचाने वाला,

आज वह वीर कहाँ बल को दिखाने वाला,

आज वह सूर्य कहाँ तम को मिटाने वाला,

आज वह चन्द्र कहाँ शांति दिलाने वाला,

आज गंगा वह कहाँ प्यास बुझाई जिसने,

आज रहवर वह कहाँ राह दिखाई जिसने ॥ २ ॥

बेराज बान के किया कौम पै साया जिसने,
 अपने हाथों से धर्म-चक्र चलाया जिसने,
 गिरती सतान को गिरने से बचाया जिसने,
 गहरे मिथ्यात के गड्ढे से उठाया जिसने,

आज वह रुठ गया हमको मनाने वाला,
 नाद जिन धर्म का भारत में बजाने वाला ॥३॥

बारा विद्या का लगा फूल खिलाए जिसने,
 मीठे फल धर्म के हम सबको चखाए जिसने,
 जो न देखे थे वही रंग दिखाए जिसने,
 मसले जैन-धर्म के दुनियाँ को सुनाए जिसने,

आज गुरु देव गया छोड़ वह रोते हमको,
 ख्वाब गफलत में बुरी तरह से सोते हमको ॥ ४ ॥

धूम जिन धर्म की ठुनियाँ में मचाई जिसने,
 खास और आम की शंकाएँ मिटाई जिसने,
 नौजवानों के करी दिल की सफाई जिसने,
 आँके मैदान में दी ऐसी दुहाई जिसने,

भ्रम जिन धर्म में हो जिसको मिटाए आकर,
 ज्ञान देवी को यहाँ शीश भुकाए आकर ॥ ५ ॥

मान-अपमान का था ध्यान न जिसको बिल्कुल,
 आन और बान का था ध्यान न जिसको बिल्कुल,
 शान जीशान का था ध्यान न जिसको बिल्कुल,
 लाभ और हानि का था ध्यान न जिसको बिल्कुल,

सत्य का पक्ष मगर लेता था बेडर होकर,
 राह गुमराह को बतलाता था रहवर होकर ॥६॥

हाय अफसोस ! छुटा हमसे वह प्यारा गोपाल,
 हाय अफसोस ! गया करके किनारा गोपाल,
 हाय अफसोस ! सफर ऐसे सिधारा गोपाल,
 लौट कर आएगा हरगिज न हमारा गोपाल,
 यूँ तो मरने को सभी जायेंगे मर दुनिया में,
 नाम मर करके गया अपना अमर दुनिया में ॥ ७ ॥

हाय ! बे वक्त किया तू न किनारा अफसोस !
 हाय ! बे वक्त दिया तोड़ सहारा अफसोस !
 है न सरदार जब कि हमारा कोई अफसोस !
 कैसे यह “ज्योति” करे रंज गवारा अफसोस !

फिर भी कहते हैं कि तू भूल न जाना हमको,
 इक दफा आन के सोते से जगाना हमको ॥ ८ ॥

१७—सेठ ज्वाला प्रसाद

सूत्रों के उद्धारक, प्रचारक जिन शासन के,
 दान वीर धीर जिन धरम के धारी हैं ।
 राजा बहादुर सुखदेव जी के सुत नीके,
 जैन कुल भूषण अरु पर उपकारी हैं ॥
 अमवाल वंश के सु-सुंदर शृङ्गार आप,
 जाति के सुधारक भविष्य के विचारी हैं ।
 साधुन के भक्त गुणी जनन के प्रेमी आप,
 “ज्वाला” जिन रत्नों के परखैय्या भारी हैं ॥

१८—जातीय दशा और उसके सुधार के उपाय

ऐ कौम के प्यारो, ऐ कौम के दुलारो,
 ऐ कौम के जवानो ऐ कौम के कुमारो;

गफलत की नींद छोड़ो सुस्ती को अब उतारो,
बैठो संभल के और कुछ कौमी दशा निहारो ।

पहुँचे कहाँ पै इस दम इस बात को विचारो ॥ १ ॥

पहिले हमारा मस्तक ऊँचा जहान में था,
सारे जहाँ का नकशा अपने ही ज्ञान में था,
दौलत का ढेर सचमुच कोनो मकान में था,
अमृत कहें हैं जिसको अपनी ज़बान में था ।

वीरत्व का नमूना बांकी कमान में था ॥ २ ॥

चर्चा धर्म का करना बस काम था तो यह था,
दुख को पराये हरना बस काम था तो यह था,
विपता में धीर धरना बस काम था तो यह था,
पूरा बचन को करना बस काम था तो यह था ।

सच्चे धर्म पर मरना बस काम था तो यह था ॥ ३ ॥

श्रेयांश कैसे दानी थे वंश में हमारे,
सुखपाल कैसे ध्यानी थे वंश में हमारे,
अकलंक कैसे ज्ञानी थे वंश में हमारे,
लाखों धरम के ज्ञानी थे वंश में हमारे ।

धर्मज्ञ सारे प्राणो थे वंश में हमारे ॥ ४ ॥

अब वंश की हुई है अपने खराब हालत,
घेरे हुए हैं इसको चारों तरफ से शामत,
घर घर में आ विराजी कम्बख्त यह जहालत,
जाती रही है उलकत और मिट गई है दौलत ।

अफसोस हो गई है रुलसत हमारी ताकत ॥ ५ ॥

वह बल कहाँ गया है बाँकी कमान वालो ?
 वह गुण कहाँ गया है आगम के ज्ञान वालो ?
 वह यश कहाँ गया है कीर्ति महान वालो ?
 वह धन कहाँ गया है हीरो की खान वालो ?

अफसोस सब लुटाया ऊँची दुकान वालो॥६॥

पैसा न एक पकले दौलत भला कहाँ फिर,
 पूछे न बात कोई इपजत भला कहाँ फिर,
 लाठी को धाम चलना ताकत भला कहाँ फिर,
 आपस में लड़के मरना उल्फत भला कहाँ फिर ।

माजूर खुद को रखना शोहरत भला कहाँ फिर ॥७॥

शादी में जर गंवाना अब काम हो गया है,
 रंढियों को ला नचाना अब काम हो गया है,
 फुलवारियाँ लुटाना अब काम हो गया है,
 मुरदों का माल खाना अब काम हो गया है ।

गाली-गालोच गाना अब काम हो गया है ॥८॥

कौमी अनाथ बालक दर दर फिरें हैं मारे,
 मरती हैं बिधवा बहिनें भूखी बिला सहारे,
 कितने ही दीन भाई भूखे मरें विचारे,
 माँगे हैं भीख घर घर कफनी गल में डारे ।

अफसोस पर न रीगे जूँ कान तक तुम्हारे ॥९॥

बिद्या की कुछ न पूछो क्या चीज बिद्या है,
 डर इससे लग रहा है गोया यह कुछ बला है,

विद्या बिना न जाना हमने कि धर्म क्या है,
पूछे जो कोई हमसे जिन धर्म चीज क्या है ।

देंगे जवाब हे बस ग्रन्थों मे जो लिखा है ॥१०॥
ग्रन्थों का ढंग सुनिये हमने जो करके छोड़ा,
अल्मारियों में उनको बस बन्द करके छोड़ा,
नहीं धूप तक दिखाई जिस दिन से धरके छोड़ा,
बे-खौफ हो चुहों ने उनको कुतर के छोड़ा ।

पर हमने दम विनय का दम दम में भरके छोड़ा ॥११॥
मेले लगा के हमने रौनक बढ़ा के छोड़ी,
घोड़े व हाथियों की लैनें लगा के छोड़ी,
क्या क्या सुनाऊ शोभा जो जो दिखा के छोड़ी,
सब नाम की गर्ज से दौलत लुटा के छोड़ी ।

असली गर्ज को लेकिन जड़ से मिटा के छोड़ी ॥१२॥
हमने प्रभावना का सामान खोके छोड़ा,
जिन धर्म का दिलों से श्रद्धान खोके छोड़ा,
अपने बड़ों का आदर सम्मान खोके छोड़ा,
अपने बुरे भले का सब ज्ञान खोके छोड़ा ।

ईमान की तो यह है ईमान खोके छोड़ा ॥१३॥
भैरों को हमने सच्चे दिल से मना के छोड़ा,
काली पर काले बकेरे का सर चढ़ाके छोड़ा ।
मुर्गों को शीतला के ऊपर चढ़ा के छोड़ा,
कब्रों पर हमने पीरों की सिर निवा के छोड़ा ।

शिव जी का लिंग अपने दिल में जमा के छोड़ा ॥ १४ ॥

ऐ कौम के सपूतो ए आन बान वालो,
कुछ तो शर्म करो अब अर्जुन के बान वालो,
जो होगया सो बहतर पर आगे को सम्भालो,
कौमी बुराइयों को अब कौम से निकालो ।

दो चार हाथ मारो पर कौम को बचा लो ॥१५॥

इस दम भला है मौका यह कौम को जितादो,
मौसिम बहार का है कुछ तुम भी गुल खिलादो,
बलटी को भट सुलट दो बिगड़ी को भट बनादो,
भेरी को जैन मन की चारों तरफ बजादो ।

कुछ काम करके अपना बल गैर को दिखेदो ॥१६॥

दस बीस ब्रह्मचर्य आश्रम बना के रहना,
दस बीस जैन कालिज कायम कराके रहना,
दस बीस अनाथालय फौरन खुला के रहना,
दस बीस पुस्तकालय दिल से सजाके रखना ।

दस बीस औषधालय प्राशुक खुला के रहना ॥१७॥

कौमी ब्रादरों को सीने लगा के रहना,
कौमी बुराइयों को सचमुच भगा के रहना,
रंडी के नाच की जड़ जड़ से मिटा के रहना,
शादी गमी के खर्चों को तुम घटा के रहना ।

हे जैन कौम मुरदा इस को जिला के रहना ॥१८॥

दस धर्म का नकारा जग में बजा के रहना,
गैरों को इस धर्म की अजमत दिखाके रहना,
हिंसा का नाम जग से बिल्कुल मिटा के रहना,
दुनियां में जिन धर्म का सिक्का जमा के रहना ।

यह धर्म है महा रथ इस को चला के रहना ॥१९॥
 द्रव्यों की सत्य चर्चा सब को सिखा के रहना,
 तत्वों का भेद असली सबको सुना के रहना,
 ईश्वर का रूप सक्चा सबको दिखा के रहना,
 सीधा जो मोक्ष मार्ग सबको बता के रहना ।

मिथ्यात्व का अन्धेरा जग सं मिटा के रहना ॥२०॥
 जिन धर्म शास्त्रों का प्रचार करके रहना,
 प्राचीन शास्त्रों का उद्धार करके रहना,
 घर घर में शास्त्रों का भण्डार करके रहना,
 चारों वर्ण से हरदम तुम प्यार करके रहना

दुनियां में हर किसी का उपकार करके रहना ॥ २१ ॥
 अब काम कीजियेगा दिल से विचार करके,
 मैदां में आइयेगा आलस उतार करके,
 कुछ दान दीजियेगा अपनों का प्यार करके,
 धन चीज क्या है देदो जां तक निसार करके ।

मांगे है भीख 'ज्योति' पन्ना पसार करके । २२ ।

भजन नं० १६

प्रभुजी दीजो यह वरदान ॥ टेक ॥

हृदय शुद्ध हो, विमल बुद्ध हो, निर्मल होवे ज्ञान ।
 द्वेष क्लेश, अरुलोभ, छोभ, नस जाय कपट छल मान ॥
 ऊंच, नीच, बलहीन, बली, धनहीन, धनी धनवान ।
 भेदभाव टुक रहे न समझे सबको एक समान ॥ प्रभुजी ॥
 रोगी, शोगी, दुखित, भुखित को देख न उपजै ग्लान ।

करें दूर दुख हम सब उनका हर्ष हृदय में ठान ॥ प्रभूजी० ॥
 सेवा धर्म होय व्रत हमरा, दान प्रेम रस दान ।
 करें विश्व भर की हम सेवा कर न्यौद्धावर प्रान ॥ प्रभूजी० ॥
 राम, कृष्ण, बुध, वीर प्रभू का यह आदेश महान ।
 करो सभी जीवों की सेवा, जो चाहो कल्याण ॥ प्रभूजी० ॥
 सेवक बन सेवा व्रत धारें, करें प्रेम रस पान ।
 टारें दुख भय शोक जगत का भारत की सन्तान ॥ प्रभूजी० ॥
 दूर होय अज्ञान अंधेरा उदय ज्ञान का भान ।
 'ज्योति' प्रेम की घर २ फैले हो ऐसा भगवान ॥ प्रभूजी० ॥

२०—भजन

करो सब मिल जुल पर उपकार ॥ टेक ॥
 ब्राह्मण, क्षत्रो, वैश्य, शूद्र सब हो जाओ तैयार ।
 काम करो सब ऐक्य भाव से देश काल अनुसार ॥ करो०
 दूर करो अज्ञान अंधेरा कर विद्या प्रचार ।
 हूबी जात प्यारी सन्तति उसे लगावो पार ॥ करो०
 गिरी आर्थिक दशा देश की निर्धन हुआ अपार ।
 कर उद्योग कमाओ धन को भरें अतुल भण्डार ॥ करो०
 द्वेष ईर्ष्या वैर भाव मत भेद आदि तकरार ।
 इनको त्याग प्रेम मग लाओ पहुंचो उन्नति द्वार ॥ करो०
 तन, मन, धन, जन, बल, गुण, विद्या, असि, मसि, कृषि, व्यापार ।
 कर पुरुषार्थ इन्हें बढ़ाओ है यह सब विचार ॥ करो०
 त्याग विदेशी, गहो स्वदेशी, हो भारत उद्धार ।
 'अमर' नाम हो जाय आपका जग में जीवन सार ॥ करो०

२१—भजन

उठो अब करो देश उत्थान ॥ टेक ॥

फैली घर घर बीच अविद्या और छाया अज्ञान ।

याही से भारत भयो गारत हुई देश की हान ॥ उठो०

जौन देश सब देशन सेती पाता था सन्मान ।

आज बही धन, बल, गुण हीना दीख रहा भगवान ॥ उठो०

असि मसि कृषि अरु शिल्प चातुरी इनका छोड़ा ध्यान ।

बणिज और व्यापार न करके माँगत भिक्षा दान ॥ उठो०

ब्राह्मण क्षत्री वैश्य मनुज सब छोड़ छोड़ निज आन ।

दास वृत्ति कर करके धारण बन गए शूद्र समान ॥ उठो०

वीर धीर बुध राम कृष्ण जहँ उपजे वीर महान ।

आज तहाँ बल हीन आलसी उपजत है सन्तान ॥ उठो०

उठो करो उद्योग बनाओ निज सन्तति विद्वान ।

जाते होय धरम उजियारा घर घर फैले ज्ञान ॥ उठो०

समय नहीं फिर मिलि है ऐसा यह सोचो बुधवान ।

ज्ञान भानु की 'ज्योति' जगाओ मिटे तिमिर अज्ञान ॥ उठो०

२२—भजन

हो हम मे बल ऐसा भगवान ॥ टेक ॥

बनें स्वयं ब्रह्मचारी भारी दादा भीष्म समान ।

वीर बनें अर्जुन से बाँके लक्ष्मण से बलवान ॥ हो०

धीर वीर सुखमाल कुंवर सम जोधा ज्यों हनुमान ।

कर्मवीर अकलंक सरीखे बन कर ले मैदान ॥ हो०

दश भक्ति से प्रेरित होकर करें देश उत्थान ।

सेवा धर्म होय व्रत अपना, दान होय बलिदान ॥ हो०
 कुमति कुरीति मिटायें जग से अरु फैलायें ज्ञान ।
 सुखी करें हम सब जीवों को दुख का भेट निशान ॥ हो०
 डूबी जात दुख सागर में भारत की सन्तान ।
 या की रक्षा करें हरे सब आधि व्याधि दुख खान ॥ हो०
 गहें वीर मग, बलें सत्य पथ, करें शान्ति रस पान ।
 प्रेमवान छोड़ें नहि "ज्योति" जाय भले ही प्रान ॥ हो०

२३—भजन

जग जीवन का मेला—रे मन ! जग०

दूर दूर के जुड़े बटोही हुआ संग यह मेला ।
 दोय दिना का मेल-जोल सब फिर बिछुरन की बेला ॥ रे मन०
 कौन मात पितु बन्धु भाई कौन पुत्र अलबेला ।
 इष्ट मित्र पति देव नार क्या सब ही सगा सहेला ॥ रे मन०
 पल भर में हो जाँय जुदे सब कोई रहत नहि मेला ।
 बहुते, गए जाँय बहुतेरे, रह गए आप अकेला ॥ रे मन०
 विषय कषाय चोर धन छीनै न छोड़ें इक बेला ।
 "ज्योति" गुरु यों सीख देत हैं सावधान हो चेला ॥ रे मन०

२४—भजन

गावो सब स्वदेश गुणगान ॥ टेक ॥

जन्मभूमि की मूर्ति हिये धर, करिये निशदिन ध्यान,
 सोचो युक्ति वही जिससे हां, जननी का उत्थान । गावो
 मातृभूमि सेवा हित तज दो, ऊँच नीच अभिमान,
 समझो सकल सुधन माता के, हैं जग एक समान । गावो०

मातृभाव की बेल बढ़ाओ, हो जासे कल्याण,
 एक रंग रँग मिलो प्रेम सों तजि ईर्षा मद मान । गावो०
 तीस कोटि सुत होते जननी, पावें कष्ट महान,
 भूल रहे कर्तव्य सभी हा, नहिं देते कुल ध्यान । गावो०

२५—भजन

होय कब ऐसा दिन भगवान ॥ टेक ॥
 भारत जागे, आलस त्यागे, तज निद्रा अज्ञान ।
 उद्यमवन्त होकर करिहै निज पर का कल्याण ॥ होय०
 असि मसि कृषि वाणिज्य चातुरी शिल्पकला गुणखान ।
 न्याय नीति से यह सब करके उपजावे धन धान ॥ होय०
 ब्राह्मण विद्या पढ़े पढ़ावे ादे उपदेश महान ।
 क्षत्री करिहै जग की रक्षा कोई न हो भयवान ॥ होय०
 वैश्य करे वाणिज्य आदि शुभ कर्म धर्म को जान ।
 सेवा शूद्र करें तन मन से राख ध्यान अपमान ॥ होय०
 चारों वर्ण कर्म निज पालें होकर उद्यम वान ।
 तब सब दुख मिट जाय सुखी हो भारत की सन्तान ॥ होय०
 कुल क्रम से ही वर्ण न होवत वर्ण कर्म से जान ।
 याते कर्म करो नित ऐसे रहे आत्म अभिमान ॥ होय०
 धर्मी शुभ कर्मी सब होवें पाकर आत्म ज्ञान ।
 'ज्योति' तब मिट जाय भ्रमण भव जिय पावे शिव ध्यान ॥ होय०

२६—फूल

फूल तुम इतना क्यों इठलात ॥ टेक ॥
 नन्ही कली खिली तुम फूले बने फूल की जात ।
 फूल फूल कर ऐसे फूले, फूले मन न समात ॥ १ ॥

भीनी पवन चलत ज्यों, त्यों तुम मन्द २ मुसकात ।
 वेधत हृदय रसिक अलिंगण के, त्रिन जाने यह बात ॥ २॥
 भंभा वायु भकोरा लागत सब पंखुरी भर जात ।
 रूप रंग रस गंध जाय नसि मिले धूल में गात ॥ ३॥
 चारि दिवस की "ज्योति" चांदनी फेर अंधेरी रात ।
 फूल न फूलो टुक जीवन पर पल छिन माँहि नसात ॥ ४ ॥

२७—भ्रमर

भ्रमर टुक मन में करहु विचार ॥ टेक ॥
 कोमल कमल प्रगट में दीखे, पर हिय बज्र कुठार ।
 याही से पितु नीर न परसे, दूर रहे रवि यार ॥ १ ॥
 ऐसे पापी हृदय कमल से, तुम करते हो प्यार ।
 गंध सुवास फांस में फंस कर प्राण देत हो छार ॥ २॥
 कमल मोह मे विह्वल होय, तुम ऐसे बने गंवार ।
 काठ छेदनी महा शक्ति को मन से दई विसार ॥ ३॥
 जौन निठुर निर्दई न जानै प्रीति रीति को सार ।
 वाके रूप रंग पर मोहे, बार बार धिक्कार ॥ ४॥
 भ्रमर अमर यदि होना चाहो, तो निज 'ज्योति' संभार ।
 खिलै मुदित मन, मिलै शांति रस, बहै प्रेम की धार ॥ ५ ॥

२८—वसन्त

प्रिय आबो वसन्त मनावैं ।
 हिल मिल प्रीति सहित सब बैठें, दुइ के भाव नसावैं ।
 प्रेम मधुर रस सरस सुधा रस पीवैं और पिलावैं ॥ १॥

मन मन्दिर के सिंहासन पर ज्ञान विम्ब पधरावें ।
 श्रद्धा के फल फूलन आदि से पूजा कर गुण गावें ॥ २॥
 जग जीवन का हित नित प्रति हो यही भावना भावें ।
 फैले घर घर बीच अहिंसा जीव सभी सुख पावें ॥ ३ ॥
 देश प्रेम जातीय मित्रता धरम करम लौ लावें ।
 दर्शन ज्ञान चरित कर पालन आत्म शक्ति बढ़ावें ॥ ४ ॥
 विषय कषाय मैल परिहर कर निर्मल आत्म बनावें ।
 भव २ भ्रमण महा दुख कारण कर बस अन्त दिखावें ॥ ५ ॥
 राग द्वेष तम नष्ट करें सम भावन "ज्योति" जगावें ।
 पाय अमर पद सुखद निरापद परमात्म कहलावे ॥ ६ ॥

२६—मायाचारी उपदेशक

सवैया

हाथन हिलाय, मटकाय नैन, देह को नचाय,
 मुंह चाय नाम सभा को रिक्तावे हैं ।
 इह लोक छोड़, परलोक का कथन करें,
 बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बाते बतलावें हैं ॥
 बुरो है चुरुट पान, मदिरा न पीओ भैय्या,
 पर आप सब कुछ लुके छिपे खावें हैं ।
 ऐसे उपदेश दाता फिरत समाज मांहि,
 मायाचारी कर टुक मन न लजावे हैं ॥

३०—सच्चे उपदेशक

जिस विधि मुख सों उचारै बैन ताहि
 विधि धरै हिये तन से भी बाहि विधि करि हैं ।

मन बच तन एक धरत विवेक मन,
 कर पर उपकार हर्ष चित धरि हैं ॥
 बोलत बचन मिष्ट विश्व के सुहित हेत,
 प्रेम की मधुर तान मोह ताप हरि हैं ।
 ऐसे उपदेश दाता भ्राता जग जीवन के,
 करत जो काज ताके तेहि काज सरि हैं ॥

३१—मैली चादर

उजली सी चादर पै मैल चढ़ौ मैलो भई,
 मैली औ कुचैली चीज कौन मन भावे है ।
 अपने पराये सब धिन करें चादर सों,
 आवर सों बुला पास कोई न बिठावे है ॥
 हंसत चतुर नर देख मेरी चादर को,
 अंगुली उठाय जग फबती सुनावे है ।
 कहां जाऊं, कहा करूं, समक न आवे एक,
 देख देख चादर को जिय दुख पावे है ॥

३२—चादर शुद्धि

अपनी ही भूल से चढ़ाय धूल चादर पै,
 भाई मेरे दुख माने हाथ कहा आवे है ।
 यह तो मैल ऐसौ नदी छुटे न छुटाये जो,
 करत उपाय मैल सभी छूट जावे है ॥
 ज्ञान की सुगंग सेती भर कै विवेक जल,
 शुद्ध चिच साबुन को काम में जो लावे है ।

उज्जल हो वाके वीर, कर तू भी यही वीर,
काहे को अधीर होत, मन को दुखावे है ॥

३३—वीर यश छायो है (समस्या)

जीवों को सताय कलपाय, कल पाये नहीं,
हिंसा में घरम नहीं, ऐसा वेद गायो है ।
जीवन चाहत सब मरण से भयभीत,
दुख की न चाह, सुख सभी मन भायो है ॥
या से सब जीवन को अपने समान जान,
हृदय धन सेती दया मेव बरसायो है ।

पायो सुख जीवन ने, भायो दया धर्म मन,
गाया वीर सुयश कि वोर यश छायो है ॥

३४—वीर यश छायो है

आज मिल बैठे सब पुण्यवान, पुण्यवन्त,
पुण्य के प्रताप सेती, पुण्य दिन आयो है ।
पुण्य की ही चरचा है अरचा भी पुण्य ही की,
पुण्य का कथन, राग पुण्य ही का गायो है ॥
पुण्य के औतार वोर, धीर, महावीर, जिन,
पुण्य का प्रचार कर पुण्य प्रगटायो है ।

उनका जनम दिन, छायां है हरप आत्र,
उन ही का घर घर 'ज्योति' यश छायो है ॥

३६—निगशा घन छायो है

मन भाये थियेटर सिनेमा के चित्रपट,
सोते सोते स्वप्न में भी चित्रपट आयो है ।

घर की रसोई शुद्ध रुक्त न साहब को,
 होटल का भोजन अभक्ष्य रुचि खायो है ।
 देश की न ओर ध्यान प्रेम नहीं जाती का,
 धरम करम को ढकोसला बतायो है ।
 लख के सपूतन को इन करतूतन को,
 भारत की आशा में 'निराशा घन छायो है' ।

३६—आसरो तिहारो है

बीतो है अनादि काल भव में भ्रमण किये,
 कभी सुर नर कभी पशु तन धारो है ।
 नरक में जाय कभी नरक के दुख सहे,
 जनम मरण कर कर नित हारो है ।
 पाई है न चैन टुक हुआ हूँ बेचैन अति,
 सुन नाम तेरो अब दुख सब टारो है ।
 आन के पुकारो नाथ हाथ गह उबारो नाथ,
 सच तो है यह मुझे 'आसरो तिहारो है' ।

३७—आसरो तिहारो है

काम ने सतायो, क्रोध मान ने दबायो आय,
 लोभ ने लुभायो छल छल कर डारो है ।
 मोह ने भ्रमायो, द्वेष द्रोह ने गिरायो,
 मन भायो दुराचार, जाने तुमसे बिसारो है ।
 वृष्णा ने वश कर जकड़ा है कस कर,
 जग मे रुलायो और त्रास दे दे मारो है ।

कहाँ जाऊं कहा करूं सूक्त न ओर छोड़,
 आयो तुम पास अब 'आसरो तिहारो है' ।
 ३८—आसरो तिहारो है
 रोवत किसान सर धुनत दूकानदार,
 जमींदार साहूकार दुख लहो भारो है ।
 धके रोजगार भये सभी बिना कार अब,
 हुए हैं लाचार, नहीं सूक्त किनारो है ।
 पेट को न रोटी, तन पर न लंगाटी तक,
 भूखे नंगे दिन काट हाय हा पुकारो है ।
 सबको है सोच, लांच टेरत हैं रात दिन,
 कीजिये उपाय नाथ ! 'आसरो तिहारो है' ।
 ३९—वीर भगवान हैं
 जलों में जूँ गंग जल, फलों में जूँ आम फल,
 गिरों में कैलाश गिर देह में जूँ प्रान है ।
 ताल में कमल जिम, भाल पै तिलक सोहे,
 गगन पर सोहें जिम शशि अरु भान है ।
 निधियों में समकित ऋधियों में प्रेम हित,
 शील और संजम ज्यों रतनों की खान है ।
 'ज्योति' में जूँ ज्ञान ज्योति करत प्रकाश जग,
 वीरन में वीर त्योंही 'वीर भगवान हैं' ।
 ४०—वीर भगवान हैं
 दानियों में दानवीर महाराज श्रेयाँस,
 ध्यानियों में धीर सुखमाल परधान हैं ।

ज्ञानियों में ज्ञानवान गौतम सं गणधर,
 मुनियों में नेम चन्द्र चन्द्र के समान हैं ।
 साधुओं में साधक हैं आत्मा के शुभ चन्द्र,
 पर उपकार्यों में विशु महान हैं ।
 धरिन में धीर वीर महावीर अति वीर,
 वीरन में वीर त्यों ही 'वीर भगवान हैं' ।

४१—दरश दिखायो है

त्याग जग राग, ले वैराग, पाग जिन रस,
 आत्म में लीन होय, आसन लगायो है ।
 देख वीतराग रूप शान्ति स्वरूप छवि,
 ध्यान की अनूपता से मन हरषायो है ।
 आप के बताय हित मग पर पग रख,
 जगत के जीवों ने लाभ अति पायो है ।
 धन धन वीर महावीर जिन राज आज,
 मम अहोभाग्य तुम 'दरश दिखायो है' ।

४२—दरश दिखायो है

दिया उपदेश दया धरम का हित कर,
 हिंसा में पाप महा पाप बतलायो है ।
 तज के कषाय अरु विषयों की वासना को,
 आत्म कल्याण करो मग यह सुझायो है ।
 पर से ममत छोड़ निज से स्नेह जोड़,
 आत्म में लीन निजाधीन पद पायो है ।
 धन धन ऐसे महावीर जिन राज आज,
 मम अहोभाग्य तुम दरश दिखायो है ।

४३—विहार की

नविया था साल माघ मास काला पखवाड़ा,
 तिथि थी अमावस सो वो भी सोमवार की ।
 समय दोपहर का था, बजे होंगे सवा दो,
 भूमि लगी डग-मग डोलने विहार की ।
 थड़ा धड़, भड़ा भड़, गिरे महल मन्दिर, हा !
 रही न निशानी शेष घर अरु द्वार की ।
 दब गये, मर गये, मनुष्य हज़ारों लाखों,
 जनता ने भयभीत होय हा हा कार को

४४—विहार की ।

घनवान घनहीन हुए एक क्षण मांहि,
 आरथिक हानि हुई लाखन हज़ार की ।
 मरे हैं कुटुम्बी जन, रहे हैं अकेले एक,
 रोय रहे कर कर याद परिवार की ।
 फला फूला देश सब हुआ बरबाद अब,
 अहो भाई देखो दशा जगत असार की ।
 दम के दमामें सब दम में ही बज उठे,
 दम में पलट गई सुरत 'विहार की' ।

४५—विहार की ।

मित्र से विश्वास घात, भाई से विरोध बैर,
 करत अन्याय नित चाह तक़रार की ।
 तज लोक लाज भय करत अकाज रहे,
 काल की न सुध, सुध सम्पत अपार की ।

तृष्णा के बशी भूत होय परपंच रचें,
द्वेष की न थाह, राह चलें दुराचार की ।
ऐसे भूमि भार दुक चित में निहार देखें,
एक दम गई काया पलट 'विहार की' ।

३६—विहार की ।

क्रोध के औतार चढ़े मान के शिखर पर,
बढ़ बढ़ बातें नित करे अहंकार की ।
लोभ के हो बश नित करत कपट छल,
भूठ बोल जमा जोड़ें लाखन हजार की ।
करत अनीति नित हरत परायो धन,
पाप से न भय खांय, बने पूरे नारकी ।
ऐसे दुराचारी नर, भली भाँति आंखें खोल,
सीखें कुल्ल सीख, दशा देख के 'विहार की' ।

४७ अहिंसा व्रत धारी के

माल मतवाले कोई, शाल मतवाले कोई,
कोई मतवाले निज सुन्दर सी नारी के ।
राज की है चाह, कोई चाहत अटूट धन,
कोई कोई इच्छुक हैं पद सरकारी के ।
कोई नर चाहे मान, कोई राज पदविर्ये,
कोई जी हजूर बनें राज्य अधिकारी के ।
हमें तो है चाह करें नित्य पूजा हृदय से,
हम तो पुजारी हैं, 'अहिंसा व्रत धारी के' ।

४८—जीवन नैय्या

कौन के मात पिता सुत दारा,
 कौन की भगिनी कौन के भैय्या ।
 कौन के मन्दिर महल अटारी,
 कौन के सुन्दर बारा बगैय्या ।
 जग की वस्तु समस्त विनासत,
 तन धन यौवन रूप रुपैय्या ।
 इनसे विमुख होय सुख उपजे,
 पार लगे यह जीवन नैय्या ।

४९—जीवन नैय्या

वीर प्रभू लई शरण तिहारी,
 तुम भव सागर पार करैय्या ।
 भूले भटके हम दुखियन की,
 पीर हरैय्या धीर धरैय्या ।
 भ्रम तम नाशक, सत्य प्रकाशक,
 ज्ञान दीप की ज्योति जगैय्या ।
 जोड़ युगल कर विनबूँ भगवन,
 पार करो मम जीवन नैय्या ।

५०—निराली है ।

बाहर दिखात नेह मन माँहि द्वेष भरो,
 उपर से धौली अरु भीतर से काली हूँ ।
 मन में बिकार, पर वचन मे मीठापन,

कहें कुछ, करें कुछ, नीति यह सम्भाली है ।
 मायाचारी कर, पर लोगन दिखायवे को,
 तिलक लगाय माला हाथ में उठाली है ।
 जगत को ठगत भये, बगुला भगत भये,
 रच के प्रपंच चले चाल क्या 'निराली है' ।

५१—निराली है ।

तन में लंगोटी नहीं, पेटहु को रोटी नहीं,
 छपरे में फूस नहीं, लोटा है न थाली है ।
 गांठ में छदाम नहीं, करवे को काम नहीं,
 दिन रात सुबह शाम समय सब खाली है ।
 ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, आदर सम्मान नहीं,
 पीवन को चिन्ता रस, खावन को गाली है ।
 तापर भी बनें फिर रावण के बड़े भैया,
 देखो इन ऐंठे खां की शान क्या 'निराली है' ।

५२—निराली है

बूढ़े बाबा मौंर बाँध, चले ब्याह धरन को,
 आँखन में स्याही लगा हाथन में लाली है ।
 पोती के समान बधु आठ दस बरस की,
 जानत न बात कछु ऐसी भोली भाली है ।
 जैसे बनराज आय मृगी को दबाय लेत,
 तैसे बूढ़े बाबा जी ने पोती को दबाली है ।
 कहाँ बर सत्तर को, आठ नौ की बधु कहाँ,
 ऊंट के गले में ढाल बात क्या 'निराली है' ।

५३—निराली है

अहो वीर महावीर जीवन है तेरो घन्य,
 जगत के जीवन की विपदा जो टाली है ।
 काट कर पशु तब होमें जाते यहहु में,
 दया के प्रताप, जान उनकी बचा ली है ।
 ऊँच नीच भेद मिटा साम्य का प्रचार किये,
 बिश्व में फैलाई 'ज्योति' सम्यक उजाली है ।
 फूँको सिहनाद दया धरम का चहुँ ओर,
 अहो कृपासिन्धु तेरी महिमा 'निराली है' ।

५४—ऐसा आयगा

मित्र द्रोही होंगे मित्र करेंगे विरवासघात,
 भाइयों में बैर भाव अति बढ़ जायगा ।
 बाप अरु बेटों में रहेगी नित खटापटी,
 स्वार्थ बश होके एक दूसरे को खायगा ।
 दगाबाजी मायाचारी भूठ छल छिद्र लोभ,
 व्यभिचार दुराचार आदि पाप छायगा ।
 फैलेगा अधेरा चहुँ ओर घोर पापन का,
 यह कौन जाने था कि समय 'ऐसा आयगा' ।

५५—दिवाली है ।

आज नवयुवकों ने फ़ैशन बनाया खूब,
 वालों को सँभाल मांग पट्टी हु निकाली है ।
 मूछों को मुड़ाय कर, जनखा बनाया भेष,
 पान को चबाय मुख चुरट दबाली है ।

कालर गले में लटकाय सूट बूट हैट,
 पहन पहन शकल अध-गोरों सी बनाली है ।
 देश के सपूत ऐसे जाने यह बात कैसे,
 आज हमारे घर माँहि होली या 'दिवाली है' ? ।

५६—दिवाली है ।

फाटके ने फाटक उधाड़े अलमारियों के,
 भरी हुई थैलियों को कर दिया खाली है ।
 सैंकड़ों वरष के थे साहूकार लालामल,
 बड़न की आधरू में इन खाक डाली है ।
 घर में न घर रहा, हाट मे न हाट रही,
 नार पै न रहो नथ विछुवैन वाली है ।
 फाटके सं बन गये फाटे वेग लालामल,
 देखो ये दिवालियों कीदुखिया 'दिवाली' है ।

५७--दिवाली है

घर आई लक्ष्मी को फैंक निज हाथन से,
 तज लोक लाज ला वेश्या नचाली है ।
 लुटवाई बारा बाड़ी फूंक दई आतिशवाप्ती,
 बूर और वाइन में सम्गति लुटाली है ।
 जाति में हो जाय नाम, देश में छा जाय यश,
 घर की हवेली हाट सभी बेच डाली है ।
 आज मुहताज फिरँ एक एक दमड़ी को,
 ऐसे निरभागियों की कहो 'क्या दिवाली है ।'

५८—दिवाली है

जाने आज खेल जुआ छक्का पंजा सीया हुआ,
 सम्पत्त को हार, नार घर की हराती है ।
 बागहु बगीचे हार हार के हवेली हाट,
 कोठी और बंगलों को कर दिया खाली है ।
 तग के वसन और भूषण भी हार दिये,
 हार दिये भाँड़े सब लोटा और थाली है ।
 पाण्डवों के भैया बने, नल के सललैया बने,
 जुए के खिलैयन की बैरिन 'दिवाली है ।'

५९—दिवाली

चेहरे पै पीलापन, तन में निबलपन,
 गई नवयुवकों की शक्ति आर लाली है ।
 घुटनों पै हाथ घर उठें और बैठें नित,
 चाल डगमगाली सी चलें क्या निराली है ।
 जीवन की चाह छोड़, वीर्य जैसी सम्पत्ति को
 श्वान हाड़वत निज हाथों लुटा डाली है ।
 जग में उजाला आज रोशनी दिवाली की है,
 पर इन धीरन की चौपट 'दिवाली है ।'

६०—राम रखवाली है

भादवे की धूप तेज सिंह का सूरज तपे,
 जंगल के मिरगों की खाल भई काली है ।
 हलबाह जोत के किसान ने बनायो खेत,
 जास तन बदन की चमड़ी सुखाली है ।

बीज बोय, पानी सींच, करके नुलाई फिर,
काट माह जिनस को तभी बेब डाली है ।
सरकार साहूकार जमीदार और दार,
ऐंठ लिया सब याकौ 'राम रखवाली है ।'

६१—पानी (हमारी पुकार)

हे घनश्याम गए कित वे दिन, तुम प्रताप हम मौज उड़ानी ।
माखन मिश्री दूध दही घी, मेवा खात रहे मनमानी ॥
पर अब मिलत न रूखी रोटी, कठिन लंगोटी तन पर पानी ।
दुख से रोते हम दुखियन की, सूख गयौ अंखियन का 'पानी' ॥

६२—पानी

निश दिन मेहनत करने-करते, बीत गई सगरी जिंदगानी ।
पेट भराई मिली न रोटी, पाई न गांठ को कौड़ी कानी ॥
दमड़ी की नहीं रोग में औषधि, दूध दही की कौन कहानी ।
या दुख से रोते दुखियन की, बहत निरन्तर अंखियन 'पानी' ॥

६३—पानी

विप्र सुदामा गए कृष्ण घर, यद्यपि मित्रता भई पुरानी ।
पर सुन नाम सुदामा प्रभु ने, आय द्वार पर की अगवानी ॥
हाथ पकड़ आसन बिठलायौ, पूत्री कुशल बोल मृदुबानी ।
षट रस व्यंजन द्रव्य परोसे, और पिलाया ठंडा 'पानी' ॥

६४—पानी (कलिहारी स्त्री)

चारक पाहुने आये जला के, बोल उठी खिसयाय ललानी ।
आग लगौ इत उबते घर को, करनी पड़ गई नित महमानी ॥

टिक्कड़ पोले ज्वार मका के, खिक्कड़ रांघ के घर मिश्रानी ।
साग में घोल दे नून टका भर, दाल में डाल दे खारा 'पानी' ॥

६५—पानी (आदर्श स्त्री)

आये घर महमान हमारे, धन धन भाग सफल जिद्दगानी ।
झाड़ बुहार संवार रसोई, भोजन की तैयारी करानी ॥
दाल भात रोटी अरु हलुआ, पूरी खीर बना मिश्रानी ।
प्रेम के साथ जिमा तू भोजन, मैं दूंगी भर टंडा 'पानी' ॥

६६—चाह

यश की न चाह षट रस की न चाह,
विषैभोग की न चाह, चाह नहीं लोक लाज की ।
शाल धन माल की न चाह घोड़े हाथिन की,
घर हाट बाग की न चाह तख्तो ताज की ।
पुत्र मित्र नार परिवार की न चाह टुक,
चाह नहीं भूषण वसन कुछ साज की ।
सच तो ये बात चाह चित्त मे है 'ज्योति' यह
बीतराग बन पायें मुक्त जिन राज की ।

६७—वीर ही कहायेंगे

तज के विदेशी चीज, लेवेंगे स्वदेशी शुद्ध,
प्रण ये हमाग इस जेते जी निभायेंगे ।
फ्रैशन के भूत का अछूत जान तज दियो,
सदाचार धार उच्च जीवन बनायेंगे ।
स्वारथ को छार, धार सेबात्रत मार मन,
कर्म वीर बन पीर देश को मिटायेंगे ।

जग में पताका फहरायेंगे अहिंसा की,
वीर के कहाय सुत वीर ही कहायेंगे ।

६८—सब उड़ जायेंगे ।

भारत के लाल दौऊ, हिन्दु व मुसलमान,
टूटे दिल दौऊन के जब जुड़ जायेंगे ।

छूटेगी नमाज़ और बाजेकी ज़िद सब,
बैर और विरोध से ही मुख मुड़ जायेंगे ।

दूध और शक्कर समान मिल होंगे एक,
तब दुख इनके स्वतः ही उड़ जायेंगे ।

छाय रहे आज जो मुसीबत के बादल वे,
प्रेम के पवन सेती सब 'उड़ जायेंगे' ।

६९—देश की भलाई में ।

स्वारथ के मदमाते भूल परमारथ को,
अपनी भलाई चाहें देश की बुगई में ।

भूठ छल छिद्र मायाचारी से निकालें काम,
बनाय बात रहे दिन रात लगे पाप की कमाई में ।

नाम बदनाम हुआ काम भी तमाम हुआ,
लोक लाज गई सब जगत हंसाई में ।

सब तो ये बात 'ज्योति' गाँठहु में बाँध लेहु,
आपनी भलाई भय्या 'देश की भलाई में' ।

७०—अछूत क्यों कहाते हैं ?

तन है अशुचि भरा मल-मूत्र गन्दगी से,
उच्छव वर्ण वालों जैसा तन सब पाते हैं ।

पानी में नहाके करें पूजन भजन जप,
 अन्न, जल, दूध, फल भारत का खाते हैं ।
 माने देवी देवता को सर पै रखावें शिखा,
 करें राम राम नित हरी गुण गाते हैं ।
 राम दास, हरी दास, नाम सब हिन्दु आने,
 राम जाने फिर भी अछूत क्यों कहाते हैं ?

७१—मोक्ष पद पाइये ।

आत्मा के चार रिपु, क्रोध मान माया लोभ,
 ध्यान की कमान तान मार के भगाइये ।
 राग, द्वेष, नाम के लुटेरे छूटें ज्ञान-निधि,
 प्रेम की संभाल ढाल द्रव्य को बचाइये ।
 दयाधार, संजम संभार मार विषयों को,
 तप की हुताशन में करम जराइये ।
 पर का ममत् त्याग, पाग निज आत्म में,
 छूट बहिरात्म से 'मोक्ष पद पाइये' ।

७२—सबकी

दूसरे की सुनें नाहि अपनी ही कहे जांय,
 सुने भी तो सुनें बात निज मतलब की ।
 यदि कोई हठी होय चहत्त सुनावने को,
 मन में कुपित होय, देत रहें भवकी ।
 राग से निभायो राग त्याग कर त्यागहु को,
 स्वार्थ को सघायो बात कर अब तब की ।

कोऊ कहें ऐसी दशा भई बहु लोगन की,
पर हम कहें दशा ऐसी भई 'सबकी' ।

७३—होली का राग ।

हम किस विधि खेलें होली ?

जुदा जुदा कर दिये फूट ने, नहीं बनत है टोली,
पीले मुख पर रंग न सोहै, भूखे पेट ठठोली ॥ हम० ॥
गीत गान असलील भये सब, और विदेशी बोली,
स्वाग तमाशे के वश होकर भारत ने पत खोली । हम० ॥
रंग भंग सष किये जंग ने, मिले वस्तु बहुमोली,
अन्न, वस्त्र धी तेल मिठाई, बड़ी सभी की बोली । हम० ।
व्यर्थ व्यय और जाति रीति ने, बंधी गाँठ को खोली,
सब धन जाता रहा गाँठ से पड़ गई गिरह पपोली ।
यहाँ न अङ्गा है तन नङ्गा वहाँ न घर में चोली,
यासे घर घर छाई उदासी, आई बैरन होली । हम० ।
भूखे भक्ति न होय गोपाला, नंगे होत न होली,
अब मन मार बैठ घर 'ज्योति' अपनी होली होली ।

७४—बूढ़े का सहारा ।

मेरा हरियाला बनरा, देखो री सब लाल । टेक ।
सर बनरे के सहारा सोहं, धौले पड़ गये बाल,
आँख बने के स्याही सोहै पर गुच्च मुच्च है हाल ॥१॥ मेरा०
मुंह मे पान बने के सोहै, जिससे टपके राल,
हाथ बने के मेंहदा सोहै किए खून में लाल ॥२॥ मेरा०

गात बने के जामा सोहे लटक गई सब खाल,
 पैर बने के जूता सोहे चले बिगमगी चाल ॥३॥ मेरा०
 गले पड़ी जंजीरें सोहें जैसे पड़ा बगाल,
 कंगना बीच कलाई सोहे देइ हथकड़ी डाल ॥४॥ मेरा०
 दाँत नहीं बनरे के मुँह में पोले पड़ गए गाल,
 खून नहीं बनरे के तन में बिल्कुल हुआ निडाल ॥५॥ मेरा०
 बारा पड़े बाराती सोहें ज्युं कोढ़ी कंगाल,
 पगड़ी बाँध चौधरी सोहें हों जैसे दलाल ॥६॥ मेरा०
 लोग बने की खैर मनावे सिर पे ठाड़ा काल,
 अरे देश के लोगो जागो कहे गलवृ नक्काल ॥७॥ मेरा०

७५—क्योंकर हो भला ?

दिल दुखी उसका न क्योंकर हो भला
 जो दुखाता और का दिल ही सदा ?
 मित्र से छलछन्द जो छलिया करे
 क्यों न आवे उस अधम पर आपदा ?



अनुक्रमणिका

अ	जौहरीमल ३७, ८२
अजित प्रसाद ९०	जय प्रकाश ६, १९, ३२
उ	ज्वाला प्रसाद १९, २०, ६२, ६३, ६४
उदयलाल काशलीवाल ३७	झ
ऋ	झुझीलाल ७, ४८
ऋषभदास २६, ३८, ३९	भूमनलाल २६, ३९
ऋषभ ब्रह्मचर्य आश्रम २०, ३०, ६०	द
क	दयाचन्द गोयलीय २६, ३७
कस्तूर चन्द ३७	दयानन्द ९
ग	दि० जैन परिषद ३०
गोपालदास ७३	दीवानचन्द २६
गोमीदेवी ५१	दरबारोलाल ३७
घ	न
चन्दूलाल २६, ८०	नत्थमल ६
ज	नागरी प्रचारिणी सभा काशी ३१
जुगल किशोर मुख्तार १०, ११,	नाथूराम प्रेमी ३७, ८२
जैन अनाथ आश्रम २४, ३०, ६१	ब, भ
जैनेन्द्र गुरुकुल २०, ३१, ४९,	बलवीर चन्द ३२
६०, ६४, ६८	भगतराम २७
जैन महा मण्डल ३०, २६, ६५, ७४	भा० दि० जैन महासभा ४, २३
जैन मित्र मण्डल ६१, ७९	३०, ४८, ७४

भूधरदास ४७
भोलानाथ २६, ३७

म

मंगतराम ४८
मन्दोदरी देवी २१
मार्टिनल्यूथर ६ .

र

राम मोहन राय ९

व

विक्टोरिया १

श

शीतल प्रसाद (ब०) ३७, ४०, ८२

श्यामसुन्दरलाल ७५

स

सनातन जैन समाज ३६, ४०

सुदर्शनलाल ७५

सूरजभान ७, ८, ६, १०, ११, १२

१३, १८, २६, ३४, ३७, ३८, ३९

४०, ४२, ६५

ह

हरनामसिंह १८, १६

ज्ञ

ज्ञानचन्द ३७

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं०

२६१११

लेखक

जी. मा. दयाल

शीर्षक

ज्यात प्रसाद

खण्ड

क्रम संख्या

२२२